સત પંથ દર્શન

ૐ

શ્રી સતગોર બ્રહ્માં હો

This Book Presented

[redacted]

સત પંથ દર્શન

ૐ

શ્રી સતગોર બ્રહ્માંહો

This Book Presented
[redacted]

The owner of this book claims that this book is more than 100 years old (as in 2010)





ीरनबांधेसे: ॥७६॥: जीरेमा
ीदानवः नरवसंकर से:
ा टोचरणासेजेजेकाररे
ीवानु टोरनबांधेसे: ७७:
जीरेसैनसघ लुचालीआ
वसे: हवेमाउंचानोकरो
वीच्चाररे: वीवानु टोरनंब
धसे: ॥७८॥: जीरेजंबुदीप
माहाहोजी आवीयाः गोर:
ख्मांनेदरवाररेवीवानु
टोरनंबांधेंसे: ॥७९॥: जीर
धोसटोमगंसगावसे: हवे
म रोनेवीच्चाररे:



वीवानु तोरंन बांधे सेः ॥८॥
जीरे वसंवा कुंवारी शाह
परंने सेः गोर ब्रह्माजी भन
से तो हावे हरेः वीवानु तो
न बांधे सेः ॥८१॥ः जीरे मा
रे आव्या मारा माव जीः तो
तो चवदा भवनना धेराय
रेः वीवानु तोरंन बांधे से
जीरे मांडवो छीपे वन म
लीः तारे सासु जी पोष व
ने आव्या रेः वीवानु तो
न बांधे सेः ॥ ः जीरे



षयात्रीभवनं हइआमाहेह
रषीयाः तेतोआव्याछेचो
कमोक्षाररेः वीवानुतोर
नबांधसेः॥८॥ गाजीरेत
तनछलावीनेहाहोजीबे
ठाः बेहातेमाहेरामोक्षारर
वीवानुतोरनबांधसेः॥९॥:
जीरेपरनीत्रीभवनंहइडा
माहेहरषीयाः तारेगोरख
नांबोल्यावेररेः वीवानु
तोरनबांधसेः॥१०॥ः जी
पहेलातेमगंलवरतीया॥ः



सरचे सैन थया साच ध्यान रे
वीवा(नु पोर न बांधसे: व
जीरे बी(जु पे मगंल वर
तीया: सरच सैन माथा से
जे जे कार रे: वीवा(नु पो
न बांधसे: ॥२॥: जीरे त्री
जा पे मगल वर तीया: सत
यो धोल पे मगंल गाये रे:
वीवा(नु पोर नं बांधसे
जीरे चोथो पे मगंल वरती
या: वर कन्यां पेक सार
ये रे: वीवा(नु पोर नं बांध



जीरे माउंवा माहे सेन संघ
ला बेसीयाः हवे पेरामनी
नो करो वीचाररेः वीवानु
तोरनं बांधसेः ॥१९॥ः जी
रे माउं वो सरवे पुरो थयोः
तो पोपरन्या त्रीभवनंनाथ
रेः वीवानु तोरनं बांधसेः १२
जीरे सवा लाष वर सनुरा
जपुरा वसेः तारपछी मा
हारनं थाये रेः वीवानु तो
रनं बांधसेः ॥१३॥ः जीरे
दसोंद सुकरी ता जेनरपुरा
होसेः तो पामसे अम



रापुरनो राज रेः वीवानुतो
रनं बांधे सेः ॥१९॥ः जीरेये
मबोल्या गोर ईमामशाः
खोल बोल्या छे जेजे का
रेरेः वीवानु तोरन बांध
सेः ॥१९॥ः जीरे येकोई घो
लसांभलेः तोनाजुगजुग
ना जासे पापरेः वीवानु
तोरनं बांधे सेः ॥२१॥ः



श्री सतगोर ब्रह्मा होवाचाः
जहीरे सतपथं उपनाः ताई



नहीमायेनबापःचंद्र सुरज

नहीत्रथमीःस्वामीजीआ

पोहीआपःयेसदसाचुजा

नजोःमाराखेसरवीराः

अरेभाईमिनंमाहेआनजोः

जेमपरषजोहीराःयेसद

साचुजानंजोः॥१॥ःछत्री

सजुगचवव्यासीचनकजीः

चंवकारपाहाणाःसातदीप

समेरुमेषलाःषंडदीपकोई

नहोताःयेसदसाचुजानं

जोःगराःमाराखेसरवीराः

अरेभाईमिनंमाहेआनंजोः



जेमपरषीलेजोहीराःयेस
दासाचुजानंजोः॥२२॥ःआ
दघटब्रह्मांडथापीयाःच्या
रहीजुगनापुराः अनंदच
लीनरुपपुहीकीयाःश्रीस्र
करतारपुहीःयेसतसाचु
जानंजोःमारारकेसरवीः
राःअरेभाईमनमाहेआनं
जोःजेमपरषीलेजोहीराः
येसतसाचुजानंजोः॥२३॥ः
ईकछेदीनेतोनेत्रीभचनरं
चीयांःघरमंजुगदातांहां
यापीहोवीराःउतमंकरनीः



कमावता: मोष भुगतता हो
आपी हो वीरा: उतमें करनी
कमावता: पगपाछानाही
जे: येसतसाचु जानजो:
मारा रके सरवीरा: अरे
भाई मनं माहे आनंजो:
जेम परषी लेजो हीरा:
येसतसाचु जानजो: २:
येक मुरतवनं देवता:
नही स्वामी रहीया हो व्यापी:
येने हीनं जेनें वो लषया:
तेतो भुल्या हो पापी: ३:
येसतसाचु जानंजो: ॥:



मारा रके सरवीरा: अरे
भाई मन माहे आन जो: जे
भपरषी लेजो हीरा: येसत
साचु जानंजो: ॥५॥: च्या
रकलप माहे जपा मेथा:
टेत्रीस सीधा: कीन रे को
डुवत्रीस: पाटनं थीपसा
रोचालसे: जंबुदीप मा
हे पैठा: येसत साचु जान
जो: ॥६॥: च्याररुप हरी
येलीधा: जुग जुग कर
टाहो माहे: पधंराकरो
डी जीवने भीया जुगकर



काहोमाहेःपचंवीकरोडी
जीवनेमीयाःजुगकरता
होमाहेःपाचकरोडीजीव
नेमीयाःकोडीदसभुल्या
होत्याहाःपाचसुश्रीनर
सहीनेवोलषयाःगतलो
काहोमाहेःपाचसुपहेलो
दमोषताःअमरापुरीमा
हेःयेसतसाचुजानजोः ८
त्रनंरुपकरीयेलीधाःजु
गतरताहोमाहेःयेकवी
सकरोडीजीवनेमीयाः
जुगत्रताहोमाहेःसातक



रोडीजीवनीपनाःचवदा
भुल्याहोमाहेःसाधासु
गोरवचीस्टचोलपयाः
गादलोकाहोमाहेःसाद
सुहरीचंद्रमोषीदाअम
रापुरमाहेःयेसदासाखुजा
नजोःगादाहोरिकपहरीये
लीधाःजुगव्हापारमाहेःस
दावीसकोडीजीवनेमीयाः
डुगव्हापारमाहेःनवको
डीजीवनीपनाःअहराभु
ल्याहोसाहोःनवसुगोर



चीदव्या सबोलषयाः गत
लोका होमाहेः नच सुपा
डंवमोषी दाः अमरापुर
माहेः येसदसा जु जानं
जोः गइ गः येक रुप ना वारा
वर दीयाः आजक लजु
गमाहेः छत्रीस क्रोडी जी
वने भीयाः जुग कल जु
गमाहेः बारा करोडीजी
वनीपनाः चोवीस अुल्या
होया हाः बारा सुगुर मह
मद ब्रह्मां जी बोलषयाः



गपलोकाहोमाहे:बारा
सुरमाहादेवमोषीता:अम
रापुरमाहे:येसतसाधु
जानजो:गकां:दसमोरुप
हरीलेसे:जुगनादीकमा
हे:अनंतकरोडीजीवने
मीया:जुगनादीकमाहे:
राजानहीकोईमोकासी:
नहीकोईवीरजंनहार:अ
नंतकोडीयेबोलपया:
श्रीनीकलंकीराव:काली



गरदान वने छेद से: कर
सेभक्तो नानीस्वार: ये
सत साचु जानं जो: मा
वारके सरवीरा: अरेमा
ईमीनं माहे आनं जो: जे
मपर षीले जो हीरा: ये
सत साचु जानं जो: ७५:

॥ श्री ॥ सत गोर शाहा देव
वाचा: भाई धंधु तो कार मा
हे कोन हीरयांनी: गोर ईमा
मशाहा पीर वषानी: जोत
नीरंजन अलीनी कहीये:



तोकायेमआलचलावीरे ॥१॥:
भाईआलेरेआले:नुरआ
वीयुःआनेआलपेअवर
होयेःआलछोडीजेकोइभ
त्यागवारा:तोकुडीयारा
होजषमाहेरे:॥२॥:भाइ
छतीसजुगचवच्यासीच
वकडी:आनेध्यानधरीने
हेताउपनुःनरनेतोअका
रउपनुःतारेइडिंनीपायु
येकरे:॥३॥भाईकोडीइडिंने
स्वामीयेत्रीभवनंरचीया:



५११७४॥

अनेअगमजोतनीहानीः
जोतथकीनुरनीपायुः
त्यारेब्रह्मांचीसंनुमहेसरो
रेःगनाः भाइत्रनंमुरतये
कजोतसुषेसेःआनेसो
हीनीरजंनअलीआपः
अलीनवीतेनामभनावी
युःआनेकलजुगछेलुई
ध्यानंरेःगडाः भाइकिलजु
गछेलडीसधंछेःआनेतमे
चेटोमुनीवरभाइःसा
चेरमानेचालसोतोक



लसे तमारी कमाई रेः॥६॥

भाईमनं अभीमान नत्या

वीयाः आने अभीमानना

होवे रेवी नासः अभीमाने

तेरावनं मारीयाः दसम

स्ताक छेदीला होये रेः७ः

भाई काम क्रोध अहंकार

ने मारीयेः आने घरनी

ना गुन आपः जीवतास

रतंग होईने चालसोः तो

सरसे तमारो काज रेः८ः

भाई जीकर फीकर मांगं

जोः आनेजीकरेजागो
रनं वातः हे ते सुकरीतः
रसोरंदीजीयेः तो हे तेना
षोईमानं रेः ॥६॥: भाई
पुरनंभागपहेलातमा
राः आनेगोरब्रह्मांजीये
पायेलाः गोरब्रह्मांजीने
वोलषयातोथररापोअ
पनाईमानं रेः ॥७॥: भाई
मीतकरीपरीब्रह्मंरीक्षा
वीयेः आनेशाहापीरसु
करनाभोगः शाहोनीसे



जडीजेचडे: तोपुरनसया
गनसोहीरे:॥१५॥: भाई
हेतोकरीनेबोलावीये:आ
नेघटपाटथापीनेपीजीये
नुर:गोरनेगातानेचोराध
करता:मलीमलीपीजी
येनुररे:॥१६॥: भाईहेतोक
रीनेश्रीपाकीजीये:आनेहे
तोचरसेनुर:हेतोकरीने
चोराधीये:तोहेतोदीजे
दानरे:॥१७॥: भाईषिरीह्रस
वदीरेदीजीये:आनेयेको



पारसेपीडीनासीजसेका
मःफळंपरवारसवारी
येःतोशाहापीरनादीधा
रथायेरेः॥१७॥ भाईयेगी
न्यानमाहारसभनेगोर
इमामंशाहाःआनेसाचु
जानोनीरधारःअगंम
चानीकथीसमंकावीयाः
तोतमेमुनीवरथावो
कुसीयारेरेः॥१८॥



॥श्री सतगोर हा॥ हादेववा
चाः जीरे भाई गोर नुकु
जेन हीमाने: तेतोजासे
घोर अधांरः जीरे भाई
पार कीनीरयां जेन रकर
से: तेना कीया रे हवाल:
जीरे भाई तेना हवाल:
गोर कथया छे: तामे रषे
था सो अजान:॥३॥जी
रे भाई नीरयां करीने जेन
र भुल्या: तेने रषे अभड
सो:॥३॥: जीरे भाई जुगक



ल जुगमा मोटीछेनीदयां:
रषेतमेअंगीकारीकरता: ११७
जीरे भाई आंगीकार क
र्याना फल छे खोटा तेतो
पछे सेहो जगमोटा: ॥६॥:
जीरे भाई दोजक मानाषी
नेः दुषताहेसेः त्राहे त्राहे
जीव जोता करसेः ॥७॥:
जीरे भाई तेनी जीभ नेस
पजो छ ससेः हर दुबासी
ने षाक जो करसेः ॥८॥:
जीरे भाई येछे ते दुषनीः



दयांकारीनेयासेःत्यारेहो
जगकरसेपुकारः ॥६॥ जी
रेभाईहोजषवीजीदेहीघ
रसेःआवसेकबीरहीनने
पासः॥७॥ः जीरेभाईहेसंन
कबीरहीनंहोजषनेपुछसेः
होजषपुकेमआव्योः॥८॥
जीरेभाईपोताजुदुषजा
रेहोजगकहेसेःआवोपापी
मजमाहेनाषयोः॥९२॥ःजी
रेभाईदोनादुषथीछुटाजु



[illegible]

धु:हवेकीयाकरु उपाये:१३
जीरे भाईहसंन कबीरदी
नेषलको आव्यो:दोजक
दुयेनेपेर:॥१४॥: जीरेभा
ईषलकोपेरीनेदोजकत्या
आव्यो:पीटफीरावीनेबे
ठो:॥१५॥: जीरेभाईहसनं
कबीरदीनथासेबावरा:
मुरषकानदीचेल्यो:॥१६॥:
जीरेभाईअगमचेताव्यो
तोहेनाचेल्यो:मुरषथयो
अजान:॥१७॥:जीरेभाई
काकंनबधांव्यानेसाह



भमलीयाः नामे ल्यानीदयां
नाचालाः॥१८॥ः जीरेभाई
नीदयांकरसे तोष नुपस्या॥
से: तोनाषोटा हवाला:॥१९॥
जीरेभाई नीदयांकरे तेतो
दुनयाजानेः तोनीसे होज
गजासे:॥२०॥: जीरेभाईनी
दयांकरीने जेन रचलीयाः
क्रोडीचोवीसमा भलीयाः
जीरेभाई गीन्यानं सुनी
नेजेनर गलीयाः अनंग
करोडीमाहे भलीयाः२२ः
जीरेभाई अनंतमामल



वानोः मोटोवीच्यारःजान
मुनीवरसचीयारः॥२३॥ः
जीरेभाईकाकनबधावी
नेनीरयांजेकरसेः माता
गमंनटोनेचउसेः॥२४॥ः
जीरेभाईःचेतांन हारातमे
चेतीनेरहेजोः माहारा
जलेषाजोलेसेः॥२५॥ः
जीरेभाईमोमंनथईने
गतमानहीमलसेः रा॥
हानाछतारपालेथीटल
सेः॥२६॥ः जीरेभाईटोनाकी
रस्वामारीनेकाउसेःक



दीषानामा भल्यो तोः २७
जीरे भाईः मोमनं थईनेः
नींदंयाजो करसेः तेना
गोरनही बेलीः ॥ २८ ॥ः
जीरे भाई गोरना फरमा
व्याजे नही करसेः तेजा
से घोर अंधारः ॥ २९ ॥ः
जीरे भाई पाछमं दीसा
टी स्वामी मारो चडसेः
तेले से सचीयारा साथः
जीरे भाई कुडा कपटी नेः
तेतो छाडीनाष सेः छाट
से सुघागमारः ॥ ३० ॥ः जी



रेभाइ: दसचंदाहइनेपहे
ले: छाहसे: फरीछाहसेह
ले: ॥३२॥: जीरे भाइवीहो
नेभारीनेकरालजोकर
से: स्वामीराजालेषाजे
लेसे: ॥३३॥: जीरे भाइमे
रीयांनवनरवसंजोकर
से: रषीयानेराजजोदेसे: ३४
जीरेभाइकिमक्का कुवर:
सीरभरनभरावसे: सुर
जारानीलावाजोलेसे: ३५
जीरेभाइहिसंनकबीरदी



नअनंदानागोरः पावंद
सुअरजजोकरसेः॥३५॥
जीरेभाईअनंदाकरोडी
माः गुनेगारजीवछेः॥
दोस्वामीदामेबकसजोः
जीरेभाईः स्वामीसुषदी
पोदोजेबोलेः चोगनीस
दोसनहीबकसुः॥३८॥
जीरेभाईबीसमादोल
नेपुछनुनहीदोसेःजासे
भीस्वामुकामः॥३९॥ जी
रेभाईहिसनंकबीरदीनं



५॥२३॥

बोल्या गीन्यान: कुळमा
चउसे दोआषर चउसे: २४

श्री सतगोर शाहादेव
वाचा: जीरे अमर बोधा
बोमारे आवीया: शाहा
तोझरेवा अमर नानुर:
बोधा बोरे शाहाने: ॥१॥:
जीरे पहेलो बोधा बोसी
वसक दीनो: शाहातो
जोतीसरुपना वास:



वोधावो रे हा हाने: ॥२॥
जीरे बीजो वोधावो ब्र
ह्मां देवनो: वाहातो जो
वानाकीधा प्रकास: वो
धावो रे हा हाने: ॥३॥:
जीरे त्रीजो वोधावो वी
स्नु देवनो: वाहातो आ
दनीरजंननाधामे: वोधा
वो रे हाहाने: ॥४॥: जीरे
चवथो वोधावो च्चत्रभु
जनो: वाहातो कथे वा



च्यारी रे वेदः वोधावो
रेशाहाने:: गुणः जी रे
पाचमो वोधावो पाची
पावनोः पाहाणो वीसंनु
देवना अकार वोधावो
रेशाहानेः गुणः जी रे छ
हो वोधावोः नीरजंन दे
वनोः वोधावो रेशाहा
नेः गुणः जी रे सातमो
वोधावो सतपंथ पावनो
पाहाणो जीवना मेल्या



रेअकारः बोध्यावो रेहा।
हाने:।।८।।: जीरे आठ
मोबोध्यावोः अस्टकम
कनोः दाहा दोंच वस्ट
फकवीनो वासः बोध्या
वोरेहा।। हाने:।।९।।: जीरे
नवमोबोध्यावोनवर्षं
फुनोः जुगमागोरेनरे
आव्याछे आजः बोध्या
वोरेहा।। हाने:।।१०।।: जी
रेदसमोबोध्यावोःदस

मोव्हारमोः दाहादोः
अमरजोदनाइामेःवा
ध्यावोरेहााहानेः ॥१४॥ः
गारमो वोध्या वोःदाहा
दोनुरझरेः दाहा दो
जोदाझगामग थायेवो
ध्यावोरेहााहानेः ॥१२॥
जीरे बारमोवोध्यावो
बारकलापुरीः दाहा
दोचंद्रमानीजोदना
वासः वोध्यावोरेहााहाने ७३



जीरे देर मो वो घावो:
त्री गुनं घा ण नो: दा हा
दो ब्रह्मा वी स्नु देव मह
सर आज: वो घावोरे ॥
हाने: ॥१७॥: जीरे चवदा
मोवोघावो: चवदाभव
ननो: दा हा दो: वेदाद
वईकुंठ: वोघावो रे ॥
हाने: ॥१८॥: जीरे पधंर
मोवोघावो: पधंर पंषपु
रा: चहडदी उपार दी:

५॥८८॥

कलानावासः वोधावोरे
शाहाने:॥१६॥: जीरे सोल
मोवोधावोः सोलेकलापु
रीः ताहा तोसहश्रकलान
रेतोजः वोधावोरेशाहाने: ॥१७
जीरे सतार मीकलानातो
नुरसरेः अवाउ मामेली
छे दुनीयानी आसः वोधा
वोरेशाहाने:॥१८॥: जीरे
वोगनी सकलाग तोजाई
मलोः वीसे पुरा छेप थंना
धाहः वोधावोरेशाहाने:॥२०॥



जीरे येकवीसकलायेअ
मरकुवाः दोकुनेझरनमर
ननहीरेलगारः वोधावो
रेहाहानेः गारगाः जीरेः ये
रेवोधावोकोनेलावीयाः
श्रीईसलामेंशाहाजीनी
वारः वोधावो रेहाहानेः २१ः
जीरेयेरेवोधावोकोनेअ
लीयाः दोउनाहसनकबी
रदीननामः वोधावोरेहा
हानेः गारवाः जीरे येरे वो



वाचोकोनेगाईया: ठाकुना

इंद्रईमामहाानामः वोधा

वोरेहाहाने:॥२३॥:

श्रीसतगोरब्रह्मा होवाचा:॥

जीरेस्वामीपरचमरवला

वीयाःनवषंडमाहेकीधो

प्रकासःअमरमारेआवी

या:॥१॥: जीरेसेवकना:

मनहरकीया: येलोचो

वीस मुलकनोछेरायेः

अमरमारेआवीया:॥२॥:



जीरेकायानगररलीया
मनःयेमावेद्यानारायेन
देवरेः अमरमारेआवी
याः॥३॥ः जीरेकायानग
रछेजुकउः पाचमारीकी
च्याप्रकासरेः अमरमा
रेआवीयाः॥४॥ः जीरेक
रनकलफच्यारजुगक
ज्याः नीरकारनीरजनं
देवरेः अमरमारेआ-
वीयाः॥५॥ः जीरेकरनं



५॥५८॥

कलफथकीयेनुरआव्या:
नुरेब्रह्मावीस्नुदेवम
हेसररे: अमररमारेआ
वीया:॥६॥: जीरेमाया
रची जुगइगमंकव्या:
पेलासकलीथीकीधोम
ध्यानरे: अमररमारेआ
वीया:॥७॥: जीरेकरनं
कलफहरीअवतरीया:
पुराकीधादसअवतार
रेअमंररमारेआवीया:॥८॥:



जीरे करंनकलफ भगत

तारीयाः गन गंनधरव

सनक सनकादीक आ

परेः अमरमारेआवी

याः ।।१३।। जीरे करता जु

गहरीआवीयाः रुगवे

दनो मोटो व्यापाररेअ

मरमारेआवीयाः ।।१४।।

जीरे चार रुप हरीयेआ

वीयाः धरीयाः मछकछ



चारानरसींहअवतारे:
अमरमारेआवीया:भा:
जीरेचारशानंवडरीये
सनंगारीया:ताहातोरा
षीछेभगतोनीलाजअ
मरमारेआवीया:॥१२॥
जीरेपाचकरोडीजीव
तारीया:सुषीपहेलाद
वलीसातरे:अमरमा
रेआवीया:॥१३॥:जीरेपा
चकरोडी:त्रताजुगशा
मीआवीया:वीजरवे



ह नोमोहोमउयांन रेः अ
मरमारेआवीयाः ॥१४॥ः
जीरेत्रनं रुपहरीयेधरी
याःबामंनपरसरामंश्री
रामंलीधोअवतार रेः अ
मरमारेआवीयाः ॥१५॥
जीरेत्रनंदानवहरीयेस
नंगारीयाः तातोराषी
छेभक्तोनीलाजः अम
रमारेआवीयाः ॥१६॥ः
जीरे सातकरोडीजीव
तारीयाः सुषीहरीचंद



પા૦ ૯૦॥૮

वलीसात रेः अमर मारेआ
वीयाः ॥१७॥ः जीरे द्वापार
जुगस्वामीआवीयाः रामे
वेदनो मोटो मंडान रे अम
र मारे आवीयाः ॥१८॥ः जी
रे बे कुरुप करीये धरीयाः
कृस्न बोधे लीधो अव
तार रेः अमर मारे आवी
याः॥१९॥ः जीरे वेउ द्दान
व करीये सी नंगारीयाः
तातो राषीछे पांडव नी
लाजरेः अमंर मारे आवी



या:॥१९॥: जीरेनचकरोजी
वतारीया: मुषीघरमेंजोजी
स्हलसागरे: अमेंरमारेआ
वीया:॥२०॥: जीरेकलजुग
स्वामीजीआवीया: अथर
वेदनीमोहोव्यापारे: अमें
रमारेआवीया:॥२२॥: जी
रेयेकरुपस्वामीघरसे: अ
रेकनीकलंकीअवतारे:
अमरमारेआवीया:॥२३॥:
जीरेयेकदानवकरीसनं
गारसे: तातोराषसभग



५॥६॥८

तोनी लाज अमर मारे आ
वीया:॥२७॥: जीरे वार करो
डीजीव दारीया: पीरजी
सुरदीनं व लीसा पारे:
अमर मारे आवीया:॥२८:
जीरे कल जुग स्वामी जी
आवीया: अलीन बीभना
व्याछे नाम रे: अमर मारे
आवीया:॥२९॥: जीरे हस
नकुसनं बेहु नुर कहीये:
आपी आस अमंर चला:



वीरे: अमरमारे आवीया: २६:
जीरे सेपरदीप अहे राषंडक
हीये: तातो अजीनोदसमो
अवतार रे: अमरमारे आ
वीया: ॥२७॥: जीरे तषतबे
ठा मारा तुर जी: श्री इसला
महाहानो अवतार रे: अ
मरमारे आवीया: ॥२८॥:
जीरे अनंत करोड़ी वरअ
तीया: गोरह सनं शाहाव
तीसातरे: अमरमारे आ
वीया: ॥२९॥: जीरे आलई



भाम घेरे आवीया: तेउन।
नरमहमदशाहा छेना
मरेअमरमारे आवीया:३॥
जीरे सोलाकला तेउने
सोमती तेना तेजतनो
नहीपाररे: अमरमारे
आवीया:॥३२॥: जीरे आ
लहमारी अमरजानो:
येनीआसमाहे मोटे
मानेरे: अमर मारे आवी
या:॥३३॥: जीरे हसपर



दईने छुटसोः दसवंदाकर

नकलंकथी आवीरेः अमर

मारे आवीयाः ॥३॥ः जीरे

येम बोल्या गोर ईमामशा

हाः आषर वेलानु बोल्या

छे गीन्यान रेः अमर मारे

आवीयाः ॥३६॥ः

॥श्री सतगोर ब्रह्मां हो वाचाः

जीरे सतगोर ब्रह्मांने बो

लषयाः मेतो सुरती सुक



ज्यापरनाम्हः हरी रसपा-
मीयाः ।।१।। जीरे अष्टं रस
लागोरे मीठ्वोः मारे अगं
उलटना माहे रेः हरी र सपा
मीयाः ।।२।। जीरे जोगणा
कासीने तेज कर्याः तेतो
नुरमा नुरसमाया रेः ह
रीरसपामीयाः ।।३।। जीरे
अषंड जोग णाईया झलह
लेः नाभीकमलथी कीधा
वीस्तार रेः हरीरसपामीयाः
।।४।।



जीरेबारकळाअंस रसक
हीयेःमेसोत्रतकदीदानुर
रेःहरीरसपामीयाः॥५॥ः
जीरेसोळाकळावीरनुनर
कहीयेःतेतोजोतमांजो
तसमायेःहरीरसपामीः
याः॥६॥ःजीरेपाचतायनी
कायाकरीःनवषंडमांकी
धोत्रकाःसःहरीरसपामी
याः॥७॥ःजीरेजुगमांतो
गोरजीआवीयाःसेवक
लोगोनेदेवोदीदाररेःहरी



रसपामीयाः॥८॥ः जीरेसत
पंथसोळाकळासुजानोः
दोदोउगीयादोसुरजकेवा
येरेहरीरसपामीयाः॥९॥ः
जीरेईगलानेपींगलारेसु
षमनाः दोदोचडीगया
त्रीवेनीघाटरेः हरीरसपा
मीयाः॥१०॥ः जीरेत्रीषुटीः
संगमन्हाईयाः दोदोदस
मेपाम्यादीदाररेः हरीरस
पामीयाः॥११॥ः जीरेसत



रमीकलानाणोनुरह्यरे:
टेणोवीउंस्वरुपीकेवाये
रेहरीरसपामीया:॥१२॥:
जीरेहसमेदीदारणेजा
ईमिल्या:टेणोपाम्याअम
रपदरे:हरीरसपामीया:॥१३॥:
जीरेयेमंबोल्यागोरईमी
महा॥:गुरुजीबोल्याछेअ
मरुणवानीरे:हरीरस
पामीया:॥१४॥:



श्री सतगोर साहादेवचाः
जीरेः सतगुरु आव्या रेप
रेनाः तेउन्ने सानातोबे
सनादेसः आनंद मारे हो
ईरइयाः ॥१॥ जीरे पंच
रंगीवाजोटबेसनाः तेम
रतनपधारलच्यारः आ
नंद मारे होई रइयाः २॥
जीरेः काल क्रोध अह
कार चाल्याः मोहो माया
नहीरे लगारः आनंद मा
रे होई रइयाः ॥३॥ जीरे
सतने सुकरी लगुरुजी



ने आलीयाः जीकरई
मानगुजीनेहालेः आद्य
मारे होईरहयाः ।। माः जीरे
मानसरोवरकुडीजळजा
याः मेलोदुदडे पंषाल्याग
रु जीनापायेः आंनदमारे
होईरहयाः ।। पा ।। जीरे पस
त्रअ(सु)सनं आलीयाः चुक्ता
चंदन अंगचह(डा)व्याः अ
नंदमारे होईरहयाः ।। ६ ।।
जीरे सेव(सु)वालीनेलाप
सीः हरीनेगळगळतांकंसा



५॥६६॥

रः अनंदमारे होइ रे रह्याः॥१७

जीरे चवस पानां नु बीज ज

मे तो दी घु गुरु जीने हाथः

आनंदमारे होइ रे रह्याः॥१८

जीरे सेज तलाइ छोलीया

पोहढ्याः मे तो झीना झी

नाना षया छे वायेः अनंद

मारे होइ रे रह्याः॥१९॥ः जी

रे नुर मानुर तो झरी रह्याः

त्याहा तो जोत तो झगमग

थायेः अनंदमारे होइ रहेयाः



स्वासउस्वासमेसादीयाःमे
तोजपीयाअजपानोजापः
अनंदमारेआवीयाः॥१२॥
जीरेहसनंकबीरदीननी
वीनंतीःकोडीअनंतानाः
दीधावरदानः अनंदमा
रेहोइरहयाः॥१२॥ःजीरेय
मबोल्यागोरइभामशाहाः
मारामुनीवरनेःवैकुंठ
नावासःअनंदमारेहोइ
रह्याः॥१३॥ः



પ૫૬૭૮

॥श्री सतगोरब्रह्मा होवाचा॥
जीरेवईकुंटनानाथपधा
रीयाःसतगोरब्रह्माजीआ
व्याछेआजरेःपवीत्रकीधा
अंगनाः॥१॥ःजीरेसतने
सामानंदीजेवेसनाःपेले
राषोअवीचलईमानरेः
पवीत्रकीधाअंगनाः॥२॥
जीरेसतदतभेलीनेदी
जीयेःषमीयासरीकान
हीकाईदांनरेःपवीत्रकी
धाअंगनाःॱ॥३॥ःजीरेद



सचंद सुकरीदः दीजीयेः
पाछेजपीयेजीकरनाजा
पःरेःपवीत्रकीधाअगंनाः ४५:
जीरेपाछमंथकीरेःआवी
चंडसेःमेलोजंबुदीपमोरा
रेःपवीत्रकीधाअगंनाः६
जीरेनरनेनीकलंकीजारे
चडउसेःदोउनाइमामंमह
दीपघरसेनामरेःपवीत्रकीधा
अगंनाःा६गाः जीरेआवइ
मामंघेरआवीयाःदोउना
नरमहमदशानामरेःपवी



૫૮૬૮

त्रकीया अगंना:॥७॥: जी
रेसो लाकला पोउने शो भ-
ती: पोउना पोज पानो न हीप
ररे: पवीत्रकीया अगंना:॥८॥
जीरे आलईमामने से
वीया: पोउना सोदीन पडी
येरे पाये: पवीत्रकीया अ
गंना:॥९॥: जीरे आलई
मामनी पुंजीये: पोउना
प्रगट पुंजीये पाये रे: पवी
त्रकीया अगंना:॥१०॥: जी
रेआलईमामनीवालपी



येःहाजरजामानाचोलषी
येपायेरेःपवीत्रकीधाअगं
नाः॥१॥ः जीरेअनंपक्रो
डीवरलावीयाः श्रीइसला
महाहानीवाररेःपवीत्रकी
धाअगंनाः॥१२॥ः जीरेथा
लभरोरेसगंमोपीडाःवो
ध्याचोटोनीकलकीनाथः
पवीत्रकीध्याअगंनाः॥१३॥ः
जीरेथालभरोसगंमो
टीडाःतापोसटीयोवा



थावोसेच्यार रेःपवीत्र की

था अगंनाः ।।१७।।ः जीरेसी

ताकुतारेः नारी द्रोपताच

चवथी तो जो तो हरीचंदनी

नाररेः पवीत्र कीथा अग

नांः ।।१८।।ः जीरेकमलाकु

वरसीरछत्रधरेः सती सु

रजारानीतावो तेसेः पवी

त्रकीथा अगंनाः ।।१९।।ः जी

रेयेमं बोल्याई ईभामरा

आषरवेलाना बोल्या छेः

गीनानरेः पवीत्र कीथा अगना

ः।।१८।।ः



श्रीसतगोर ब्रह्मा होवाचा:
स्वामी तमारे वीना केमर
हीये: तोमारे हईऐ हरकनं
मायेरे: चोघावोटा हा अ
लीने:॥१॥: भाई रे टामीरे
सवंता: सुषरे घनु: गोरन
रगतनेवोराघो: भले आ
जरे: वोघावोटा हा अ लीने:॥२:
भाईयो टा हानी सेजडी नही
सोहेली: मनंडा मारीने वस
करो आजरे: वोघावोटा
हा अ लीने:॥३॥: भाईयोका



येमजीरेः नैनेदीठ्याः दोनाके
जपनोः नहीपाररेः चोघावो
हाहाअलीनेः ।।७।। भाईयो
सतीयोः सुव्हागने सोकही
येः पाचमारीने करेघ्रकास
रेः चोघावोरे हाहाने ः ।।८।।
भाईयोसतीयोः सुव्हागने
सोकहीयेः षरीद सोदवी-
जीयेः आजरेः चोघावोहा
हाअलीनेः ।।९।। भाईयो-
कोलकायेमजीनालावी
याः कोलरईने भुत्याग



चारेः वोधावोशाहाअली
नेःगछाः भाईयोः येरेपथं
जुगाजुगआव्याः आज
कलमाहेः अलीनवीघरा
युनामरेः वोधावोशाहा
अलीनेःगवाः भाईयोअ
लीनवीनामंभनाव्याः
कलजुगनाछेलाहीदानं
रेः वोधावोशाहाअलीनेः ९ः
भाईयोअलीनवीनववा
लषयाः आनेभुल्यापेस



५८८७१८८

कलससांरः बोधावो रे।।
हाअलीने:।।१०।।: भाईयो
अलीनबीजेनेबोलषया:
मारामोमनंघेरः बोधा
वोआजरे: बोधावो रे।।
हाअलीनो:।।११।।: भाई
योनवरुपहरीनेमीवल्या।
नवहानेवसनंगाज्याछे
पायेरे: बोधावो रे।।हाअ
लीने:।।१२।।: भाईयोदस
मेकायेम: जीभलेआवी



वारेः वोधावो हाहाअली
नेःगछाः भाईयोः येरेपथं
जुगजुगआव्याः आज
कलमाहेः अलीनवी घरा
युनामरेः वोधावोहाहा
अलीनेःगवाः भाईयो अ
लीनवीनामंभनाव्याः
कलजुगनाछेलाहीदानं
रेःवोधावोहाहाअलीनेः ९ः
भाईयोअलीनवीनववा
लषयाः आनेभुल्यादेस



५॥७२॥

नरेः वोधावो॥हा अली
नेः ॥१६॥ः भाईयो सेपारदी
पथी॥हा जंबुदीप आवी
याः सोही अली आव्या छे
आपरेः वोधावो॥हा अ
लीनेः ॥१७॥ः भाईयो जग
मानरमहमर॥आवी
याः आने सोही जानो कर
पारेः वोधावो॥हा अ
लीनेः ॥१८॥ः भाईयो करनं
कलपये रेनुर आव्याः अ
लगोर ईमामंचलावी रेः



याःअरबदेसनादीधाईध्या
नरेःबोधावोशाहाअलीनेः १३:
भाईयोसेणरदीपअहेराष
ऊंकहीयेःतातोअलीनो
दसमोअवतारहरेःबोधा
वोशाहाअलीनेः॥१७॥ःभा
ईयोनीकलंकीरुपनेपरष
जोःकायेममहेदीतोदसमो
अवतारहरेःबोधावोशाहा
अलीनेः॥१८॥ःभाईयोजंबु
दीपइमामंपुरनगरीकही
येःतातोछेलादीधाईध्या



५।।८७३।।८

भाईयोयेरेपथंपहेलारे
सीचीयाः पोहुयेकस्टस
हयाछेआपरेः बोधाबोरा॥
हाअलीनेःगारआः भाईयो
च्याररुपहरीयेधर्याःच्या
रखानंबसंनंगाज्याछेआ
परेःबोधाबोराहाअली
नेःगारआः भाईयोबभंभे
हीनेहरीने आवीयाः श्री
नरसहीभनाव्याछेनामे
रेबोधाबोराहाअलीनेः॥
भाईयोहरनाकासबने

चोष्षावोशाहाअलीनेः१९:
भाईयोआलइमांमंनीसे
वीयेःयेनेसेवपापामोवे
कुंटहामरेःवोष्षावोशाहा
अलीनेः॥२०॥ःभाईयोगा
रनरशामीयेकछेःपामेह
रषसुककसथपावोरेःआ
ळःवोष्षावोशाहाअली
नेः॥२१॥ःभाईयोशाहानी
सेजळीःजेचळ्याःजषामे
षाकीनरपेत्रीसक्रोळी
देवरेःवोष्षावोशाहाअलीनेः
॥२२॥ः



५८८७४८

टोटोछोमघरवेचाव्याछेआ
पःवोधावोरा॥हाअलीनेः॥२०।
भाईयोत्रनंरुपहरीयेधव्याः
त्रनंदानवसनंगाव्याछेआ
परेःवोधावोरा॥हाअलीनेः॥
भाईयोबारावरसहरीवनं
मागयाःवनंफलअरोग्या
छेतायेरेःवोधावोरा॥हाअ
लीनेः॥२१॥ःभाईयोलकां
बालीनेसीतावालीःटोभ
बीषनंनेकराव्याछेराजरे
वोधावोरा॥हाअलीनेः॥२२।



भारीये:तातोराषीछेभ
कतोनीलाज:वोध्यावा
शाहाअलीने:गरदगा:भाई
योपाचकरोडीयरआलीया
मुषीपहेलादवलीसाणरेषो
ध्यावोशाहाअलीने:गरणा:
भाईयोयेवातेलाएलडा
वीया:तोकुनाआल्याछे
अमरापुरनावासर:वोध्या
वोशाहाअलीने:गरवा:भा
ईयोयेरेपथंहरीचंदसीध्या:



५८८७४१८

ष्याचोरेशाहाअलीने:॥३६॥:
भाईयोबेउरुपहरीयेधर्‍या:
बेउद्दानंवसनंगाव्याछेअ।
परे:वोष्यावोरेशाहाअलीने:॥३
भाईयो:करनंरुपहरीयेध
र्‍याक्षीरक्काकरी:सहेश्रसे
नामनंरीझाव्याछे:तायें
रे:वोष्यावोरेशाहाअलीने:॥३
भाईयोकैरवभारीनेपाडं
चतारीया:तोउनाहीमेग
लाव्याछेहाडरे:वोष्यावो
रेशाहाअलीने:॥३९॥:भाई



भाईयोदसासीररावनंभारी
याःश्रीरामंभनाव्याछेना
मःवोघावोशाहाअलीनोः३३ः
भाईयोसापञोछीवरआ
लीयाःमुषीहरीचंद्रचली
सागरेःवोघावोशाहाअली
नोः१३३ाः भाईयोयेवानेला
छुलछावीयाःतोउनेआल्याने
अमरापुरीवासरेःवोघावो
शाहाअलीनेः१३३ाः भाईयो
येरेपथंपाउंवसीच्याःतोने
भोगव्याछेवनंवासरेःवो



५११७६११

वनेसनंगारे आप रेः बोधावो
शाहा अलीनेः गज्जाः भाईयो
बाराक्रोडीवर आलीयाः
पीरसुदरदीनः साधरेः बोध
वोशाहाअलीनेः गज्जाः भाई
योः येवाधोलाउलजावीयाः
तेउना आल्या छे अमरापुर
नावासरेः बोधावो शाहा अ
लीनेः गज्जाः भाईयो फलगरं
वेलामाहे अनंत क्रोडी गोरह
सनंशाहासरदाररेः बोधावो
शाहाअलीनेः गज्जाः भाईयो



योनवक्रोडीचरआलीयाः
मुषीश्वरमंजुजीष्ववसाप
रेःबोधावोशाहाअलीनेः॥७०॥
भाइयोजरजोधनंनेभारी
याःश्रीकरनंबोधमनाव्या
छेनामरेःबोधावोशाहाअ
लीनेः॥७१॥ःभाइयोयेपाप
टाडलणावीयाःटोउनेआ
त्याछेःअमरापुरनावास
रेःबोधावोशाहाअलीनेः॥७२
भाइयोयेकरेरुपश्रीनीक
ळकीकहीयेःकालीगाहानं



५८८७८८

छेआजरेःपवीत्रकीधाअगं
नाः॥१॥ःजीरेसतनेसामां
दीजेबेसनाःपेलेराषोअवी
चळईमानरेःपवीत्रकीधाअ
गंनाः॥२॥ःजीरे सतददभेली
नेदीजीयेःषमीयासरकान
दीकोईदानरेःपवीत्रकीधाअ
गंनाः॥३॥ः जीरेदसवंत सु
करीतदीजीयेःपाछेजपीये
जीकरनाजापःपवीत्रकीधा
अगंनाः॥न॥ःजीरेपाछंमथं
कीरेअलीचरुडसेःमेलोः



सुरजारानीःनीवीनंतीःक
मलाकुवरसीरभरनाभरा
येरेःवोधावोहा।हा।अलीनेः
भाईयोयेमबोल्याइंद्रंइमा
महाः अगमंकथीनेसमला
व्यारेःवोधावोहा।हा।अली
नेः।१४०।ः



श्रीसतगोरब्रह्मा होवाचाः
जीरेवैकुंटनाथपधारीयाः
सतगोरब्रह्मां जी बोल्या



५८८७८८

ये:टेउनासोदीनपडीयेरेपाये
रेपवीत्रकीधाअंगना:॥९॥:
जीरेआलईमामनीपुंजीये:
टेउनात्रगरुपुंजीयेपायेरे:प
वीत्रकीधाअंगना:॥१०॥:जीरे
आलईमामनीवोलषीये:हा
जरजामानापडीयेपायेरे:प
वीत्रकीधाअंगना:॥११॥:जी
रेअनंतक्रोडीवरलावीया:
श्रीईसलामेंशाहोनीवाररे:
पवीत्रकीधाअंगना:॥१२॥:जी
रेथालभरोरेसंगमोटीडा:



जंबुदीपमोझाररेः पवीत्रकी
धाअगंनाः॥१॥ः जीरेनरने
नीकळकीजारेचहउसेःदो
उनाईमांमंमहेदीघरसेना
मरेःपवीत्रकीधाअगंनाः॥६॥ः
जीरेआलईमांमघेरआ
वीयाः दोउनानरमहमरहो॥
नामरेःपवीत्रकीधाअगंनाः॥७॥
जीरेसोकाकळा दोउनेहो॥
जदीःदोउनातेजदानोन
हीपाररेःपवीत्रकीधाअगनाः॥८॥ः
जीरेआलईमांमंनीसेवी



५५ ७८-१८

येसेःपवीत्रकीधाअगनाः१५
जीरेयेमंबोल्यागोरईमा
मह्माःआपरवेलानाबोल्या
छेगीनानरेःपवीत्रकीधाअ
गनाः॥१७॥ः



॥श्रीसतगोरब्रंह्माहोवाः
चाःभाईयोहेतेकरीनेवा
राधीयेःआनेनारीपुरसनो
रेनेहेःसुरतसभालीनेचा
लीयेःतोहेतेवरसेमेहेः
॥१॥ः



वोधावोटोनीकलंकीनाथः

पवीत्रकीधाअगंना:॥१३॥:

जीरेथासभरोसगंमोटी

डाःदादोसतीयोवधावो

सेच्यारदे:पवीत्रकीधाअं

गंना:॥१४॥:जीरेसीताकुं

तारेनारीद्रोपदा:चवथीदो

डोटोहरीचंदनीनारदे:पवी

त्रकीधाअगंना:॥१५॥:जीरे

कमलाकुवरसीरछत्रछे:

सतीसुरजारानीलावो:



૫૮૮૦૮

क्रोडीना भरना पुराः आनेचा
ल्या पीर सुदरदीन हाम्‌ः॥ ७॥ः
भाईयो चोवीस क्रोडी टोव
सरीगया ः आने रहीगया अ
येटीपारः बारा क्रोडी पुराजी
वडाः टेटो पोटा हां हानादी
टारः॥ ८॥ः भाईयो श्री ईसिटा
महाहानु रभनी येः आने पु
रानर अवटारः सोलाकला
जेने सोभटीः जेवच्चहां उगे
अकासः॥ ९॥ः भाईयो मया
करीने मारा नुरजीः ये बो



भाइयो पीर हसन शाह ये म
कहे: मे तो दासी पनाना की
पाने हे: पामे अमारा पुरष
छो: आने मे हेर करोने देहे: श:
भाइयो कुलो अपराधी जी
व छु: आने मे हेर करोने मारा
शाम: मया करीने बोलावी
लीधा: पीर सुदर दीन नाम
न: ॥३॥ भाइयो बारा करो
डी पुरा जीव: आने हर गा
जावा नु रे काम: छत्रीस-



५८८९८

दोनीसेजजीजाइमिलोःदा
सदानापेहेरेःसुव्हागःगइमः
भाइयोसुव्हागीनारीछेःजे
दलीःआनेशाहानावचंन.
नादाकेपेदलीःकंयथकीजे
अलगीरहेःदोहवीदीसेः
कामनीदोदलीःगकाःभाइ
योपीरहसनंशाहाजीयेमक
हेःमेदोम्रीदकीधीमारान
रजीःसदासुव्हागमपेहेर्या
आनेवीनंतीकीधीअनंत
करोडनीःगभाःभाइयोछे



लावीयाः गोर सु लाव्याछो
सोगाराः क छु मोटाई पीरम
नमा आनीः वजरनी भीत
उठी दादकालः ॥छाः भाइयो
हे दकरदावीषउप नुः २॥
हानाहरसननी आवीषोट
जरादमसा मुचालुनहीं
मोमनदेकारनं भनमाना
आनो ~~षेद~~ः मोटः ॥८॥ः भाइ
योमानं वउाइनिकीजीयेः
आनेसदसुराषोकामः ३॥



मेपीताने अमेबालक सहीः
मायाकरोमाराशाहोजीः॥१७॥
भाईयोपीरकबीरदीनंयेम
कहेःआनेसुनोमारासाव
जीःअनंतक्रोडीनोभारमो
घेःआनेकेमकरीउतरीसुपा
रजीः॥१८॥ः भाईयोतारेहसी
करीनेबोलीयाः श्रीईसला
मशाहानामंजीःतमकारन
हमेसातेरहीसुःजंबुदीपमो
झारजीः॥१९॥ः भाईयोआव
ईमामंघेरहमेआवीसुःआ



मास छे दीन पुराकीधा: आ
नेवीनंतीकीधी मारा शाम
नी: अरज बंदगी वकु कीधी:
आने छत्तीलोचानी भांगडी:॥१२:
भाइयो पवीत्र थइने दीदार
लीधा: आने वीनंतीकीधी
वकुजीवनी: सुतक लाही
उतारी लीधा: आने रीझीया।
मारानुरजी:॥१३॥: भाइयो
नकु छगापत मारी छे: तमे
दीदारदो मारा सावजी: प



सुनोहसनकबीरदीननामें
जीः॥१९॥ः भाइयो आलेइमा
मनीसेवसोः आनेबोलषीने
देसेदानं जीः येनीआलमाथी
नरअगदथासेः तोआलनो
मोटोमानजीः॥२०॥ः भाइयो
आलहमारीतोअमरजानोः
आनेगोरनरमेल्यायेनेदा
मजीःयाहाहाहापीरतामेये
ककरीजानोः दुजाहोजषजा
येजीः॥२१॥ः भाइयो मोमनं
येतोकरनीकरवीः आनेघ
दपादथापीपीजोनुरजीः दे



नेनरमहमदशाहाधरीसुना
मजीःयेनीइष्यानीअमेआवी
सुःआनेमोमनेकरीसुजा
नजीः॥१७॥ःभाइयोमोमनं
हसेतेतोजानंसेःआनेपुवो
नरअवतारजीःसोलाकला
जेनेशोभतीःतेनोनुरताज
तानामः॥१८॥ःभाइयोवाच
कारनंहमेआवीसुःकोडी
अनंतानावरदानजीःगोर
इमामशाहाघेरआवीसुः



५॥८४॥

चहुडसेः आनेचहुडसेआ
पोआपःसोळाक लाजेनेहा॥
भटीःजेमचंद्र माउग्यासु
रजीःघरहाः भाइयोस टी
टोसुरजारानीकहीयेःआ
नेकमलाकुवर टेनोदास
जीःनीपावोराधेमाराहाहा
वजीनेः आनेघटपाटथापी
नेपीवोनुरजीःघरहाः भाइ
योअरजवंदगी वकुकरेः
आनेसटानेपहेरोसनंगार
जीःमाटनंलावीहारलोः



चदुवारेतमेजाइमेलोःआ
नेवेळाछेमरपुरजीः॥२२॥ः
भाइयोआसहोयेदीदारनी
टोगणमामव्होजायेजीःला
हीसेषोणमेग णभाउटा
रोःपाहागोरेनरवेकुआ-
व्याजीः॥२३॥ःभाइयोपाछ
मथीअपनाअलीचएसेःआ
नेआवसेजंबुदीपमाहेजीः
नरनीकंळकीतेनानामधर
सेःघरबसबांनोकथंजीः
॥२४॥ःभाइयोनरनीकंळकी



दीदारछे तेने आसमोदी:
आनेजंबुद्वीप मोझार जी:
कोडीअनंत ना भरना भरा
वसे: पेवनाहसनंकबीरदी
ननामेंजी: ॥३०॥: भाइयो
भने पीरइमामेंशाहा: के
सामलो मुनीवरा: आने
काहा लगी कहुं समजाये:
सामलो रके सराचे पाजा:
नही तोमाहादीन मारवासो
मारजी: ॥३१॥



येमरचीरची गुथेहारजी ॥२७॥
भाइयो क्रीयाकरीनेगीन्या
नेबोलीयेः आनेमीठी
अमरणवानंजीः गीन्या
नेरुपीगलीनेचालीयेःअ
नेपहेरोसतनाहारजीः२८ः
भाइयो तोतोवालीछेमा
राहा॥होजीनेःसतनीपुरी
नारजीः कमलाकुवरने
नीतसमजावेः आनेचेला
मारावीरजीः॥२९॥भाइयो



५॥८६।८

जीरेभाईमोमीनाजीःद
सवंपदइनेनरमेकामा
मकसेःवीरासोमोमीनं
कहेसावसेः॥४॥जीरेभा
ईमोमीनाजीःदसवंपद
इनेनरहसंकसावसेःवी
रासोमोमीनकहेसावसेः५
जीरेभाईमोमीनाजीःपा
छमदीसासुदलचालेपु
रासानीःवीरामजलेमज
लेदलआवसेः॥६॥जीरे



॥श्रीसतगोर ब्रह्मा होचा
चाः जीरे भाई मोमनाजीः
आवीने बयेसोः अमीरस
पीवोः जेकुनासरजासोः
गोरचोराधीयाः॥१॥ः जी
रेभाई मोमीनाजीः जेकुना
सरजानेः सोही गुरुपायाः
मारासतगोरध्वरमं देषा
डीयाः॥२॥ः जीरे भाई मोम
नाजीः दसवंत दइने नर
गोरजीने पयाराः तामेम
तरेजानो गोर लोभी याः३



५११८/५११

रायसेःवीरादइपीरानंयस
गरामकरसेः॥७॥ःजीरेभा
ईमोमीनाजीःसोयनंरोही
जीसदीनंथासेःवीराकरनी
हीनंनरभुलसेः॥७॥ःजीरे
भाईमोमनाजीःसोयनं
रोहीजीसदीनथासेःवी
राकरनीहीनंनरभुलसेः
जीरेभाईमोमनाजीःवो
त्यासरगोरब्रह्मासामे
लोरकेसरोःवीरासोही



भाईमोमीनाजीः सबके
पहेले जबराइलिआवसे:
वीरादुवाही शाहानीः फी
रावसे:॥७॥: जीरे भाईमो
मीनाजीः पाच लाषसुगा
रषआवसे: वीरासींगीरे
नांद्दपुरावसे:॥८॥: जीरे
भाईमोमीनाजीः छपंनक्रो
डीसुचावडंआवसेः वीरा
व्हेव्हेउबरुचजावसेः ९:
जीरेभाईमोमीनाजीः नव
सोनक्रानेउनदीभरनोभ



५८ ६६८

नीसुजं:गरा:दोनेआष

सहीपनंअथंसो:साइयी

गदामेभीसदाहैनीद:म

नमायाजुगमेभीट ऊी:

उसेफीरायाहैचीद:गत्रा:

दोनेकानंसहीपनंबहेरी

या:आनेसुरदाबीनान

रजे:जेनापापपहेसाफ

रीचल्याभीस्वाकेमपामे

सोये:गना:गोरहीदासु

नीया:मीदासामल्याआ



ननेहेडे आवसे:॥१२॥:

श्रीसतगोरब्रह्माहोवाचा:

इलिमअलाजीयेभेजीयों

तामेमुनीयरकरोनेवीचा

र:पीरसमसमस्वकहेण

मेसामलो:काहीभुलोवा

रोवार:॥१॥:गीन्यानंभने

सुनेपालेनहो:मुरपनावु

जेबुज:पापजेनापहेलाफ्र

रीचल्या:पेनेनापडेवरमं



૫૧ ૯૮

नेकाहीभुलोचारोचारःगी
नानंभनेसुनेपालेनहीपो
नोधीकजीउसबसारःगाटा
पमेगीनानसुनोभारासु
नीवराःआनेभुलउानाः
जासोसबकोयेःपीरसम
स्याकहेपमेसामलोःपारा
रहेमेवीचारीजोयेः॥१३॥
पारारहेमावीच्यारोमारा
मुनीवराःभुलउानाजासो
सबकोइःसपीजीवपारउ
पाव्याःपाछेकपहीनापारी



नेपीर सुनलाया वीच्यारः
जानी बुजीने जे भुलीयाः
टोटोजरव जीवको दरबार ५ः
येमनषाजनंम गुमाईयोः
आनेक छुसमरंनलीया
साधः आवताआव्यो हरक
माःपछाजाताहो हेलीयाहः ६ः
येवाहचीगह सरवे दोहेलाः
प्रानीकरणानपाईये पारःजे
नेसाचनं राषयामनंमःतेनी
सरवेमीथ्याजायेःााााः हारे
मनषाजनंम हेहेधरीःअ



५८८०॥

या: भाईयोवोवमनः नाआ
वीरानः॥१३॥: सतकी रोटी
खाईये: आने लोक छुनीप
जपाये: गौरख्क नागारासीय:
भाईयोआहार वोवोवोरका
र: ॥१४॥: येम जोईने आहार
जोसीजीये: येम जोईने सा
चुबोल: गीनानं कुचीलाई
तारा हा वमा: तारा टीलना
तालाषोल: ॥१५॥: सत गा
रहा हा पासे देषाडीया: अ
ने तोवमने: ना उपजे धरम:
औसा जगमे साई है: जैसा



याकोइ:॥७॥: सघीजीवपा

रउपरीया: जेनेदीलमारा

षयापाष: आनेकपदीत्रानी

दोजषगया: पोनीवेदमा

पुरीसाष:॥८॥: येमंसाचु

चालोपमे छुटसो: येबोल्या

समसपीर: जुगाचवकडेन

थीपाचयो: पमेसामवोमो

मनमारावीर:॥९२॥: मोम

नमोमनसवकोइकेहे: आ

नेसउकोइसुनेगीन्यान:

गोरेहरफोहरफेसमजावी



५८८१।८

प्रगटजानः॥१९॥ः दहीदुद

मथेघरतपाईयेः तोपीर

समसदीननीसाषः ऐसी

देहीमथीयेआपनीः तोहा

हादेखोः येनीआष॥२०॥ः

सतनीवाडकीजीयेः आने

माहेसतनीषेतीबोयेः फी

करजीकरपानीसीचीयेः

तोसबकुदछनीपजहोये॥२१॥

जेसचीयारामारामुनीवरा

तोजीवमानंकतोलः सतपं

थंलइनिवोतल्याः तोजीव

कासासुलः॥२२॥ः कायाह



पुरंनब्रगाट अहं:॥१६॥:गोरे
दीसमादीपककहेलावीया:
आनेचांदनाकीयानुर:पा
चेवसरापोमारामुनीवरा:
टोणमारेरदेमेसाहेबहजु
र:॥१७॥:जैसाटीलीमेतेल
है:कास्टमेअगनीजान:
ऐसाजगमेसाहीहै:घट
घटव्यापकजान:॥१८॥:दही
दुदमेजेघरणहै:तायेसा
पुजमाहेब्रान:ऐसाजुग
माहेसाईहै:पनंमथोता



अंगः॥२६॥ः वीनं भेदया दो
फ्धर सरीषाः जेने नत्र मा
न्यापीरः गीनानं मे मे साद्य
दोहेः जेव मी टीमे नीरः॥२६॥
मीटीमानीरटीजीयेः पडवा
भलीकरी जायेः जेसचीया
रामारा मुनी वराः दोगीना
सुनीने गलीजायेः॥२७॥ः
दामेगीनान सुनो मारा मु
नीवराः नकरसो दुनीयानी
कहेनः भादर येपानी पडेप
रवदोः पछे जेटेन दीन वानः
॥२८॥ः



चारकरीने षेडीये: आनेष
रीद्रसवंचआप: जेनेहज
रचपीरब्रमानीया: चोपर
साहेबकापयार: ॥२३॥:
षरमंलीयापालेनहीं: चो
जीवनादोजषमावास:
जेसचीयारामारामुनीव
रा: चोजीवबैठेंगेरा॥हाके
पास: ॥२४॥: चमेंगीनान:
सुनोमारामुनीवरा: आनो
पीरसुनालागारंग: पानीमे
फचारवसे: चोनानीरनाभेद



पा८०३॥

चाः भाईयो आद गोर इ
मामंक हीये: आने च्यार
जुगना गोरके वायेरवाला
जीः गोरनर सुश्रीपाडीकी
जीये: ॥१॥: भाईयो जुगे जु
गगोरनर आवीया: आज
कलमा अलीन बीचरा सुना
मरे: केनाम रेवाला जी: गो
रनर सुश्रीपाडीकी जीये: २:
भाईयो मन बादे हीधरीने सा
चनं सुक ल्यु: आने चेतानं
रेसो अजानरे: के अजानं



वडापापतोसाचहैःवडा
पापतोझुटःसतीसीषाम
नचीपाहैरहेःफेरकायेर
काहाजावेगेछुटः॥२१॥ः
इतिमंत्रलाजीयेसमला
वीयाःतामेमुनीवरकरी
वीच्यारःपीरसमसमस्तक
हेःतामेसामलोकाहीभुला
मतवारोवारः॥३०॥ः

॥श्रीसतगोरशाहादेववा



आनेनीदंरायेसुणोअंधा
रोरे:केअघोरेरेवालाजी
गोरनरसुत्रीपाडीकीजी:
ये:॥६॥:भाईयोच्यारजुग
नोवारीया:आनेजीकर
नकीघासाररे:केसाररेवा
काजीगोरनरसुत्रीपाडी
कीजीये:॥७॥भाईयोफल
टारवाटसवारजो:येको
टारसेपीडीनासीजसेको
जरे:केकाजरेवालाजीगो
रनरसुत्रीपाडीकीजीये:॥८॥



रेवालाजी: गोरनरसुग्रीण
डीकीजीये: ॥३॥: भाईयो घ
रमंलईने: मरमनाजान्या:
आनेघीके आव्यो संसारः
केसंनसाररेवालाजी: गोर
नरसुग्रीण डीकीजीये: ॥४॥:
भाईयोकाकनं बांधीनेपाव
लपीधा: आनेलपरेचवप्या
स्त्रीफेराटलीया: केटल्यारे
वालाजी: गोरनरसुग्रीण
डीकीजीये: ॥५॥: भाईयो:
च्यारपोहोररहेनीवहीगई



करेछेराजजीः केराजरेवा
लाजीः गोरनरसुत्रीपाडी
कीजीयेः ॥११॥ भाईयो हा
हानी सेजडी जेचडया:
आनेपाचसातनवबाररे
केबाररेवालाजीः गोरन
रसुत्रीपडीकीजीयेः ॥१२॥
भाईयोफलंतरवेलाम्माः
अनंताक्रोडीः गोरहसनं
हाहासरदारः केसरदार
रेवालाजीः गोरनरसुत्री
पाडीकीजीयेः ॥१३॥ भाई



भाईयोनवरुपहरीरमी
चल्या: आनेनवदानवस
नगाज्यारायेरे: वायेरेवा
लाजी: गोरनरसुग्रीवाडी
कीजीये: ॥९॥ भाईयोदस
मेकायेमजी: भलेपधारी
या: आनेश्रीनीकलंकीध
रायुनामंरे: केनामरेवा
लाजी: गोरनरसुग्रीव
डीकीजीये: ॥१०॥ भाईयो
कालंगीगोदानंवजोधोक
हीये: आनेचीनंमाहाचीन



५८८६॥

शाख: आने मुनीवरना
करवा काज रे: के काज
रेवा लाजी: गोर नर सु
क्रीपा डी कीजीये: ॥१६॥:

श्रीसतगोर ब्रह्मा होवा:
चा: स्वामी तमारे वीना के
म रहीये: तो मारे हइडे हर
कन मायेरे: वोधा वो शाह
अलीने: ॥१७॥: भाईयो स्वा
मीरे सर्वदा सुषरेघ नु: गो
र नर गत ने वोरा खो भले



योः अनंताक्रोडीवरदान
आल्याः अनेकमंत्ताकुव
रसीरभरनंभराव्यारेःक
भराव्यारेवालाजीःगोरन
रसुक्रीतडीकीजीयेः॥१७॥
भाईयोसुरजारानीःकरे
वीनंतीःहमेछेद्योसारी
बदांगुनेगाररेःकेगुनेगा
ररेवालाजीःगोरनरसु
क्रीतडीकीजीयेः॥१८॥ः
भाईयोयेगीनानंभाहा
रसबोल्यागोरईमांमं



हाअलीनेः॥६॥ःभाईयोसा
टीयेसुव्हागनंसोकहीयेः
षरीरसर्वंपहीजीयेआजरे
वोघावोराहाअलीनेः॥६॥
भाईयोकोलकायेमजीनाः
लाचीयाःकोलदईनेभुल्या
गवाररेःवोघावोराहाअ
लीनेः॥७॥ःभाईयोयेरेपथं
जुगाजुगआव्याःआजक
लमाहेअलीनबीघरायु
नामरेःवोघावोराहाअली
नेः॥८॥ःभाईयोअलीनबी



आजरेःवोघावोरा।हा।अ
लीनेः॥२॥ः भाईयोरा।हा
नीसेजउीनहीसोहेलीः
मनउमारीनेवसकरोः
आजरेःवोघावोरा।हा।अ
लीनोः॥३॥ः भाईयोकाये
मजीरेनैनेदीटयाःतेना
तोजतानोनहीपाररेःवो
घावोरा।हा।अलीनेः॥४॥
भाईयोसतीयेसुल्हागनं
सोकहीये-पाचमारीनेक
रेप्रकासरेःवोघावोरा।



नवसनंगाज्याछेतायेरेः
वोधावोशाहाअलीनेः१२ः
भाइयोदसमेकायेमजीभ
लेआवीयाःअरबदेसना
दीधाहीध्यानरेःवोधावो
शाहाअलीनेः॥१३॥ःभाइ
योसेपारदीपअहेराषंडेक
हीयेःतातोअलीनोदस
मोअवतारःवोधावोशा
हाअलीनोः॥१४॥ःभाइयो
नीकलंकीरुपनेपरषजोः
कायेममहेदीतोदसमो



नामंभनाव्याःकलजुग
नाछेलाहीदानंरेःवोधा
वोहाहाअलीनेःमशाःभा
ईयोअलीनबीनवोलषय
आनेभुल्यापोसकलसं
साररेःवोधावोहाहाअ
लीनेःमकाःभाईयोअली
नबीजेनेवोलषयाःभा
रामोमनंधेरवोधावो
आजरेःवोधावोहाहाअ
लीनेःभाःभाईयोनवरु
पफरीरमीवल्याःनवहा



૫૫૯૯॥

रेःवोघावोरा॥ हाअलीने॥ १८
भाईयोकरनंकलपयेरे
नुरआव्याःआलगोरेई
मामचलावीरेःवोघावो
रेरा॥हाने ॥१९॥ भाईयोः
आलईमामनीसेवीये
येनेसेवतापामो वैकुंठ
हामरेःवोघावोरा॥हाअ
लीनेः॥२०॥ भाईयोगोर
नरस्वामीयेकछेतामेहेर
षरुककसथपावोआज
रेःवोघावोरेरा॥हानेः॥२१॥



अवतारेःचोथावोशाह
अलीनेः॥१६॥ःभाईयोज
बुदीपइम्रामपुरनगरीक
हीयेःतातोछेतादीधाई
थ्यानरेचोथावोशाहअ
लीनेः॥१६॥ःभाईयोसेपार
दीपथीशाहाजबुदीपआ
वीयाःसोहीअलीआव्याछे
आपरेःचोथावोशाहअली
नेः॥१७॥ःभाईयोजगमा
नरमदमदशाआवीयाः॥
आनेसोहीजानोकरतार



५११ ७००१८

या: श्री नरसही भनाव्याछे
नामं रे: वो खावो शाहा अ
लीने: गरडा: भाईयो हरनां
कासब: ने मारीया: टाटा
राषी छे भटकोनी लाज: वो
खावोरे शाहाने: गरडा: भा
ईयोपाचकरोडी वरआली
या: मुषीपहेलाद वलीसा
थरे: वोखावो शाहा अली
ने: गरडा: भाईयो येवा टोला
ढलाडावीया: टोकुने आल्या
छे अमरापुरनो वासरे:
वोखावोशाहा अलीने:
॥२८॥:



भाईयोहाहोनीसेजउीजे
चडया:जषामेघाकीनर:
तोहेटीसक्रोडीदेवरे:वोध
वोहाहाअलीने:॥२२॥:
भाईयोयेरेपंथपहेलादसी
चीया:तोकुयेकस्टसह्याछे
आपरे:वोघावोहाहाअली
ने:॥२३॥:भाईयोचाररुप
हरीयेधर्‍या:च्यारदानवं
सनंगाप्याछेआपरे:वोघा
वोरेहाहाने:॥२४॥:भाई
योषमंभेदीनेहरीआवी



५८८ १०७A

भाईयो लकां वालीने सी
टावाली: टो भवीध्न न
नेकराव्या छे राजरे: वो
धावो शाहाअलीने: ॥३२॥
भाईयो दसासीर रावन
मारीया: श्रीराम भना
व्या छे नामे रे: वोधावो
शाहाअलीने: ॥३३॥ भा
ईयो सापक्रोडी वर आली
या: मुषी हरीचंद वलीसा
टारे: वोधावो शाहाअलीने: ३४



भाईयोयेरेपथंःहरीचदं॰
सीषाराःटोटोळोमघेर
वेचाव्याछेआपरेःवोधा
वोहाहाअलीनेः॥२६॥ः
भाईयोत्रनंरुपहरीयेध॰
ज्याःत्रनंदानवसनंगा॰
ज्याछेआपरेःवोधावो
हाहाअलीनेः॥२७॥ःभा॰
ईयोबारावरस हरीवनं॰
भागयाः वनंफलअरा॰
ज्याछेतायेरेःःवोधावो
हाहाअलीनेः॥२७॥ः॥ः



७१.१९०२

सहेस्रसेनामनंरीझाव्या
छेसायेरे: वोधावोहाहा
अलीने: ११३०: भाइयोके
खभारीनेपाउंवटारीया:
तोउनाहीमेगलाव्याछेहा
छरे: वधावोहाहाअली
ने: ११३९ भाइयोनवक्रोडी
वरआलीया: मुषीघरमें
जुंजीष्टकसापारे: वोधा
वोहाहाअलीने: ११४०:
भाइयोदइपिजराजोधनं
नेमारीया: श्रीक्रस्नंबु



भाईयोयेवाटेलाउलउ
वीयाःटेउनेआल्याटेअ
मरापुरनावासरेःवोघा
वोरेहाहानेः॥३५॥ःभाई
योयेरेपथंपाउवसीच्याः
टेनेभोगव्याछेवनंवासरे
वोघावोराहाअलीनेः३६
भाईयोबेउरूपहरीयेघच्या
बेउदानंवसनंगाप्याछे
आपरेःवोघावोराहाअली
नेः॥३७॥ःभाईयोकरेनरे
पहरीयेघच्याःकीरकाकरी



५११७०३८८

शाहाअलीने:गत्त्नाःभाई
योयेवापेलाउलडावीया:
टेउनाआल्याछेअमरा-
पुरनावासरे:वोधावोशा
हाअलीने:गत्इा-भाईयो-
फलपारवेवामाहेअनंपा-
कोडी:गोरहसनशाहास
रदाररे:वोधावोशाहाअ
लीने:गत्इाःभाईयोसुर-
जारानीनीवीनंती:कम-
लाकुवरसीरभरनाभरा-
च्यारे:वोधावोशाहाअलीने:२



चभनाव्याछेनामंरेवोधा

वोहाहाअलीनेःगत्रणाःभा

इयोयेवायेलाडलडावी

याःदोउनआल्याछेअभरा

पुरनोवासरेःवोधावोहा

हाअलीनेःगत्रणाःभाइयो

येकरुपश्रीनीकलंकीकही

येःकाटींगाहानवनेसनं

गारेआपरेःवोधावोहाहा

अलीनेःगत्रणाःभाइयोबार

कोडीवरआलीयाःपीर

रुदरदीनंसागरेःवोधावो



५८७४८

त्तचीनेउजलाथायेःका
त्तक्रोधअहंकारनेवारीये
तोसहीअमरापुरजायेः
भाइकिातक्रोधनेसहेरज
दीयाःआनेलुटयाजथभंडा
रःसुरपरदेमाहेजागेनही
येनेषोयेसरवेभालरेः॥३॥
भाइरोजक्याभणद्वाडेआ
वसेःतारेकेमकरीदेसोज
बाबः साहेबचोरकरीनेबां
धसेःतारेदेवडावसेधनः
नामारःाम३ाःभाइसतीक



भाईयोयेमबोल्यागोरे
ख्मिामशाहाः अगंमक
थीनेसमलाव्यारेःवोधा
वोहाहाअलीनेःगजलाः

श्रीसतगोरशाहादेववा
चाःभाईहेतमक्षोनेसदो
चालजोःआनेछुटकरो
सरवेदुरःसतगोरतोम
थ्यामनंनीरमककरीने
पीजेनुरःाााभाईनिरपी
जीयेनेनामलीजेःदलल

गइ:पाछेखाखीः उजळवा
स:॥७॥: भाइकिरमेकाला
टोसदाइकाळ: मुनीवरची
चारीनेजोयेः दुधधोवेको
येसाः टोकधीनाउजलाहो
ये:॥८॥: भाइभिनेगोरइमा
मरजादा: टामेसाचुजानो
नीरधार: सतगोरनेफर
मायानहीकरे: टोनेषासे
वीचुनेसाप: ॥९॥:

श्रीसतगोरब्रह्माहोवाचा:



वाईने अनंसपचालीयेः
जवाफीरावनना मुखःस
पवीनाजेउषडीगयाःपेना
मोढांमापडसेपोजगनीधु
पःापडाः भाइधिरमंखइने
बोपाल्याःपेनोपाकीहांडी
पोखःपेने पाकाहेपाडुकडा
यायेःपेनेजमीनआसमा
ननाहोयेःपडाः भाइधिरम
पइनेअखगारहयाःपे
नेखगोनीखनापाखःभा
हेपस्याहापीपेसरवेखुडी



नाजी:॥६॥: रावादीवस
वमेआवीमलोवीरा:
अरुलगयेलाछेवारुजी:६
चेवानं हारावमेचेवीस
कोवीरा:वारावलवाजी
वपस्वासेजी:॥७॥वानं
मनंसोपीगुरुनेपायेला
गोवीरा:वमेअनंवफल
मलीपासोजी:॥८॥:दुनं
यारेफुनयाउककरजा
से:वारादेषवादीनयेजा
सोजी:॥९॥अनंवकोडी
नामरनामरावसे:वमे



तारनं जुगना जीवउधर
जाइपोताःतामेवेदवोल
षीनेचालोजीः॥१॥ःचव
थाजुगकलजुगनेकहीय
प्रभुमानुसरुपेआवीया
जीः॥२॥मनंभावधरोम
नंभक्तीकरोःगुरुब्रह्मा
जीनानामंपछानोजीः३ः
गुरुब्रह्माजीनानामंपछा
नोतोतोनीजीकरःतोनीजी
करजीवउधुस्योजीः॥४॥
तारनांहोयेतोउबाराषो
आगलसाहेरपारउतार



जीरेभाईकोटलीगांदाना
वनाःचोवीसचेलाःभाई
चोवीसचेलाःअघरक
लाटइआवसेःगराःजी
रेभाइजाटानाहीनाटेमा
हेनापापीःदेषटा(दुनेया
भुलावसेःग३ाःजीरेभा
इकास्टनाघोडानेदानो
खावाडसेःसाटपीडीना
मायेबापदेखाडसेःग्नाः
जीरेभाइपानीमंत्रीने(दु
घजोकरसेःभाइघ्रटाजा



सउ सगंचालो साद जी:७:
कहे गुरु ब्रह्मा रके सरा:
येही जीक रकरो पुकारा
जी:॥ध्या:कहे गुरु ब्रह्मा
रके सरा: येही जीकरीप
जीवडा छुटसे जी:॥१२॥:

श्री सतगोर ब्रह्मा होवा
चा: गुरु थकी भुल्या ते
मुकीर कुवा: तेनानर
नमाथा नं रंचां से:॥१॥:



२५४०८॥

गानेंजुगनी सदेंपोतीः तो
कायेमम हेदीचडसे सोयेः ११ः
भाईयो दीलमें देसमा कही
येओ ने आलमो तानगाड
सोयेः गाड सरवदा रामी
ताखतारचों वसेः अवता
रपाचनी कलंकी सोयेः गरा
भाईयो अरब देसमा हेक
हीयेः आनेसे तरदीप अहे
राषंडसोयेः अरबी रुपर
हेमानेंछेः तोनी कलानाबु
जेकोयेः ॥१२॥ भाईयो गाफी
लदुनंयायेनो भेदनाजाने



करसेः अनंनात्रवमऊं
वसेः॥ ६॥ः जीरे भाइआ
सनंमारीने अघरबैससेः
रखीयानाइमानंफीरावसेः ॥ ६॥
जीरे भाइकिहेसतगोरब्र
हांतमेसामलो मुनीवराः
भाइसामलोरकेसराःये
वीवेचावरतसेः॥ ७॥

श्रीसतगोरब्रहंमाहोवाचाः
पछमतीरेअलीचहडसेः॥
आनेआदनीरजंनसोयेःजु



॥१००॥

नाथजापजपावेछे: आज
मुलाछेचऊंसः ॥इति॥ भाई
योपेहसवाव पाः सुदु रेवाचो
आनेदुनीयानभोदीभोदी:
खायेः अहंपनानुदोजना
हीः दोनेरुपेनबीमहमदरु
वात्रमानः ॥छ॥ भाईयोये
तोचारजुगनोगोरछे: आ
नेकरनकलहनासोये:
आहदसारवकरन माहेबं
दंगीकीधीः आजजबुदी
पमानंबीमहमदसायेः:



आनेभुलासकलसंसारः
चोलषनहारा।नमेचोल
षजोःमारामोमनघेरव
धावनाःगयाःभाईयोमा
मनमोमनंसहुकोईकहेः
आनेसहुकोईसुनेछेगी
नानःआजकलजुगमा
मोमनंकमलाकुवरछेःन
अनंतक्रोडीनोसरदारःद्दः
भाईयोचीनंमाहाचीनदे
सछेःआनेकालीगांदानवं
करेछेराजःकासीवीसव



उगारीया:पहेलाद गोरख
नांनेबोलषया: आनेभव
सागर उपारीया सोये:भ:
भाइयोचाररुप हरीये ध
रीया: आने मछ कछवा
फ्ानर सीसोये:चारवा
नवंसीनंगारीया: आने
हरनाकासब मारीयासो
ये:११वरा: भाइयो कुंजर
हस्ती होमछे: आने सो
वनंदेपारेदान: आने मा
लसतपंथं मलता: याथी



भाईयोनवीरुपे ईमामशा
हाकुचा: आनेजंबुदीपमा
सोये: आलईमामंनीपाह
जुरछे: आनेअमरवेला
सोये: ॥६॥: भाईयोयेनी
आलेगोरनरचहउसे: आ
नेआलमाहेथी प्रगटहो
ये: नरनीकटंकीचहक
से: अलीआपहीआपसोये
॥७॥:
भाईयोकरताजुगमार
घुवेदछे: आनेरघुवेद
जानावासोये: पाचक्रोडी



५८८७०१११

यासोये:॥१३॥:भाईयो(पु

रीयाहोमंहोपा:आनेरुपा

(नुदेपारेदान:येनेमाले

सपपथंभलीया:येवीज

रवेदनी(कु ईछेपा(पा:॥१६॥

भाईयोव्हापार(जुगमाहे

हामंवेदछे:आनेहामवे

दभनावीयासोये:नवको

डी(सुवेदव्यास ब्रह्मापाडे

वेवोलख्या:आनेभवसा

गरउतारीयासोये:॥१७॥

भाईयोबेउरुपलाहाहरी

येथ्यरीया:भनेश्रीकीस



रघुवेदनो कुवो व्यापारः ॥३॥॥
भाईयो त्रीया जुगमा वी
जर वेदछेः आनेवीजर
वेदभनाव्या सोयेः साप
कोडीवचीस ब्रह्मानेवा
लषीयाः हरीचंदनीच
चेरवेच्याया सोयेः गभ्भा
भाईयो त्रनं रुप हरी येघ
रीयाः वामंन फरसराम
श्रीरामं सोयेः त्रनं दान
वहाये सनंगारीयाः आ
ने दशासीर रावनं मारी



५११४०१२—१८

थरवद भनायासोयेःबा
राक्रोडीपीर सुदरदीनये
तारीयाःआने भवसाग
रउतारीयासोयेःगरना
भाईयोआजकलमाहेअ
जीयाहोमछेःआनेलोक्हा
नादेतारेदानंःयेनेमोत
सतपंथमलताःयाधीअ
थरवदनोकुवाछेवेव्हारः२
भाईयोभनेगोरईमाम
शाहातामेसामलोमुनी
वरोःआजकलमाहेब्र



ननेबुधरुपसोयेःबेदा
नवहापेसनंगारीयाःकं
नसमारीयाश्रीकीसनः
जीःदेमाहेगरभनाधर
सोकोयेःा१वाःभाइयो
गउनोटाहाहोमछेःआ
नेपाबंनाहेटारेदानः
येनेमोटेसतपथंमल
टाःयाथीसामवेदनोछ
वोछेवेव्हाररेःा१९ाःभा
इयोआजकलजुगमा
हेआथरवेदछेःआने अ



५।।७७३

जीवनेचकलेउतारोः १

लोककुटमेमलाः सचला

ससारःकावडेउचलीचा

लोमसानमोक्षारः॥३॥ः

येकनेगाडेनेः येकनेडाटेः

भागोसमनेनहीआवेजी

वनेसंघातेः॥४॥ः सुकरी

ताकरोवीराजमनेरेहातेः

अंतकालआवेजीवने

सघातेः॥५॥ः दानेनेपुन

सपपापारनेदीजेः पुजा

नाफलसोहीलालीजेः



हांनबीमहमदछे:दामेहो
वोहुसीयार:जोइवीचा
रीनेहकसाचुचादसो:
दोदमेकाहीनहीचेदो:
मुरषगावाररे:गदरम:

श्रीसदगोरब्रह्मा होवा
चा:धनरेपुत्रमायाका
रमीकहीये:आवेहुकंम
सरचेमेलीनेजाइये:१:
कोइनहीकहीयेजीवह
मारोकाडोकाडोवारो



५११७०७११८

जीरे भाइ पुरुस्ने कप छीपछी
पछी पाभु लाः पन इलीला
काभेदनापायाः ।।५।। जी
रे भाइ मेहमद इलीलाः वी
सारी मुकाः तोतीस घंदे
थी ब्राह्मन भुला जीः ।।२।।
जीरे भाइ धीरीनाकु तीः
अकासनाकु ताः तोन होती
प्रथमी मायाः ।।३।। जीरे
भाइ चांदनाहो ताः सुरज
नाहोताः तारे मेहमद इली
ला अरसा लषायाः ।।४।।
जीरे भाइ अपनां मनं माथी



दानंनेपुनंवकुफलफली-
याःइमानंसलामदागुरु
जीनेमलीयाः॥५॥ःगुरु
जीमलानायेदयेहीदान:
गरभनीवाचापालोःजीव
नीचारेषानंः॥८॥आलाम
डांरआखुदजोहोयेःयेका
पारसेपीडीयानामनषाये:
वेलापरमानेलाभछेमोषः
मनेगोरब्रह्माजीनहीचाला
खोषः॥७॥:

श्रीसतगोरशाहादेववाचाः



५।।१०७-२।।

नापायाः।।१९।ः जीरेभाइम
हमदइलीलाः आदचनीः
पमेदलमेकरोनीवीचारे।।१४
जीरेभाइयिखडीछेवेलाने
साभलीनेचालोःदोअ१
नासाहेबजीनानामंबोरा
घोःा।भाः जीरे भाइ सुपाक
पापकझडसेपभाराःपो
मुगपी मुगंपाजीवलेसेः।२।।
जीरेभाइयेरेगीनानेबो
लापीर हुसनशाहाः सु
खाहसेदोफलजेसेः।।१३।।
।।❀।।ः



कासलकाहाछोःतोधनी
धनीकरीनेचोराघोःऽः
जीरेभाइकरनीअपनी·
साथेचालेतोबीजुकोई
कामंनहीआवेःगाइगाःजी
रेभाइसतपथंआपनेसा
चोकरीमानोःतोसतगो
रब्रह्मानीपासेःगाछाक
जीरेभाइसतपंथमाआ
वीनेजेकोइभुलाःतोसुअ
वासंसाररेःगावाःकेजीरेभा
इयोअपमंगीनानःकथी
कथीथकाःपनइलीलाभेद



नीःसाचीकरीमानोःटा

येनीआलेगोरेभ्रमांजीअ

वाःगजाःजीरेभाइआल

थकीजेकोइमिकरपछीयाः

टोगाफूलजलमगमायाः॥६॥

केजीरेभाइपेलाकरणाजु

गमापथंराक्रोडीःटोटोश्री

नरसीनानामंनेथायाः॥६॥ः

केजीरेभाइदिसक्रोडीजी

वआपमुराद्याःटोमनेगो

रजीनीवाचाजेपालीःछः

केजीरेभाइपाचक्रोडीने



श्री सतगोर शाहा देववा
चाः जीरे भाइगोरजी भ
धाः तोमने चाहरना छुवाः
तो गोर मारे सतपंथ धर
मं देषाडया ॥१॥ केजीरे
भाइगोरजी सेवो तारे स
तगोर सीधा तो गोर बीना
कोइ ना तारीया जीः ॥२॥
जीरे भाइ पाच रतन सीर
बेसी जो कहीये तो गोर
बीना मुगती ना लहीये ॥३॥
जीरे भाइ आल सम सपीर

પાના ૭૮

મનેધ્યાયા:॥૧૨॥:જીરેભાઈ
અઢરાક્રોડીતોઆપમુરાદા
તોમનેગોરજીનીવાચાના
પાલી:॥૧૩॥:જીરેભાઈનવ
ક્રોડીનેસરગદુવાર:રાજા
પાંડવહીમાંચંલ્યાગલા
વ્યા:॥૧૪॥:કેજીરેભાઈકલ
જુગમાંરેતોછત્રીસક્રોડી:
તોતોપીરસુદરદીનંનેના
મનેધ્યાયા:॥૧૫॥:કેજીરે
ભાઈચોવીસક્રોડીતોઆ



सरगादुवारः राजा पहेलाद
होली माही आप सीधाया:८:
के जी रे भाई त्रीता जुगमा
येकवीस क्रोडीः टोटो म्री रा
मने धाया:॥९॥: जी रे भाई
चपदे क्रोडीः टो आप सुराहा:
टा मने गोरजी नी वाचा ना पा
ली:॥१०॥: जी रे भाई सात क्रो
डी नेः सरगसी धारा: राजा
हरीचंद्र कासी षंड मा आप
वे चाया:॥११॥: जी रे भाई ती
जा दुवापार मा सतावीस
क्रोडीः टोटो म्री क्रस्नं ने ना



५॥७७८॥

आथरवेदीचोलेलख्याछे:
केजीरेभाईकिनंककनंचो
लाकेसरघोला:केछया
हनंछातावाअरवदेसना
रायेःवीवारेआवाछुक
डा:॥१॥:जीरेनीकलंकीन
वसानानोतारा:गोरेफेर
वाछेमुलकचोवीसरेःवी
वारेआवाछुकडा:॥२॥:
जीरेआजमाराहइडामा
होसघनी:उपनाछेहमने
अनंदवी:वीवारेआवा
छुकडा:॥३॥:जीरेसोवनं



पमुराद्दाः दोमनेगोरजीना
वाचानापाली:॥१६॥:जी
रेभाइबाराक्रोडीनेसरगे
दुवाराःपीरेदरयानीचार
उतारा जीः॥१७॥:जीरेभा
इआजकलजुगसेंरे अ
नंताक्रोडीः दोदोधनी-
महमदशाहानेःनामन
ध्यायाः॥१८॥:जीरे येर
गीनानेबोल्यापीरहस
नशाः नामेध्यावोध्यावो
पीरमहमदशाहाः येसत
पथंधरमंदेषाडयाजीः१९-

:॥ ॥:



५॥७९॥

रपतातारानाररेःवीवाव
आवाछुकडाःगछाःजीरेभ
भाजीवैठाताजनेवीनेउः
शामीवेदचारवेगेलइने
आवोःवीवारेआवाछुकडाःटः
जीरेचोवेदीसाचोरीवधां
वसेःसउमलेताहासरदा
ररेःवीवारेआवाछुकडाःए
जीरेवाजेतरवाजेआवी
पनाःपोलवाजेपमंपमं
काःरःवीवारेआवाछुकडाःए
जीरेसरवेसैनआवेतातो
शोभताःजाहेरवातोहो



धालीरेसतीयेकरधरी:
लावोमेलो,वाजणीयामो
झार:वीवारेआयाछुक
ऊ:गजा:जोरेमानीकमो
टीनीथालभरो:जोवाज
ईयेजगजीवननानाथने:
वीवारेआवाछुकऊ:ऽ:
जीरेश्रीफुलनातोरनव
धांवीया:तातोसतीयो
मलीमंगलगायेरे:वी
वारेआवाछुकऊ:गइा:
जीरेचारसतीयामले:
ताहोभतीःसीताकुंताड



५११७०२०

वा सुकडं:॥१४॥:जीरेमा
डंवछ्यायोछेचपंकेवडे:
कस्तोरीनीभरावीछेभीत:
वीचारेआवासुकडं:॥१५॥:
जीरेसोवनंमडेटाहरीन
सोभनटा:पाचसातनव
बारानीसाख:वीचारेआवा
सुकडं:॥१६॥:जीरेटीरी
भवपरनीआवीपाछेबेस
से:तातोब्रह्माजीमनाव
सेवेद:वीचारेआवोसु
कडं:॥१७॥:जीरेमस्ता



सेजानंमाहेः वीचारेआ

चा(छुक(डाः॥४॥ः जीरेवस

बां कुवरीकरेचीनंतीःसा

भंलोटामेपीरीभवननो

कानंः वीचारेआचा(छुक

(डाः॥१२॥ः जीरेवकुरंगीबा

जेढीयाचीपरावजोःउपर

बेससेबासीनाकथेःवी

चारेआचा(छुक(डाः॥१३॥ः

जीरेमनंगमपोडचोमाड

चोःवदावजोःपरउछेसु

दरवरनीसाथेःवीचारेआ



॥श्रीसतगोरब्रह्मा होवा
चा:कसनी दीधी सावासा
हेरको:जाको लहेरसदा
वदा:॥१०॥:वीरा भाई के
सनीदीदी जरावनं रेवी
रषको:जाको पवनं सदा
वदाहोइजी:॥११॥:वीरा
कसनीदीदी जराउनर
पंषी कु:जाको रादादीनं
नीदंराना होइजी:॥१२॥:
वीराभाईकिसनीदीदी:



ग।मुगट हरीने हीराजडा

हरीनेकानेपेकुंडलज

लहलेकारःवीवारेआ

वाछुकडाः॥१८॥ःजीरे

वरकनाछनावीयाःप

रनाछेदेवमोरारेःवीवा

रेआवाछुकडाः॥१९॥ः

जीरेसवगोरब्रह्मांजीः

बोलबोलीयाःबोलबो

ल्याछेजेजेकारःवीवा

रेआवाछुकडाः॥२०॥ः



जाकोवनवासदीखलाय।
जी: ॥८॥: वीराभाइकिसनी
दीधीबावाआदमकोआ
खोलकुफरायाजी: ॥९॥:
वीराभाइकिसनीदीधीसी
लेमानंपैगंमवरको: की
छेमासषीलायाजी: ॥१०
वीराभाइकिसनीनहीक
लजुगको: हासनीबहो
तोअपारजी: वीराभाइ:
माहारसभनेपीरसुद्दर



गोर ब्रह्मा कोः जाको वेद
हरावेजीः ॥२॥ः वीराभा
इकिसनीदीधी राजाघ्रला
दकोःजाको होलीमाहसी
चावेजीः ॥३॥ः वीराभाइ
कसनीरेदीधी राजा हरी
चंद्र कोःजाको नीच घर
नीर भराव्या जीः ॥४॥ः
वीराभाइकिसनीदीदीः
राजा जुजीष्ठल कोःजा
कोहेमांचवहाकगका
वेजीः ॥५॥ःजीहोके स-
नीदीधीपाचीपाडंवको



जानेकोयेः जेआपगतीनेग
रनीचाचापापसेः आजक
लमा मुनीवरसोयेरेः॥२॥
जेमुनीवरमुनीवरनीटांक
रसेः आनेमाहेमाहेकरसे
टंटः टोकुटंमभाकलोलक
रावसेः भाईयेचोकलजुग
नाफंदरेः॥३॥ जेकोईभाये
बापाबधंवाः आनेटोसग
ला माकरसे वैररेः पारे



दीन मारा मो मंनको भी

स्या मो का मं जी: ॥९२॥

श्री सत गोर ब्रह्मा हो वा

चा: भाई कलजुग पुरंन प

रवरो: आने सतीना चु

का वे सत: ते सा चा ने छु

टा बो ला वसे: ते नो हरी ये

लेसे वीत: ॥१॥: भाई मो मं

न मो मंनं सव कोई कहे वे

आने मुनीवर ना भेद ना



भाइकालेकरता तोआ

जकरेः हवे हा॥ हा असी

थासे असपारः॥६॥ः॥

मुनीवर सामलीलीजी

येः आनेदीजे सणगोरन

हापः ईमान साचोचाद्रं

नोः भाईजिवीपुनंमनी

रापः॥प॥ः भाई रेहेनीअ

जवा लुचाद्रंनीः आनेदी

वसअजवा लुसुरः भाई



मायेबापनापरवानानही
पाले: भाईयेवाकलजुग
नाकहेरे: ॥७॥: वारेपाप
छलीनोपुरनंवहेसे: आने
घरमंनीनहीकरेसंभाल:
जेभाईबैनीनेकरोधवो
लसे: तेभाईआपनेदेस
गालरे: ॥८॥: येवीवखडी
वेलावहेउतावली: तमे
मुनीवररहेजोहुसीयार:



॥श्री सतगोर ब्रह्मा होवा
या: मुनीवरो माहेन आवी
या: आने रहेवी चा रीने ज
ये: माहा वस डीवेला आ
वसे: तारे थरन हीरे होसे
कोये: ॥१॥: ज्यारे हा डोहा
डांने लोपसे: आने वरव
ताना जुजेवा भाव: आ
थरवेद माये भ भाकीया:
जेम नी नीर मा बुडसे
नाय: ॥२॥: तारे नीरखी
नाना य बुडसे: आने वा



ईमानजोयेसाच सुःजाह
जीकरवरसे नुरःगटाःभा
ईनुरवरसेतारे हेपउपजे
आनेमेहेरमोहोवतराखे
आपःईमानसरको दीवउ
ताहाभेदनासकेपापःम ९ः
म्हनेगोरईमामशाहाःसु
नोमुनीवराःआनेकाहेप
छोछेजजांतःतमेचेती
सकोतमेचेतजोःपछेदु
खसेपुनमंनीरावःगभाः

॥ ❀ ॥



५१८७०२६॥

सेःतारेजानोपुरनेआवो
कालःगइगः जेसतपथेल
इनेवोतासीगयाःआन
वोलेमकरनीवाताःजेने
नीहांकीधीगोरपीरनीःतो
नाहाजकपरीयासातःइ
येवीवेलातेवेरनवाव
सेःआनेसाहेवथासेअ
सवारःतारे कुफरानजु
गमाथीघालसेःकुलदई
तोनेकरसेसनंगारःछ



सेवेपापनाछुरः पाहास
पासोदान हीमले:पार
साचजासे छुरः ॥३॥:
भाईहेपहेपारथउदसे:=
आनेउदसेदयानेघरमः
जारेघरमीघरमीनीनी
दंकरसेःपारेउपजसेव
छुकरमःगनाःपारेमाडी
जायाबंदंपाः आनेमाहे
माहेदेसेगाल:जेमाय
बापनेबेढीगालबोल-



पा।।५।। १२०

मपामीयेः आनेपडीपावी
च्यारोवेदः पाडापस्यावो
पडसेगाफ्रीलने: पामेस्रु
नोमुनीवरभेदः।।७५।। भ
नेगोरईमामशा।सुना
मुनीवराः आनेरदेमा
राखोव्चीरः जेपामनेसा
हेबदेखाडसेः पम्हने
ईमामशाहापीरः।।७६।।



टारेनीरखानंचीकरसे

प्रथमीःआनेहोसेपोजे

जेकारःजारेदइरीकासी

गानेछेदसेःटारेराजक

रसेकरटारःगटाःटारे

नवषडंमासाहेवआ

पराजाःआनेअवरदुजा

नहीकोयेःजारेरकेसर

नेरीदीसीदीआलसेःटा

रेमुरषहाटाघसटाजा

येःगडगःभाईदींपावनाके



॥१८॥

हानहीमले: पोनीयाथी
रेकरजोपेर:॥रा॥: टामेजा
गोजागोयाहासणसु:
आनेरदेमाथाचोकुसी
यार: आपनासाहेवही
साबमागंसे:पारेकेम
करीदेसोजवाव:॥३॥
टामेचीटमाचेटीनेकी
करआनो: आनेयाहा
मीरगच्चरेछेहरीयाषेप:



॥श्रीसतगोरशाहादेव॰
रु वाचाः गफ्तेनासुवोरे
मुनीवराः आनेजेकोईनी
इंदरायेसुताअघोरःत
सतनामाप्तसरवेखो
ईराहाःतेनेसुदीजासे
माहेताचोरःतणाःभाई
माहेतीसरवेसुदीयाः
आनेखातीथयारेसहे
रःआसतजोईयेतेना



नापानीदीजीयेःदोस
बकुछनीपजहोयेः१६ः
पहेलीउतमंकीरीयाकी
जीयेः॥ः आनेरदेजीभा
सायुबोलःबीजीकी
रयाहरीनुनामंलीजी
येःतोदुखभागेसच
लातोहेः१७ःतीजी
कीरयामनंवसराखी
येःआनेपुजेघटपाहदे
वछेःगोरनरनाचरनं
कोईपीजीयेःभाइचिव



पालाभाजसेनेखोटअ
वसेःपारेसपचीनाउट
सेहेपाःगनाःयाहाधरमं
नीबेलीकीजीयेःपाम
नेकछुछसगंलामरमंः
सपगोरनाफरमायाकी
जीयेःपोरहेसेआपनो
धरमंःगइाःसपनीवाणी
कीजीयेःपेमादसोदी-
बीजबोयेःउपरजीकर



॥१३०॥

आनेसतनीकरजोवात
नामलीजीयेसाचासा
हेबनाःजीकरकरोदीव
सनेरातः॥छ॥ः

॥श्रीसतगोरशाहादेव
वाचाःसाचाजानीन
पीरपछानीयेःआनेसु
करीताकीजेवीराभाइः
पाछेकरसोओरताः
सीरउपरआखरीआइः॥१॥



धीकीरीयाथाये:॥८॥:त्र
नंजुगपोभमीवला:आ
नेचोथाकलजुगउपर
चोपार:कोलपरमानंदी
खीवाचापालजो:आथ
रवेदत्रमंसार:॥९॥:दामे
खरोसबुरीसपासु:आ
नेमनंमारारखोखीर:पा
होजलभरासरोवर:दो
पालफुटीवोहीजासेनी
र:॥१०॥:भनेगोरईमीमं
कादामेसुनोमुनीवरो:



कोये: आद आपं साहे व
येक छे: भाइ रदे वीचारी
ने जोये: ॥७॥: येवा वेद
वीचारीने भेद जानो: अ
ने उरष मनंमा आनो मो
ट: जे सदा गोरनु कहयु
नही माने: तेतो बाजी-
लावे खोट: ॥८॥: ये खो
टी बाजी मनंमा ना लावो
आने साच वीना सुदना-
होये: तेना भी स्वभावना
खा होये: ॥९॥: ये अमर



येभगतीकीजे भाव सुः
आनेप्रेमसुप्रीतलगा
येःजोसाचेइमानेथाइ
येःतोअनंतदरसनेपायेः ॥२॥
जीवनेकायेपाछोछेथां
माहेःआनेरदेकमलना
उपजेगीनानःजेमचाक
फरे कुंभारनोःतेमफरस
मुनीवरनाइमानः॥३॥
तमेइमानधररापोआप
नुःआनेदोदेसदोजेमद



॥१९३॥

वाहेपः जोईमानेवीना
बेसीबेसीयेः जेमेवीज
वीनाखालीखेपः ॥१९॥ः
भनेगोर ईमामसाहेबु
नोमुनीवराः आनेदो
देसेथईजासेनीरः पाल
बांधोतामेपुनंनीः ताम
नेमलावोसेसतगोर
पीरः ॥१४॥ः ॥ः ः॥ः ॥ः



भोमीगयानीआसाध
नीःआनेजायेपोचेसी
वाटःजोसदगोरसाथी
कीजीयेःदोजाइरिहीये
पीछुनेपासःभाइदरस
नकीजीयेदेवनाःआ
नेनीरनीरजुगदोजाये
दाहाजेनेजेवाभावेपु
जीयाःदोनेदोवाफलला
हापांयेःगाथाःजेकोइच्छ
रजुगनाचोरीयाःआ
नेगोरगीनांनसुनालला



ध्यरतीपानीःवीरामाराफल
रसरवेपानीःतोपानीतेवर
नआराछेः॥७॥ःध्यरतीपा
नीवीरामाराफलरसरवे
पानीःतोपानीतेताबोलो
होसाराजीः॥८॥ःयेगीना
नमाहारसःवीरामाराउ
परहसनं॥९॥ःतोमारारषी
याने बेसतंदीदारोः॥१०॥

॥श्रीसतगोरब्रह्माहोवाच॥:



॥श्रीसतगोरसाहादेव
वाचाः आने घट ब्रह्मा
वीरामारा आने घटवी
स्नुः तो आने घट देव-
ज्येसरोः ॥१॥ः आने घ
टजोतीः वीरामारा आने घ
टजुगतीः तो आने घट ब्रा
नंपावे सुगतीः ॥२॥ः बारा
ने सोलाः वीरामारा स्वा
मीसाये हुवणाः तो घरती
काथवंनं हाराजीः ॥३॥ः

https://archive.org/details/bk146/page/n196/mode/1up



आनेसुघागरथभंडारः
हीरारतनंजवेरसुही
याःतेनेसुहीवस्तोआ
पारःगजाः तोयेमुरष
रहेमानाजागीयेःआ
नेबोईविस्वासरवेमाल
पनंरोजव्याभवजार
आवसेःतारेकेमकरी
हेसोजबाबरेःगजाःतेने
चोरकरीनेसोहवबांधे



भाईहेपेमचोनेसपेचाल
जोः आनेछुटकरोसरव
गुरः आसतपंथसेवोटा
फलेः जोमनंनीरमंलक
रीपीयोगुरःगाथाःगुरपी
जोनेनामंलीजोःआन
मनंपरजीनेउजलाथा
येःलोभसवारथकाल
नेवारीयेःपोसहीअम
रापुरजायेःगतःआन
कालक्रोधसरवेछुटाः



१.८९३८

वोपत्या: आने पेपा क
हांडी पोल: जेछोका देवा
टुकडा होये: पोने जमीने
आसमानेना सग रेका
ये:॥७॥: जे सतपथे लई
ने अलगा वाहा: आने प
नवाणोनीलना पास:॥
माहेवसानु हगु पोजुप
ईगाउ: पाछे रवाटीराहा
उपउवास:॥८॥: जे कोई
करमे काला: पोसदा काल:



सेः आने देवणाय सेघ
ननामारः जारेहईया
माहेथी अगनीपरजाल
सेः तारे जीवणा करसे
पुकारः ॥ ६ ॥ः जे कोइसेनी
काहावीना अतीकुवाः
आनेतेना फराणुनं जेः
वामुलः जेइमानंवीना
उपडीगयाः तेनेमोटे
पकसदोजगनीमुलः ९
सतपथंलइने जेकोइ



५।।१३-२।।

उहबयेहरेकेवसोवावा

रासोनाभलेरानाहीःवे

राराहापीरकदीनासुवे

पुजेसोबाकेवभाईःवे:

खहघडीवाभेपीछली

जागोःचेटोमुनीवरभा

ईःसरगभवनथीकुरा

आवीःनुरनापयालाल

वीःउहबयेहरेकेवसो

वाःटोरासोनाभलेराना

हीःटोराभवलाकभुनासो



आने मुनीवरगीनान
वीचारीनेजोयेःजोदुध
धोयेकोयेलाःतोपन क
वीउजलानाथायेः॥६॥ः
म्हनेगोरईमोमेंहा साभ
लोमुनीवरोःआनेराख
जोआपनुरेआपःभाई
खोटाकरनबकरसोःता
मनेदोजषमाखासेवी
धुसापरेः॥७॥ः



ई:ठटबेटरेकीव सोदा:
दोवासोना भलेरानाही
दोवाशापीरक भुनासो
वेछुझेसोना: गजा: हेजी
हेपेत्रीपेआभी रस पी:
वो: वेदागंपमाजाई:
गोरंनर वेकु जाहे रआ
वे: त्रपेक बेदाभाई: ठ
टबेटरेकीवं सोदा: दोरा
सोनाभ लेरानाही: दोरा
शापीरक भुनासोवेछु
झेसोनाकेवभाई: गडगा:
म्हनेईमोमंशाहासाम



चेघुझसोनाकेचभाईःर
सुराहोयेतोरहेनीजा
गोःचेतोमेरेभाईःघुर
नापयालामुखेलगा
डीयाःपुरनतेनीकभाईः
उछबेटरेकीयसोतातेरा
सोनाभलेरानाहीतेराः३
हैजीजीकरेजागोबदेगी
मांगोःजीक.रकरोची
ल्हाईःखरीदसोदीगाता
मामेलाःहाजरबेठास



॥८९३८॥

लीकुरेआवीयाः येक
देजो रेवानः मागुमल्ढु
त्तीनाटामः कुरेआव्यो
राजादामं भनीः राजा
दाम सुनीः गराः बलीरेभ
नेवीध्रसाभंलोः दमारे
केटलोछेसादः कुरेब्राह्म
नराजायेखलोः बीजोवे
कुंटनाथः कुरेआव्योवा
जादमभनीः राजादाम
सुनीः गउाः वीध्रंमनेव
लसाभंलोः मारेमोटी
छेआसः अउंटकदमं



जोमुनीवरोः जागनेहारा
जागजोः हंवेनुरजहो
राथईः उटबेटरेकीवसा
दाः ११ ३॥ः

॥श्रीसतगोरहाहादेव
वाचाः॥ः वीकटरुपवा
मनंधरीयाः आव्याव
लनेदुवारः चारवेदरे
मुषवोचरेः रायेजीक
रोनेवीचारः दुरेआव्या
राजाहमभनीः राजाह
मसुनीः ११११ः नामसाभ



२०५७३८१८

कुरे आव्यो राजा पाम सुं
नीः राजा पाम सुनीः ।१६।।
करु रे मडुं ल वीचवाधी
याः ए वागीलगी रोनः
बलरे पया आले वापी
टाः वीच लीधा छे दानः
कुरे आव्या राजा पाम सुं
नीः राजा पाम सुनीः ।१७।।
पीर सुदरदीन बोलीयाः
रषेसार करोने वीचारः
गोरवी ना दानं दीदा वल



माणुमेरनीः रहुचाररे
मासः हुरे आव्यो राजा
पाम म्हनीः राजा पामेसु
नीः ग्ररगाः रायेजीयेचर
नपखाला ठः ठरक लीधु
छेलाप: सुक्रुप्यारे पाईआ
वीयाः बैठो झारीरे मायः
हुरे आव्या राजा पामभ
नीः राजा पामसुनीः हः
सुक म्हनेबल सांभलोः
आव्या आपीरे आपःब
लरे समोहाबानहीः ये
नेबीसंनु समोनहीकोई



५८९३०॥

यः॥३॥ः खानामाहेभुवा
खानायापसेः औसोआय
संसार:॥२॥: टीसबटीस
पापीजानेंजोःदोछेमाहा
रेचडाल:॥४॥: छनीसपी
ढुंथयाछेः जानजोनीरखा
र:॥५॥ः पचंटीकीसबारची
सटीपुरीथासेःत्यारेजाग
सेअजेपाछ:॥६॥: पचास
बावनबछपछसेःपैसी·
जासेपयाछ:॥८॥: साठ
बासठबछपछसेःछोसे
हछहछकार:॥९॥सपार



रायेःपेटोगोरजीनेभे

ह्यानहीःफुरेआव्याराजा

पामश्रनीःराजापाम्रसुनीःम

॥श्रीसतगोरहाहादेवबा

चाःबारवीसदीजारेआ

वसेःत्यारेधरमंनहीर

हगारः॥१॥ःधरमंकर

पावोछुआवसेःयेवा

आव्योसंसारः॥२॥ःस

तीयानोसतजारेछुट

सेःसतीयानारहेसको



॥श्रीसतगोरशाहादेव
वाचाः शाहाजीनेसोवच
मासुषीसुशाफरआयाः
भाइसुषीसुशाफरआयाः
तोषनीरेइर्रिइमामशा
हानेवोधावोः॥१॥ः फु
लडेवोधावोरेभाइमो
तीडेवोधावोः तोषनी
रेइसलामंशाहानेवोध
वोः॥२॥ः झोलीचलावो
रेभाइबेलीहकारोः पा
दरीयावदरगेपारउता



बाहादार सदफीरसेःथा
सेयेकेकारः॥११॥ः असीप
चासीपीरसमसजागासे
मुनीवरहोवोउसायारःभः
नम्यासीबयानेउपाछमे
उगासेःअसीथासेअसवा
रः॥१२॥ः२॥हानेउसहीक
नीवेकाआनपोहचीःआ
षरअसीकोजानः॥१३॥ः
येमबोल्यापीरइमामशा॥
येपामेसाचाकरीमानः॥१४॥ः



यादाचोकरसे:॥६॥:नु
नयादाचोबाबाकाहाल
गाकरसे: भाइकाहालग
करसे: दोनुरानीघोडे
स्वामीराजचडसे:॥७॥:
नुरानीघोडाअपनो:रु
षेसरचलसे: भाइखषेस
रचलसे: दोइंद्रइंमिम्हा
हाआगलहोसे:॥८॥:
नुरानीघोडाअपनोस्वा
मीराजाचलसे: दोषांडे



रो:॥३॥: भाइकिषे सरये

कसपनांपार हेख्यारे:तो

जाइनेइसिलामेंहाहा

सुमलीयो:॥७॥: वावा

रेइसिलामेंहाहा: येक

दुवाअैसी बोल्या: भा

इदुवाअैसीबोल्या: तो

जुमलीजमापनीचींता

हारीया:॥८॥ जुमली

जोपुछेमाराजीवना

गोर: तोकाहालगादुन



२११५४२८

तोप्याः भाई पाउंवताप्याः
तोबारासुपीरसुदरदीन
ताप्याः ॥१२॥ः अनंताक्रो
डीसुउदावंताराजाभाई
उदावंताराजाः तोआस
दीनवेजाआसउम्हारीः १३॥
पुरबजनम नोः सचंपहे
लाः भाई सचंपहेलाः तो
आजसतगोरब्रह्माभाः
कीयाः ॥१४॥ः ॥ः छ॥ः॥ः



त्रीष्यारीःहाटेटेसेः॥१६॥
टोखाऊंटोजरेभाईअंट
नापारःभाईअंटनापारः
टोसहस्त्रसुरीयानोः
टोजदीसेः॥क्राःपाचक्रो
डीसुपहेलाटटाप्याः
भाईपहेलाटटाप्याः
टोबारासोपीरसुदर
दीनंउधाप्याः॥॥॥ःटो
सायासुहरीचंदउधाप्याः॥१७॥
नवक्रोडीसुपाडंवजा



५८८१७७३८८

वछलईगियामसानेमो:
झार:।।३।।: वीराभाईकोई
कहेसेबाकोने:काईकहे
सेछाटो: भाग्यासबद्दत
रेनहीआवे: जीवछानीस
पे:।।७।।: वीराभाई सुकरी
पापुनकीजेपोतानेहाटे:
पेआवेअटंकालजीव
छानीसाटे:।।६।।: वीराभा
ईसिपागोरनेपुजोटोब
छुकलपामो: ईमानस



॥श्री सतगोर शाहादेव
वाचाः वीरा भाई धिनं पु
त्र भाया कारवी कहीये:
आव्यो कुक भणारे येस
रव भेली ने जईये:॥१॥:
वीरा भाई कोई ना कहे:
जीव हामारो रेह मारो:
काछो काछो येने चकले
पोहोच्याछो:॥२॥: वीरा
भाई कुं ह बपरवार भ:
ल्या सरवे सनंसारे: का



साहेबआगळसाचुबोलो: १
वीराभाइगीताभाजाइने:
करावोरेदुवा: दोपरा
छतजायेजीवनावोध्या
वा:ग१का: वीराभाइसित
पथंलइनेसपोरेचालो:
सतपथंवीनायेसरवेदु
दुरेभाइ:ग१४॥: वीराभाइ
दानपुनंसुपात्रनंदीजे:
वेकुंठमाफलपोतानां
लीजे:ग१२॥: वीराभाइ



लामपशाहा जीनेमली
येःगइगाःवीराभाईशाहा
जीनेमलवानोयेरेई
षानःगरभवासनोको
लसाभालोःलोछवर
च्यारेषानःगछाःवीरा
भाईकीकक्रोधहंकारनं
कीजेःअमंनलरजीन
जुगलेलीजेःगदाःवी
राभाईकिरमंकागळजा
ईनेगपमारेखोलोःग



५।।१४-१।८

भाइपेटपुरनना करसोरे
आहार: आसक आहार
करीनेनीद्रंरानेआहार
चार:।।१६।। वीराभाइअ
रजकरोबहो: महेरजो
मांगो: जीकरफीकरक
रीरहेनीमाजागो:।।१७।।
वीराभाइसिपसबुरीने
खमीयाजोमांगो: पांच
पदारथपहेलामांगो:।।१८।।
वीराभाइवैलाश्रमा



आलेभणंरजीनाजेआ
खुछजेथायेः देनायेको
दारसेपीडीयाबेठाखा
येः॥१३॥ वीराभाईजेद
मबोलोसोहीलखायेः
जाहापापपुननालेखा
थायेः॥१४॥ वीराभाई
वेलाभ्रमानेवीचारी
नेचालोः जीवडानी
दसवंदसाहेबजीने
आलोः॥१५॥ वीरा



५११७७६११८

झुठ छोडीने साचु बोली

येः तो सरे जीवना काजः ॥२॥

भाइ साचु बोलीने पाप

बालीयेः आने सुकरीत

सामकलीजे सोयेः पन

दुखे खोवे कोये साः तो

कधीना उजलो होयेः ॥३॥

भाइ जि सतपंथ माहे आ

वीने वोतलीगयाः ते

माफ करी बोल्या जेः तेनी

कमाइ खोइ जुग च्यार



नतारनेजीवछेमाराः
भनेपीरसमस्तातमेका
चालोखोहाः॥१९॥ः

ॐश्रीसतगोरहाहादेव
वाचाः भाईसाचासतप
थंपालीयेः आनेकीजी
येनीरमलमनंः जोकीया
चालेरदेवसेः भाईपुरनं
होवेपुनंः॥१॥ः भाईपुरनं
पुनंवीनाकेमपामीयेःये
सतपंथनीसाचीरेवाटः



૫॥૧૪૮॥



५११९७८८

ऊीयेःजोह्मात्यागोरपी
रनीआसःगद्गाः भाई
पीरबोलेआपसुःपोऊ
केमचऊवेसीरःमुनी
वरषेवालोऊीयेःह्मोह्मा
त्यागोरपीरनीआचःह्ः
येकोतारनेअमरापुरी
पोरःमणाःभाईयेतोक्रे
मषेलहेःआनेजेको
ईषेलेअपारःक्राछत
जायेजुगचारनाःये



नीःतोनस्हेवोजगमाहे
जायेरेः॥८॥ःभाईहीरा
परषीयेअहेरनंसुःआ
नेरतनंपरखीयेपुन
मंचद्रंजोतःआनेमु
नीवरपरषीकसीयेः
भाईमिनंनीरमंलजो
होयेः॥६॥ःभाईमिनमा
हीनेमसलोआनीयेः
तोनेकीजीयेकका-
चारःमुनीवरऐसाले

पोकुसीयारः पामेसुक
रीपसामलथासेबांधे
जोः आनेशाहाअली
थायेअसवारः ।१७।ः
भाईम्हेनेईमांमेंशापामे
सुनोमुनीवराः पामेसु
जाणोनीरधारः पा
वेकआवीपलभनीः
पामेमुनीयोरथावार
कुसीयारः ।१८।.



मनेअजंपाजापः॥८॥

भाइत्रनंजुगमाहेत्र

नजापजपीयेःआने

श्रीनरसीःश्रीरामंः

श्रीक्रस्नंःआजकलः

जुगमाहेनीकंलंकीजा

पजपायाःकलजुग

माथानकंनामंः॥१९॥

भाइआजकलजुग

माहेपापपरचज्योःप

मेसरचेमुनीवरथा



५।।९२०।।

भाईमारकहयानोदोस:
छे:आनेमुखदीनाकी:
जेमर:दोजीवहीनंसाक:
ब्यानोपापछे:दोनरक:
मउपारसेपार:॥ओ॥:भा
ईपीरुसुग्रीवकीजीये::
दोपीरुवसेघटमाहे::
भाईकालभमरक म:
लवसे:पेदरंनंनापामे
दाहे:॥ओ॥:भाईकाल
क्रोधवेरुनसनंगानी



॥श्रीसतगोरशाहादे

वचाचाः भाईवेलापोती

वलभनाकीजीयेः आने

मुनीवरकरोरेघोराघः

भाईसतसंतोकचाली

येःतोसरेजीवनोकाजः१ः

भाईमीठीवानीबोलीयेः

आनेसुकरीतकीजीये

साः भाईजुगवालीड्ड

दुनाबोलीयेः आनेमु

खेनाकहीयेमारः॥२॥ः



भाईसाहेबवलेसेहलीया:

र:घोडेघुगंरमालाबा:

धंसे:होनेपलानंहाथा:

येअसवार:गळा:भाईता:

हासाहेबअसवारीकर-

से:आनेभाईवेकरसेमे·

हानं:हाहाखुदरतीनगा:

रोवाजसे:आनेनवषड:

मापकसेभगानं:गवा::

भाईसुरजारानीजानं

से:आनेकमळाकुवर·



याः आनेतेजीवमुख

मुगतीनीवाटः पुरनं

पुननेनवकखेः टोटो

टाईजासेदोजषनीवा

टःगइगः भाई ब्रह्मवानी

बोलीयेः जेरदउपजे·

ब्रह्मगीनानःजोतत्रका

सीकाळनाआवेछेक·

डोः भाईजोमदंरपीछ

नोवासः भाईहोयेअ

सवारीआवीछेकडीः



इत्यादीनचारः भाइवी

वेळाआइ रुकवीःतोने

वलभनहीलगारः॥७॥

श्रीसतगोरशाहादेव

वाचाः सतलोडोमा

रामुनीवरोः आनेराष

जोआपनुआपः सत

गोरनाकरमायाकीजी

येःतोजायेजलमना

पापः॥१॥ः भाइछेळेबा

धेतामेछोडीमनानाषोः



सुजानःसाहेबआवा

नोअवाजथयोःहावे

पुरनंआपनोभागः॥१॥

भाईआपनादानमनं

ध्यानंसोपीनेपायेलागेः

आनेईमानंसमुजही

सारःजारेसाहेबका

कीगानेमारसेःत्यारेथा

सोआपनोउध्धारः॥२॥

भाईम्हनेईमांमेंशानमे

सुनोमुनीवरोःहवेर



५११९ ७३११

आनेछायापछदवाचेवे
दपुरानःजेमछायापछे
दाभुलीगयाःजेमराकु
ंनीटीयाभानः॥नाभा
इटीनोछेलोलागोपाप
नाःआनेरदेवसेकमल
कालःपाछेकभाइखोइ
जुगचारनीःभोछोपछे
दोजगनीझालः॥६॥ः
भाइदोजषनीझालव
कुदोहलीःदोनमथीवे
घ्यानहीजायेःजेमवी



आनेदीनरहयाघडीपा
छलीचारःसांजेपछेप
मेआवीमसोःपाछेप
कसेअघांवीरापः॥२॥ः
भाइरापअघांनीपारी
आषनासुजेःयेवोस
पागोरनादीपकआवे
नारेहाथःसपागोरनाः
फरमायानहीकरेःतो
जीवजासेदोजगनी
वाटः॥३॥ः भाइगीना
नसोघोनेवेदवीचारो

ती:जीवआगळहोसे:पो
नेगोरइमामशाहाउपार:
पार:गता:भाइवेलापा
थी:नेरुदपाकीजीये:अ
सवारीथइछेपइयार:चे
ताइहोवेपोतमेचेपजो:
आगळनथीअग्यारमो
अवपार:गणा:भाइसि-
सारसागर:उपरीघेर
आवीया:पोनेसाहेबमा
रोघनो:घनोदेसेमान:
साचामुनीवरपोनेक
हीये:जेनेमस्तकनाद्दी



दुमारेआकफे:तेनीआ

गसहयानाजायेः॥६॥:

भाईआवापुरनं भाग

वीनाःकेमपामीयेःये

वोसतपथंपद्वारयसार:

तेनायेकोपारसेसरग

सीद्वारसेःतेजीवनीप

नीपकरसेसाहेबनो

दीदारः॥७॥ः भाईहीवे

कोटसाहेबनोपुरोध

योःबवावीटेसेभग

तोनीभावःअनंतको



५॥१८२॥

वे: दोनीरमलथाये सरी

र:॥१२॥:

॥श्रीसतगोर शाहा दे

ववाचा: समज बुजमं

नखोजपयारे: आसक

होकरसोनाक्या: ॥१॥:

गुलसोही गुलकोपछा

ने: काहकाह फीरवोना

क्या: समज बुजमनं

खोजपयारे: आसकहो



ध्यावान:॥४॥: भाईयोम्हे
नेगोरईमामरशाहा:दामे
सामलोमुनीवरो:आन
पुजांनोसवालाखघने
रो:फललखाये:माहाद
नसंदेस्वामीपालसे:आ
नेअवदाअवदीअमरा
पुरीजाये:॥४॥: भाईम्हे
नेगोरईमामंरशाहा:दामे
सामलोमुनीवरो:आने
मनमारारखोपीर:शाहा
नीजीकरहरदमंकीजी



कीरखोनाक्या:सभंजाबु
जमनखोजपयारा:आशा
कहोकरसोनाक्या: ॥५॥:
रुखेसुकेगभकोटुककें:फी
केअचरसलोनाक्या:स
भजबुजमनखोजपयारे:
आशाकहोकरसोनाक्या: ६:
इनिअखयेनंभोनीदंपन
री:जबराकीया अचरबी
छोनाक्या:सभजाबुजमं
नखोजपयारे:आशाकहो
करसोनाक्या: ॥७॥:॥:



करः सोनाक्या:गरा:जा
पुआयाप्रेमगलीमे:दा
सीसदीयापावछरनाक्या:
समंजाबुजमंन खोजपया
रे: आसक होकर सोनाक्या: ३:
सपगोरवानंकलीजेमा
रा: दोधायेलकोकररहे
नाक्या: समजाबुजमंन:
खोजपयारे: आराक होक
रसोनाक्या:गजा: आयाहे
दोकरलेसवदा: पायेको



त्यांदेवनादुवारे: ॥३॥:
अरधीमजलमांजाइरि
ह्या: हरनीघाचाडे वाल: ४॥
वाळकदेखीनेपानुचडी
या: दुध थरायाथानः ५:
सीनुदाहीने हाटबेट्या:
प्रानंगयातोनीवा रः॥ ६:
तोडोआव्यारेसपवेदु
जनाः आखे लोकेमक
रीजाये: ७: आघोडीपी
घोडीनेमोटवाघी: सीर



सयेरहा॥ पीरफकीरकहे
पे:जादुउपरहोनाक्या:
समजाबुजमनेखोजपय
रे:आदाकहोकरसोनाक्या:८

श्रीसतगोरब्रह्माहोवा
चा:तेडोआव्यो रेसदवे
कुजना:चात्यादेवनोदु
वार:॥१॥:सबदआव्या
पुत्रत्रसीयो:त्रनंकेम
करीजाये:॥२॥:पालना
मापुत्रनेपोहोडीया:चा



પાનું ૮૮

छोडी मोटने बेसी रहया:

वालक दव (५) आयो नाहा

ने रुबाले: ॥७६॥: अेसी रत

ना देवीनी भगती: आया

दीनं होदयाल: ॥७६॥: भा

वनी भटकी वोल्या वीनंता:

गुरु ब्रह्मानो गीनान: ॥७७॥:

श्री सतगोर शाहा देवचा

चा:॥: भरराणे जागो:ता

अमरवेला आई: जीक



परलोघोभार:॥८॥:तेजो

आव्यारेबेकुजना:चा·

त्यारेवनेकुवार:॥९॥:

उतारीमोहनेसीधंथया:

गदमावैहीजमाग:भ:

सोहमंजोगपाहासत

सुले:प्रगपजोगदोनेवा

र:॥१२॥:पाउळघोलीने

वीनंतीकरी:आयाही

नहोहयाल:॥१३॥:उहो

उहोरेरपनादेवीआमी·

पीवो:लेवोप्रसादनोभा

॥१८॥·

रमली: हरीनामेगालगा
ये:॥५॥: गादीयोगादी
यो: आवेमंदर भाई:जी
करकरोमुनीवर सोजाउ
लाई:॥६॥: दानंनेपुनंवे
रु: फलफुले: आजनही
आवे: अजंपाजापनेटा
ले:॥७॥ आजंपाजापमा
हारदानंछेमोहु: चारजु
गभुलानीभागछेरवाहु: ८:
करोडकरोड हत्या: पाप
कहनंसे: आजाफुरवे अजं
पाजापजोभनंसे: ॥९॥:



रकरोतोमुनीवररहेम
तपाई=॥१॥= येजागोजा
गो= मारामुनीवरभा
ई= आपनासाहेवसाथे
नेहेलगाई=॥२॥ पुरनं
पीउं इमीअंगोरपाया=
तोनीरहेमपाईमीनआ
वा= ॥३॥= जोएकुछलोको
तो= पीयापासेमागो=
येमकेछेईमीअंदाहा=
तामेरहामाजागो=॥४॥=
कुराहातोकंचोको अमी
रसभरीयाःसतीयोन्या

-५॥१८०॥८

प्रबत मंडल: चडीया छे:
हाथे: इमाने लावो दसअ
वतारोने साथे: ॥१४॥: र
हेमपर रखीया: साथे छत
रउडया से: तारे गाफलो
ने पस्ताव पडसे: ॥१५॥:
गीनाने बोलीया: गोरई
मामें हा: तामे सुनो अली
नीवारी: चउस महेदी: के
ने नही मेले हारी: ॥१६॥:



कायेमब्रह्माजीयेदा:
कोछेकोल: कोलदीधाने:
रकेसर: सीदामोल:५:
कहे ब्रह्माजी: सुनोमा
रास्वामी: अरजकरो-
बदांसीसनामी: ।।१४।।:
रवेनुकरोटो जुगमाहा:
काकुमाहाकुकारी: जागो
गाकलो: आवीअलीना
असवारी ।।१२।।: काकर
नेमारी: आराहानवनो-
सनंगारी: करापेचकर:
टाहाजुलकुकारी ।।१३।।



- ५॥७६९॥

वानः हसकसाये: जेने
कसोटी जेनर कसी या:
दोदोला खोना मोलवी
काये: गत्रा: धीरा मोटा
पाम्या: दोदो अमरफुवा
आने पामीया: दवदी
दार: पोनाये को दारसो
सरगासी दारसो: दोदो
नीदनीद करे शाहापीर
नो दीदार रे: गजा: वीराम
हे वीरूप जारे प्रगट थासे
आने नरचडे करदार:
नकलंकी रूप नरपती: का



।श्रीसतगोर ब्रंह्माहो
वाचाःवीरा भाहादनः
वेलाजारेः आवसेः आ
नेरा।होजीसेसेहीसाव:
कीधाकरपावसोधसेः
आनेकेमकरी देसोज-
वावः।१।ः वीरा गुनेगा
रनेबांधसेःआने देव
डावसेधनना मारःमा
येवाप:दाहाकोईनहीः अ
पनीकमाइउदारसेपासे
:२:
वीराजेनेकसोटीसोना
कसीयाःआनेदेवाका



गऊसे: तेनी लहेर चडे:
आने तेना करम ते तानाल
गेवार: साचा सत गोर-
जो मले: तो जहेर उतरी
जाये: ॥६३॥: वीरा जहेर
उतरे: तेनी वात सा हेली:
आने मायाना नाकरसो
लोभ: माया सद्धा काल
कुटी छे: तेना संसारमां
रुया सोये: ॥६४॥: वीरा
तोकारनं तामे चेतजो:
आने अभीमान ना घरसो
मन: मन मारीने दुरजन
दुर करसो: तो पामसो:
[illegible]



येमम हेदीदसमे अव
तारः ।१९।ः वीरादसमा
पात्रनीकंलकीजारेच
डसेः आने सोही अली
आपः अवलअलीआ
खरमहेदीः सोहीनीरः
जाने अलीआपः ।२०।ः
वीराअलीनामहेरम-
नाजानीयाः आनेगफ
लतभुलोगयारेरेः ते
नेकालवसीयादावी
योः जेमडसीयेकाला
नागारेः ।२१।ः वीराना।



॥५॥९६३॥

आनेजेमःपीधामधुपा
नःहाजीयोअदोनथीहा
रीयाःतारेकवीसर्वालो
आपरेः॥१३॥ःवीराअहे
रनकाघावहीवासहेःआ
नेतोनेमाहेनाहीजायेःसा
चाकुनीघरजेनेकहीयेः
जेमनीमंकपानीमागळी
जायेः॥१४॥ःवीरायेगी
नानंमाहारसभनेगोरइ
मामरा॥हाःआनेकुनीवर
भावोकुसीयारःचेतोइः



वीराजेनेदीदारःदोनी
वाहसोहेदीःआनेजा
ईगदामाहा दगुजारः
दाहीदेखाउदारीयेः
दोमाहादीन छुटकाया
येःगभाः वीराभागेदा-
माखुजेनर ख्वासेः दो
नायेकोपारसे नरगेजा
येः शाहापीरपेन्डामुख
नादेखेःदोनो मोडे का
दोथायेः१२ः वीराजेने
डागदागेदेके मउपारेः



५५१६४॥

समोदीदाररे: पालाजी
गोरनर सुत्रीपडीकीजी
ये: गराः पाछेमदीदाहा
जंबुदीपमाञावसे: दासे
दाआरथपलानरेवाला
जी: गोरनर सुत्रीपाडीकी
जीये: गत्राः जंबुदीपमाख्या
भीदाषदरचांवसे: दादा
मुनीवरनालेख्यालेवायेरे
वालाजी: गोरनरसुत्री
पाडीकीजी ये: गना: भारा
रुमहानीबेलीरेवालाको
नकोनचडसे: भारापहेला



होयेतोःचेतजोःनहीतो

खासोदोजगनोमारेरेः॥९५॥

श्रीसतगोरब्रह्मा होवाचाः

करनीकमावोवेलाआ

बोरेमुनीवरपाहोनाजीः

माराहाहानेघोघावोः

भलेआजरेवालाजीः

नीकलंकीघेरवधावनाः१ः

सेपरदीपअहेराघंडजो

कहीयेःतोताअलीनोद



५॥१६२॥८

चडसेः मारा पीर सुदरदीन

सरदार रेवालाजीः गोरन

रसुप्रीगडीकीजीयेः ॥८॥

मारा हा हानी वेलीरे वाला

कोन कोन चडसेः मारा हस

नशा हा कबीरदीन सरदा

ररेवालाजीः गोरनरसु

प्रीगडीकीजीयेः ॥९॥ मा

राहा होनी वेलीरे वाला

कोन कोन चडसेः अनदा

कोडीसु कमंला कुचरसा

दारेवालाजीः गोरनरसु

प्रीगडीकीजीयेः ॥१०॥



दसरीखासरद्वाररेःवाला
जीःगोरनरसुत्रीपाडीकी
जीयेःगङगाःमाराशाहानीः
बेलीरेवालाकोनकोन-
चउसेःमाराहरीचंदसरी
कासरद्वाररेःवालाजीगो
रनरसुत्रीपाडीकीजीयेः ६:
माराशाहानीबेलीरेवा
लाकोनकोनचउसेःमारा
पाडवंसरकासरद्वाररेवा
लाजीःगोरनरसुत्रीपाडी
कीजीयेःछःमाराशाहा
नीबेलीरेवालाकोनकोन



मारा शाहोनी बेलीवाला
कोनकोन चडसे: दादे गुज
रीमेलावो च्यारने वालाजी
गोरनर सुश्रीपाडीकीजी
ये:॥१७॥: मारा शाहोनी बे
लीवाला कोनकोन चडसे:
दादो सतीयो वो ध्यावो
चाररे: वालाजी गोरनर
सुश्रीपाडीकीजीये:॥१८॥:
मारा शाहोनी बेलीवा-
ला कोनकोन चडसे: सी
ता कुंता द्रोपदारे: वाला
जी गोरनर सुश्रीपाडीकीजीये:
॥१९॥



मारा शाहानी वेलीरे वाला
कोनकोनच ऊसे: जरखा मे
वाकीन रंकोडी बतीस रे:
वालाजी: गारेन रकु भीत
डीकीजीये:११: मारा शाहा
नी वेली वाला कोनंकोनच
ऊसे: तोहे तीस कोडी देवता
आगेवान रे वाला जी: गा
रन रकु भीत डीकीजीये:१२:
मारा शाहानी बेलीरे वाला
कोनकोनच ऊसे: तोमाउंवे
ढोचारी देसरे: वालाजी: गा
रन रकु भीतडीकी जीये:१३:



नर सुधीरदजी कीजीयेः१९ः
मारासाहानीबेलीवाला
कोनकोनचडसेः गोरख
आंजीअरजकेवारेवा
काजीः गोरनरसुत्रीदजी
कीजीयेः ॥२०॥ः मारासाहा
नीबेलीवालाकोनकोन
चडसेः माइकादमागु
नाबकसायेरेवालाजी
गोरनरसुत्रीदजीकीजी
येः ॥२१॥ः मारासाहानीबे
लीवालाकोनकोनचडसेः



मारारा होनी वेलीयाला
कोनकोनचडसेः मारोचव
थीदोडो हवीचद्रनीनाररे:
वालाजीः गोरनर सुत्री
दाडीकीजीयेः ११७ः मा
राराहानी वेलीयालाको
नकोनचडसेः मारासाचा
रुनीवरसचीयारेः वाला-
जीगोरनरसुश्रीपाडीकी-
जीयेः ११८ः मारारा हो
नीवेलीयालाकोनकोनच
डसेः अनंदकोडीआगदेस
दीदाररेः वालाजीगोरे·



पा॥९६८॥

धुंमें धुंमंकारपहेलेअलषनी
रजंनः पो जुगानं जुग गोरअ
अं भकीयाजीः अअंवोवीरंनुं
हरीहरदेवअयेसरः पोत्रनं
मुहपकर पारोः १ः धरती
गगनं पाता सपकरी रचीं
लेः पोचंद्र सुरजकवला
सोः रः मछहोरुप पमनेकुं
भंभनीजेः श्रीपाव्हानोली
धोअव पारोः ३ः नरसींव्हें
रुपपमनेनारायेनअनीजे
पोलीजोलीजोगीनानवी



अरबीरुपशाहा लायेजा-
मले: लोकायेमें महेदीदस-
मोअवतारे: वालाजीगा-
रनरसु श्रीपाडीकीजीये: २२:
येगीनानजनेगोर ईमाम-
शाहा: मारारुनीपरनेभा-
स्तादीदारेवालाजी: गोर-
नरसु श्रीपाडीकीजीये: २३:

श्रीसतगोरशाहादेवचा
चा: ब्रह्मा होवाचा: ॥:



पा॥१ह्ल॥

सुरचुडलेसनगाध्या:दा
कालोनागनाथीनेहरजी
आव्या:१:नवक्रोडीसुपा
ईवलाव्या:दोरइविजर
जोधंनसनंगाव्या:५:क
हेनुरसवगोरहमेदोआ
लथकीआया:आलब्रह्मा
केरीसाचीः॥श्रः॥:



चारीः ग्नाः पाचक्रोडीसुप
हेलादतात्याःतोहइति हर
नाकासबसनगात्याः१ः
वामंनरुपतामनेः परसरा
मऋनीजेः तोश्रीरामनोली
धोअवतारोजीः६ः सातक्रो
डीराजाहरीचंद्रतात्याः
तोराजाहइतिहसासीर-
रावनंमात्याः७ः करनंहो
रुपतामनेआदबुद्दऋनीजेः
तोनीकळंकीनोलीधोअव
तारोःटः नवक्रोडकसंकंसा



५११९५७०१८

से:मोरास्वामीजीना सा
ताजी:॥५॥: मदन भेरी हो
फुरवाजसे:येव्हाथासे हो
रंगजी:॥६॥: टोडावो री
टांकुता फुरपता:येने
सतीया छेच्यार जी:॥७॥
चवथी टोडावो तारावा
इलोचना: मगंवगावसे
अपार जी:॥८॥: जागोर
मानुसा टामेनी हेरा:स्वा
मी सुधर सोपयार जी:९:
जैसा सोनारे वीराभाई



॥श्री सतगोर ब्रह्मा होवाचा:
देसदील माहेरजी आवत
या: त्रटीक देव मुरारजी: १:
नव अवतार आगल होई
गया: कल माहे दस वे अ
वतार जी: ॥२॥: सहेरव
रजंग मा स्वामी मारा आ
वी बठ्या: स्वामी मारो जा
वनो दातार जी: ॥३॥: वसे
बा कुवारी स्वामी प्रनं से:
माथे भर से कुभं जी: ॥४॥:
टोले टोले रके सर भाई मले



पा११७७१८८

कीमे कुरदेजो मकीयाःचोथा
केमकरीथासोः श्री पुही पुः३ः
उदक कुसाडीने फ टारपुजोः
केव्हाकारनं टामेध्यावो ः
येक पुही पुःमजाः सरजीव
छोडीने नीरजीव पुजोः भु
लपडाहोजगजावेः श्री पुही
पुःगडगः गोसाई गोरखनाथ
नेध्यावोः ब्रह्मा वीस्नु महये
सरनेअराधेः श्री पुही पुः६ः
सेवडापारसनाथनेध्यावोः
टीनोमेकोई सरगनाजावेः
श्री पुही पुःगढगःगः



लोचना: अये सायेहीसव
सारजी: ७: गीनानपद।
यासतगोरब्रह्मा: मुनी
वरहोवेकुसीयारजी: ८:

श्रीसतगोरहाहादेवव।
चा: सवसारसागर: गु
लीमंतजावो: घटतीरथ
घटन्हावो: येक दुहीदु: १:
येनेघट ब्रह्माने: येनेघट
वीस्नु: येनेघट महेसरदेव
येक दुही दु: ॥२॥: पीउंपर।



पा।।१७२।८

पानीपयेदाकीया:॥१॥: जे
नासरजा: देनानामंनही
जान्या: दोनामंथीमुकीर
मुल्या:॥२॥: आवीरजमा
नादमे: सदकरीजानो:
भाइसिदकरीमानो: दोबय
मदानीचेकाजोआवीजी:३:
सादवेनेजारेसुरजआव
से: भाईसुरजआवसे: दो
अदंकरनंउपरदापसे:जे:
माथेनाभेदुभाइकानउद
रसे: भाइकानंउदरसे: दा



ईभुदाउगावीनेःफदारपुं

जेःकेव्हाकारनेंदामेघा

वोःभीडुहीडुः॥८॥ःआ

भीआमारसबोल्यागुरु

शाहादेवःमुनीवराअम

रापुरीजावोःभीडुहीडुः१ः

॥श्रीसदागोरशाहादेवपा

चाःदुनीयासरजीनेस्वा

मीमाराअनंनीपायाःभा

ईअनंनीपायाःदोपवनं



दंनंकस्वोरीगाया: येक्हाध
रस्वामीवीरजुनेकीया: भाई
वीरजुनेपाया: तोवीरजुक
रताप्रुनीवरसाजे: ॥१९॥
आगमंईमांमंहाहा: गीना
नजोकहते: तोस्वामीवाज
ओउेचउसे: ॥२०॥

श्रीसतगोरब्रह्मा होवा
च्या: मीठामीठाबोलोभा
इनिमीनमीचालो: तोह्म

मस्याकीभेदुकळकळसे॥

जी॥१॥ येक्वादोकेलाभा

इदुनयामाथासे: भाइदु

नयामाथासे: तोमायेन

कहेसेपुत्रमेराजी॥६॥ जु

मलीपुछेमाराजीवनारा

तार: भाइभिननारातार:

तोकमारेघेरस्वामीके

येजी॥७॥ सोनानीवीरा

तीभाइरुपानाचीरा: भाइ

रुपानाचीरा: तोअगरच



५८८१७४१८

दो साचा सीर मुनी वरषा
याजी ॥६॥ ॥

॥श्री सतगोर हा हा देववा
चाः वीरा पाछ्म तीर लच
लसेः जागे पीर पैगंमबरः
वीरा असी लाष ने जा आ
वसेः मोरे गा फल सारेः वी
रा का ये म छत्र पती आवसेः
सही आवसेः ॥१॥ः वीराये
कुगा फल के ऊन्या हाल थीः



नीछोऊ राम सुने कह्याजीः १ः
काचीवारी कायानागारम
नाकीजेः भाइगरमनाकी
जेः वोगली गलीजासेवा
रीदे कह्याः ।२। भाइमाभा
इवारी रुलीकरी जासेःवो
कुंकावरनीवारी दे कह्याः
जीः ।२७। मुनीवरा सुभा
इः छुटे जोऊ ः भाइ छुटे जोऊः
वोसदाघरमंनी राहा बंद
लावे जीः ।२६। आमी अमा
रसवो ल्याः गुरु शा हादेव



५५१७५।८

राहीनबस्तायेक पाव हये:
हीनं सपागोर बटावे:वी
राकायेम छत्रपटी आ
वसे:सहीआवसे:॥७५:
वीराशाहाकुसेनीअली
हये:महमद पीर पैगमंब
र:वीराजबपीरोनेकुर
पाकीटी:षोलेकी टाब
कुरान:वीराकायेमछ
त्रपटीआवसे:सहीआव
से:॥७६॥:वीराशाहकुसे



माहेदीसवनस्टः वीरादे
वदेवारेपुंजतीः पायोनही
येकलखः वीराकायेमछ
त्रपतीआवसेसहीआव
सेः॥२॥ः वीरा लालसुवा
नालालजीः जालमेंपीर
अवधुः वीरापुराहोवेतो
षोजीयेः स्वामीमागसेल
षाः वीराकायेमें छत्रपती
आवसेः सहीआवसेः॥३॥
वीराहीनहींनं सब जगकहेः
हीनंकीनेनहीदेख्याः वी



जलथल मही वेल: एही·
जो सरजा: एही जोकर
तासारजी: ॥३॥: आज
जुग चलथे: चडीया हो
स्वामी: एही जोकरता
सारजी: ॥४॥: जेने सेव्या
तेने फल पाम्या: जेने स
व्या माहा ब्रह्मां जी: ॥५॥:
पस्तावो पएसे येने गा
फील: येने येने जुगनहो
भुलवानो ठामं जी: ॥६॥



नीनेगुनगायेःयेमबोल्या
गीन्यानवीराःकायेमछ
त्रपतीआवसेःसहीआव
सेः॥६॥ः

॥श्रीसतगोरहाहादेव॰
वाचाःपाछमदीसा भ
भुपद्दाच्याःउगयाचंदन
बोडुजींः॥१५ः भगतोजा
माहेःस्वामीअवच्याः
अमंरुतानेनुरजीः॥२॥ः



पाना १३७

चेतचेतवबचेः भोमोपडीया।

कउलकायेमंतोहे जी:१२:

पाछमदीसाथीपुरुशाच

एसेः रहेनीवाजेसुर जी:१३:

याारेनवषउंनानरनंरषी

याः पुजसाचपछानं जी:१४:

पापपुनंबेकुत्राजुदोले:

यारेजीवउानेजानसे जी:१५:

ताहाजानंहाराजानंती

जो:जागो आनंदीनवीरा

जी:१६ग: याहाद्दइदिदानं

वनीकदकरसे: परगया



चारजुगना भुल्या भुल्या
नीद्रां सुता जे हे जी: ॥८॥:
जेने गरभथी सव सारस
रज्या: ते वा ते से ते हे जी:
जेने कुटुंम कीधा करवा
ने: टोपड्या मो हो जनेजा
ल जी: ॥९॥: चव जुग केरे
नथी जुग पाच: मो: भरमा
जग मां सार जी: ॥१०॥: ए
मे कीधी कमाई: ने छुटसे:
ते पाते स्वामी ने हाथ जी: ११:



५॥९७८॥८

वकलपना: सरवे देव च

ऊेसाव जी: ॥२२॥: येनेमा

ऊंचे मुजुंद रके सरा: माहा

लेवे: कक जुग लाधीयो

अपार जी: ॥२३॥: जेने आ

दरीदार: स्वामी ना होसे:

तेनीकाया अवीचळ आ

भग जी: ॥२४॥: भाजे टेक

वनं दुखे: जेमे साव वेभ

वनं जी: ॥२५॥: येने तोर

ने: त्रीभवनं भ्रनें नुरव



गोहये जी: ॥१७॥ जारे पी

हत्री थभी भार थापया: व

संबा कुवारी प्रन से: ॥१८:

हा हाना जोघा आ भगम

कसे: नरा सुरा साथ जी: ॥१९:

कोडी पाच सुप्र ला जच

छसे: सात सुहरी चद्रं

जी: ॥२०॥: त्या रे पाडंव

च छसे नव से टी: बारा

सु हा हा देव जी: ॥२१॥:

त्या रे पे हेत्री स क्रोडी: दे



५५५१८८८

उभोबारजी:॥३१॥:माहा

दकवाजेत्रीभवनं॰ारजे:

भ्रमांबोलेवेदजी:॥३२॥:

येनेचचरीयाच्यारीभ

वनंरचींया:ककसाकुद

रपानुरजी:॥३३॥:येने

हापावाक्याहरीबेट्या:

उग्याछपनंसुरजी:३४:

ककसाकुदरपानुरअ

मरुपा:जमेत्रीभवनो

रायेजीः॥३५॥:पालवे:



रसेमेहेजीः॥२६॥ःयेनेरो
मेरोमेभानपापसेःकायास
लकेदेहेजीः॥२७॥ःयेनेच
द्रंनानलवदइलकेःदोज
नुअपारजीःरदःघरघ
रात्रीःआपनोस्वामीजी
प्रनेःरंगआवेसुरजीःर९ः
आवोरेसकीयोवोरज
वानेजाइयेःनरकरना
सारजीः॥३०॥ःवरमाल
लइनेचसवाउभीःनर



तनमानीका हाडीयाने:
तेजभ्रनेशाहाजी: ॥७१:
जेनेपाचसुभ्रलादता
ज्या: सातासुहरीचंद्रजी: ॥७२:
जेनेपांडवताज्यानव
सेटी: बारासुशाहादेव
जी: ॥७३॥: जारेकानं रु
पेअवतार लीनो: बैटो
तेजमुनानेमाहेजी: ॥७४:
पयाकोकाकोनागनाथी
यो: तेजभ्रनेशाहाजी: ॥७५:
बैट्यानरवाने साटा



गा१ बांधो गुंनवतं नी: व

संबा कुवारी भ्रने शाहाजी: ३६:

जेने चवदा भवन रचीया:

तेज भ्रने शाहाजी: ।।३७।।:

जेने कलप कीन रको कीया

ज्या: जरवा मे घासो हे जी: ३८

जेने अजानवारे व कुदर्ई

तमाम: तेज भ्रने शाहा

जी: ।।३९।।: जेने साठी सा

के बरोकीयाने: तेज भ्रन

शाहाजी: ।।४०।।: जेने वा



चाःनरोहरीनामनारायेन
ज्ञनीजेःजीसथकीप्रेमप
दलहीयेःभीखुहीखुः॥१॥
खुमखुमकारपहेसेनुर
जोहोवाःनुरथीसवागो
रआयाःभीखुहीखुः॥२॥
अबंरभेदसवावाहोचल
याःचेतोरेरकेसराभाइः
भीखुहीखुः॥३॥ःअस्होव
रसेवीरथसुनंज्ञनीजेः
भीखुहीखुः॥४॥ःसत्राल



जी:॥न९॥:सोनमेरुकरा

षडीया:स्वामीनेबांधीहा

टाजी:॥न७॥:त्रीभवनस

रजादेवदानेः सतगोर

बोल्याच्यानेजी:॥नट॥:

अमंरुतबाध्यांनेषुदर

टीया:सातवेभवंनचह

डेकोइकोइजी:॥न९॥:

॥श्रीसतगोरशाहादेववा

पा॥१८२॥

गुरुमुषीजान्यादेःभारगा
लाध्याःजाइअमंरापु
रीःवैद्याःभीपुहीपुः॥१९ः
येहीचीनंदीगुपदाभीरा
सयेदृषानःअगमसेवो-
वीचारीःभीपुहीपुः॥२०॥ः

॥श्रीसतगोरब्रह्मा होवा
चाःसुनोसुनोमुनीवरा
मनथीररापोःसाचाछो



षकरनअवीचकहोता:
गुरयेनीरवानीकहीये:
भीगुहीगु:॥११॥: त्रनेसुर
ताअलेषनीरजनं: सत
पथंजुगानंजुगीआया:
भीगुहीगु:॥१२॥: दोजकजा
नेनादेसोरेभाई:सेवोता
कायेमराजा: भीगुहीगु:७:
पाचसातनवबाराजो:
ध्याया: सोहीगुरुमहेदी:
होइनेआया: भीगुहीगु:८:



૫૧૧૯૮૩૮૮

सुनोगतग्यानःआयाम
हमरहागुमारेदीयानःपः

श्रीसतगोरब्रह्मांहोवा
चाःकायेममहेदीहसां
राजाःसतगोरसेवता
मेनीताजीःाा१ााःजीसे
सेवतामेःमुनीवरभाई
जीवणजीवपीउंदीता
जीहोःााराःअवलजी



डीटमेकुडाकाहेभाकोः १ः
साचाहरीबीनाभुगटा
नापावेःभीस्वाछोकीदो
जगकाहेकोजावोः २ः
चुकीज्यामुकीज्याः प
डयाहोभरंटीःबाराछ्ग
डीचोवीसानासाटीः३ः
येसटापथंछेपाडांनी
घ्याःधारसुचालेसो
मुनीवरहमारोःगजाः
बोल्यापीरहासमटाः



५८८१८४५

रथचनंज्याः भलेभलेव
ज्याकीवाजीः ११७ाः गुरु
चेलाबेकुसबरसभकी
याः भाज्यादीखनापीवा
जीः ११८ाः हरीचंद्रराजा
तारादेवीलोचनाः गुरु
पुछपानीपीवाजीः ११९ाः
कैरवपांडवझगडाला
गाः कीनेहाराकीनेजीता
जीः १२०ाः कैरवहाऱ्यापा
डंवजीयाः गडअमंरापुर



वडारेहेनी गुजमेः सारा
दासबाकीदाजीः ॥३॥ः
जीसकारनं दाइजीवडा
जलायाः सोगुरमवया
अवचीदाजीः ॥४॥ स्या
मीजीनी हटवारेलागेः
बनंज्यारेचया लीदाः
चयाहीदाजीः ॥५॥ःमा
नकहइनेकाचजवडयाः
याकी सगंदनाकीधाजी
होः ॥६॥ः मानीकहेपदा



५॥१८२५८

पदीआवसेः सहीआवसे
जीः ॥१७॥ः वीरा साधु कुवा
केमंजानीयेः मीहेनाम
नकीरेभरांदः वीराग्नानं
पुरुशरवोजानहीः पायो
नहीयेक हीपघः वीराका
येमछ त्रपदीआवसेः
सहीआवसेः वीरादोदाक
डाइमिाकळ कळेः माहेदी
सेछेचढ्रंः वीरादीसेपनंः
फाजेनहीः येव्हा सरसगो



लीलाजी:११:आ।मीआमा।
रसबोल्यागुरुशाहादेव
फूलसरयारालीलाजी:१२:

श्रीसतगोरशाहादेवचा
चा:वीरासोरठमाहेसं
चल्या:चडीयागढगीर
नार:वीरागगांमान्हावो
गोमती:दोनरगयाजल
महार:वीराकायेमंछत्र



५८८१८६८८

यमछत्रपतीआवसेःवीरा
जवखसेअरजुनकमंकनी
उदकेत्रवासनाथायेःवी
रायेव्हाचीनंमासाहेबजीः
नाहालाकरुछनीरधारः
वीराकायेमंछत्रपतीआव
सेःगद्दाःवीरायेकदीवाअ
कासीजलेःबीजोगाउनी
रनारवीरातीजोदीवोदा
रुपामंसेःबोल्याकरनेउ
व्हारःवीराकायेमंछत्रपती



चीदं: वीराकायेमछत्रपती
आवसे: ॥३॥: वीरायेकबुं
दहोपाउवलवानो: सातोस
मुंद्रकातोलः वीराजग
साराहोपयासाफीरे: पी
वेनरसंचनंहार: वीराका
येमंछत्रपतीआवसे: ॥४॥:
वीरावनंगयाअरजुनंना
छुटे: ताजीवरचअनंवीरा
घरमाहेअरजुनंबदंनही:
केव्हानीचंलभनंवीरा: का



॥१८७५॥

दोकालोभी रेजीवडा: चेत

सकोचेतोजी:॥१४॥: नहीता

फीरपस्तावेगे: जेवगाधेस्या

याषेतजी:॥१५॥ अमरुतपी

वेवीषउतारे: उदके अगनं

बुझायेजी:॥१६॥: भोजनं

करेबुद्धयाहरे: हरनामेपा

तकजासेजी:॥१७॥: सैदेषा

नसोहनंसचंरे: कोईनां

घालेहोहाप:॥१८॥: जरा

मरनं भवनं चुकवे: तो

मरताआवेसातजी:॥१९॥:



आवसेः ॥७॥ः

॥श्री सतगोर हा॥ हां देव

वाचाः गुरु सु बध्यं नबा

च्छीयेः भाईकि भुवन आ

वेषो हाजीः लष चौव्या

सीनो फेरो हा कसेः तोजी

चपाम सोमो छ्ह जीः ॥२॥

तो हे करु तो व्हा आप सरी

काः कस करदे षु तो को जीः

॥३॥ः



५५१८८॥

ताबलगलीषीयानजा
वेजीः॥१५॥ः नीकसलाल
बाहीरपडीयाः लाषोमो
लषीकावेजीः॥१६॥ः ला
लपडयाइसिबाहमोः॥
रहेगारहमीलजावेजीः१७ः
मुरषमुरषचलगयेःच
डुरलेवेउठायेजीः॥१८॥ः
आपसमाकोनेथीरथरो
सतकाकरोसीनंगारजी १९ः
मनंडामारीनेवसकरोम
हेवीसाहेवःकरोगलेकाह



सतगोर नाम पटंतरो: ई

सदेने को कुछ ना दीजी अ:

क्या दीजे गोर सं तो सी:

या: है उस रहे मानं माहेजी अ:

हउस नारा षो वीरा मनं

मा: सतगोर छे त्रपोक देव

जी: ॥१२॥: दील दीया उ

ने सब दीया: रहेनी सुज

गो वीरा जी: ॥१३॥: दील स

कुजा क्या दीजीये: येम बो

ल्या सम सपीर जी: ॥१४॥

जब लग लाल समुंद्र मां:



५॥१८८॥

देवमुनारजी॥१॥ नवऔ
वपारआग कहोईगया॥
कवमाहेदसवेअवपारजी॥२॥
सहेरवरजग भास्वामीम
राआवीबहया॥ स्वामीभा
वोजीवनोदापारजी॥३॥
वसवाकुवारीस्वामीराज
परेनसे॥ माथेभरसेकुभ
जी॥ना॥ दोवेदोवेसवेसर
भाईमिवसे॥ भारास्वामीजी
नासादजी॥४॥ भदनंभ
रीहोउरवाजसे॥ येव्हाथा



रजी: ॥२०॥: महेदी साहेब
नेजान सो: टोपावोगे वे
कुंद्दा मेंजी: ॥२१॥: महेदा
साहेबनेन जान सो: टो-
जावेगे दोजक माहेजी: ॥२२॥:
महमद महेदी बोलीया: ॥
चीत ख्वरीया सुनो जी: ॥
॥२३॥:

॥ श्री सतगोर हा हादेव
वाचा: देसदी लमाहर
जीआव लप्या: प्रलोक



॥श्रीसतगोरब्रह्माहोवा
चाःप्रभाभाहीरहेनबी
आवीःसबसनंदानमी
लआवोःन्हायेधोयेकपा
डपरबैठोःआगंसुव्हाग
चढावोःप्रभुकनंकीप्री
दाजोलागीःऐसाअगं
बनावोःप्रभाफाहीरहे
नबीआवीःसबसदांन



सेरंग जीः ॥६॥ः दोछावो सी

दाकुदां कुरपदाः याने स

टीया छे चार जीः ६ःचव

थी दोछावो दार बाई लोच

नाः मंगळ गा बसे अपार जीः ८ः

जागो रे मानुस दमे नींदराः

स्वामी सुध्वर जो पधार जीः ९ः

जैसा सोना वीरा भाईरीद

नाः टैसा ये सब सार जीः ९ः

नीनानंपधाया सद गोरब्रह्मा

मुनीवर होवो कुसीयार जीः

॥१०॥ः



पा.१५७॥

त्रभाकादीरहेनबीआवी:
सबसंतनमीलआवो:॥३॥:
ब्रहंरसकीकीलीजानी:
अगंमेपडेरेउजालो:गु
रुकेचरनपरबलबलजा
इये:येमुकहेछइभिमहा॥
वालो:त्रभाकादी:रहेन
बीआवीसबसंतनमील
आवो:॥४॥:

॥श्रीसतगोरब्रहंमाहोय



मीलआवो:॥१॥: चुव्हाच

र्दनआगंकोचडावेः अ

पनाकथंमनावोःहेदासु

व्हागपीहयासंगमागेः

रचरचगुथाहारःत्रभाका

हीरहेनबीआवीसवसे

दानंमीलआवोः॥२॥:

चदारभुजकीछबहैन्या

रीःनयेनसेसयेनमीला

वोःप्रेमरसकापयालापी

वोःआगंभयोमगवालोः



सारीःजागदःगशः नुर

जकुराकावषदाकुवाहे

येःकुराकीवारीआइःनु

रकापयादाआगंकुछी

डकेःमुषचदांमहेदाव

भलाडःजागदःगशः

रहेनिकोसःपनोःबीसा

रोपयारेःकाहेकोनीदं

मोखावेरेःब्रह्मंजोदाकुं

वलवलजाउःयेमकहे

इमिमहरावालोःजागद



जागपकीवनहीरे: भला
पुजागपकेवनहीरे:॥
कालकोभमरो: फासा
छालो: भवरगुफाकीजा
लीरे: अपंकालपस्वाव
गापयारे: नीकलजाय
नीबारी: जागप:॥१॥
आलेनबीअवलादअ
लीजी: पंचपानंपाषवष
नुरे: हसनंकुसनंदोजर
पच्यानो: उनोसेउमत



५८८१ ७३॥

नुरकीआई: गुजकारने
कुरासुव्हागनंआई: जाग
जागारे: ॥२॥: षटघडीरा
पारही: गुचेतमोराभाई:
नुरकापयालाकुराछाट
दीआई: जागजागारे: ॥२॥
सुराहोयेतोरहेनीजागो:
गाफलचेतोमोराभाई:
आळसनींद्रंतोनेकुरारेग
भाई: जागजागारे: ॥३॥:
कहेपात्रब्रह्मईद्रिंईमामहा:



केवनहीरे: भलाधुजा
गाकेवनहीरे: भचरभ
येपस्तायेरहेधु: जागत
केवनहीरे: ॥७॥:

॥श्रीसतगोरब्रह्मा हो-
वाच्या: जागजागरेधु
जागमोराभाई: नुरज
कुराकीघडीआई: च्यार
पोहोररहेनीघोई: भा



पा।१७७॥

तुमें दुरमत जावोरे: जर

आवे गी बेदना ताव: देष

न आवोरे: श्री नबी के सा

इयां: कुटमें परवार साज

ना: मये ने सब को छोडयारे:

दील बांधा मेरे साई सुं: म

नं ताम सुजो उथारे: दु क

नबी के: ॥१॥: सुली उपर का

सातारा: मो होनी दंन आवे

रे: पाहडे पाने डे पी दुजी

वसे: मारो जीवबी लावा



टाभे सुनो मोरा भाई: सि
रगभवनं माटोजीवनी कु
ईरेवो भाई: जागजागरेछु
जाग मोरा भाई: सरगभ
वनमाटो जीवनी कुईरेवो
भाई: नुरज कुराकीघडी
आई: ॥२॥

॥ श्री सतगोर ब्रह्मा होवा
चा: एकनवीके साईया:



॥श्री सतगोरब्रह्मा होवा
चाः के आनंद आनंदः था
मे करो रे रके स राः तो अ
वल हे ताम मे पाया जीः १ः
मेलाने मेलावो भाई रेके
सरोः तो भली भली करो
नेकमाइ जीः ॥२॥ः जंबु
दीपमा स्वामी जी परवरी
याः तो रुषे सरव रखो था
इ जीः ॥३॥ः रुषेसर ने स्वा
मीमारो तारसेः तो कमा



रे (हुकनबी:॥२॥: हमरा

मभीलेसजना: गलेबे

डीबाहीरे:पीरहसनशा:

हाकीवीनंती: साइयाउ

रमराजावोरे: (हुकनबी

केसाइयाउमें: (उरमरा

जावोरे: जदआयेगीब

दनापावरेषनआवोरे:

श्रीनबीकेसाइया:॥३॥:



श्री सतगोर ईमामशादेवचा

चाः सतगोरब्रंमा ये अग

मकथायाः लषायालेषको

ईनान ही मीटाः ॥१॥ सत

सरुपी मायारचीः जागजु

गतनी वाटो कथीः ॥२॥

करमं आप रलषायालेहे

लाटः भोगवीना छुटकान

हीथायेः ॥३॥ जोगी तोजे

जुगताजानेः जोगजुगत

साचीभ्रमानोः ॥४॥ अल



ईनाफलले लेसो जी: ॥४॥
चपडीवेलामांपथंकरनं
छे: तोआपरआव्यादीनं
जी: ॥५॥ दसोरं आलोन
वायेककमावो: तोयेनी
करणवेजीव छुटसे: ॥६॥
भनेगोरखाहादेव सत-
गोरखनाः तोचेलीनेत
मेच्यालोजी: ॥७॥



५११९०७८॥

जीवंदामेरदागथईनेर
होःषाकसरुपीदेरेथयोः॥११॥ः
सर्नसारदेनेलोपेनहीः
मायासरवेदाजीजईः॥
चारवेदनीवानीकथीः
अाथरवेदनेमानोसदीः॥१२॥ः
ब्रह्मावीस्नुसीवनेगनेः
सकदासरुपीदेजमाहे
मलेः॥१३॥ःचारसरुपने
येककरीजानोःअलष
नीरजंनसाच्चाब्रमानोः
॥१४॥



षपुरसनो राषोने हे: नर
मानुरस मायो दो हे:॥६॥
कालक्रोध लोपे न ही:॥
ग्यानस्वरुपी थयो सही:॥
मोहो मद माया सर वेहला:
अहंकार माहे ना गयो ग
ली:॥७॥ पाचचोर नबां
धे बहं:॥ सतगोर ब्रह्म
ना लागा रंग:॥८॥ चा
ले मथ रंग रंगावे: जोत मा
हे जोत दो समायो:॥९॥



५२१९८८।

उजानः सरवंचनेरा कल-
थायेःनीरवानः ॥१९॥ ये
कोतार सो पीडीया बेसीषा
येः वैकुंठपाम्या पेकवल
सः॥२०॥ सतगोर ब्रह्मा
येवानी कहीः गोर ईमाम
शा बोल्या सहीः ॥२१॥

॥श्री सतगोर ब्रह्मा होवा
चाः॥ सुनो सुनो मुनी



अलखपुरखाने लागो ध्या

नः टोजभाराजसभायो

जानः ॥१६॥ः सतपंथटानेस

चोकरीजानोः सोलकला

जेमंउगो भानः ॥१६॥ः देवजु

गतसाचीकरीजानीः पाव

लपीधा नुरनी हेतनीः १७॥

दीदारसरुपी तरेथयोः ॥ः

साचाजोग सरतो केवा

योः ॥१८॥ः हसोहं वीजव



५५१७८८।८

तेम हेदील पाई: ।।५।। केवा
जो मुनीवरा दील सु राखे:
फेरा मुना फकरवा होजा: ६:
कता जुग माहे चार अ
वतार: मछ कछ वाराहा
नरसी त्रलाद ताय्या: ७:
त्रता जुग माहे तीन अ
वतार: वामन फरसरामा
मरामं हरीचंद्र ताय्या: ८:
द्वापार जुग मा: दोहो अ
वतार: क्रस्नं बुध राजा
जोजी छक ताय्या: ।।९।।:



चराभनंथीररापोः आवा
गभंनघ्रपंचनीचावोः ॥२॥
अचलअलीनेआपरम
हेदीःसपकरीजानोयेसा
हेबयेकीः ॥२॥ दोदोकरदो
दोनोदामसुजावेः भोद्दा
भुगतदीदारनंपावेः ॥३॥
जोपजुगतबीनाभुगत
नापावेः सरगचकातोफी
रफीरआवेः ॥४॥ चारव
दनीचीदीजोआईः आपरजो



मद म हेदी सदा करी जा

नोः आ षर जो दम हेदी

पछानोः ॥१२॥ः

॥श्री सदा गोर ब्रह्मा हो

वाचाः॥जी हो जो दबी

ना कोइ भुगदाना पावेः

वाहा जाहा जो दाउ

पावेः॥१॥ः जी हो चार व

दना लीषा जो पायाः ष



आजकळवारेःयेक अ
वतारःबाराकोडीसु
सुदरदीनं दाप्याः॥११॥
अवलअलीनेआषर
महेदीःसतकरीजानो
येसाहेबयेकीः॥११॥ःमह
मदमहेदीधरीयानामः
सगलापाईयेउनोकेदा
मः॥१२॥ःजयेसासाहेब
युकरेबोलाःआषरपीर
महेदी(उमारेः॥१३॥ःमह



वसवागोरेनपछदेजो-
आयाःसोफीमाहेथीनु
रहेषाछयाःगहगःजीहोज
बषछुहरसनंनी राहाउ
पाईःभगावाहोवावाहोनो
पाईःगछाःजीहोकवाजु
गमाहेचारअववारःम
छकुमंबाल्हानरसहीअ
ववारःगवाःजीहोसकोसु
रमछुमीरकेदानंवमारो
हरनाकासजलीयामरोव ःदः
जीहोत्रलाजलगीयापा



सुदरसन ना मारग पाया२:
जी हो हर हर जुग मा हे:
वेद उपाया: आथरुन व
द लइ श्री नीकळंकी आ
या: ॥३॥: जी हो आप स
माया ने आप जुं माया:
ब्रह्मा वीरंचु ब्रह्मये सर
भेक दीषाया: ॥४॥: भा
इ येक सो हीपन भेक फी
राया: दस अवतार आ
पहीआया: ॥५॥: जी हो ज



जीहोनवकरोकी सुपा
ऊंव मुक्या: रहीगया
तेअवसर चुक्या:॥१७॥:
जीहोजव जगमा कल
जुग उपाया: दुई अलप
नेघरमें बुलाये: ॥१८॥:
जीहोजव नीकलंकी अ
पनीजोत उपाई: बारा को
डीस्वामी वैकुंठ जाई: ॥१९॥
जीहो हईतानेमारेने भग
तोनेराजकरावे: अनंत
कोडीस्वामीवैकुंठजाये: ॥१०॥:



चकरोडीः भुल्यापापीदा
होनेराहाछोडीः॥१७॥ जीही
वाभनंफरसरामंः राम
जोआयाः त्रेतायुगमा
हेअवतारपायाः॥१८॥
जीहोबकीसासा अरजु
नःदसासीरभाज्याः सा
तक्रोडीसहरीचंद्रताज्याः॥१९॥
जीहोक्रस्नंरुपबोध अव
तारःद्वापारजुगमाकसं
जारजोधनंभाज्याः॥१९॥

क्रेताजुगमाधरमंथाया।

पहेलादपाचक्रोडीःसुअ

मरापुरनोवासः॥१॥तारता

जुगमाधरमंथायाः हरीचं

द्रसातक्रोडीःसुअमरापुर

नोवासः॥२॥ः द्वापारजु

गमाधरमंथायाःपांडव

सापेनवक्रोडीअमंरापु

रीनोवासः॥३॥ः



जीहोजवजानीसाहेब

प्रवच्याःआनेमनमाउप

जोगीनानः॥१८॥ःजीहो

महमदमहेदीबोल्याजी

नानःमुबी(मुसाफरघर

सेवकानः॥१९॥ः

॥श्रीसतगोरब्रह्मांहोवा

चाःआवोमाराभाईछि

नेगतमाहेमळवाःअउ

सटपीरथःनोछेमहेमाः



॥श्री सतगोरभ्रह्मा होवाचाः
पहेलेपाओ ग रुजीनीवाचाः
बीजुरेरुक साचाः त्रीजोरु
रपवः पामसो वीराभाईपी
महोजीः॥१॥ चवथेजुग
पोथी सुवर्णः पाचवेराखु
बंदः छठवे सतपामसोः
वीराभाईपीमसोः॥२॥ स
तवेपाउकसारः आठवे
आवीकारः नवेनवनीरूपा
मसोः वीराभाईपीमसोः॥३॥
दसवे ढुसमंनढुरः अन्य।





ना: ॥७॥: येम बोल्या पी
र हासमहा॥हा: वषउला
मारगवीराभाइउवारीग
या: ॥८॥:

॥श्री सतगोरहा॥हादेव
वाचा: वीरापाछमतीद
लचालसे: जागोपीरपे
गमंवरं: वीराअसीलाष
नेहजाआवसे: मारेगाद्द
लसारे: वीराकायेमंछन



रः भरपुरः बाराहीवर्षे नं
छुटसोःवीराभाई छुटस
जीःगजाःटोरावेअटीसारः
चवदावे राखु मानःपर्थ
रावेपाथपामेंसोवीराभा
ईपामसोःगइगाः सोळावेअ
टीसारःसत्रावे राखुमानः
अटरावे गुरुजीनो आस
वोःवीराभाईआसरोःगइगाः
येकोनीसवोगटागंगाःवी
सवेपर्थ पुराःयेकवीसेअ
मरहवाःवीराभाईआवरं



५।।२०६।।

गंसेलेषाः वीराकायेमछ

त्रपटीआवसेःगत्राईने।

हीनंहीनसवजगके:

हीनंकीनेनहीदेषयाःवी

राहीनंबस्तायेकदाहह

येःहीनंसदागोरबटा।

येःवीराकायेमछत्रप

टीआवसेःगजावीराहा।

हाकुसेनीअलीहयेःमह

महपीरपैगंमवरःवीरा

जबपीरोनेकरपाकीदीः



पटीआवसेःसहीआव
सेजीः॥११॥ःवीराहयेये
गाफलःकेऊन्याहालथीः
माहेदीस्तानसेःवीरादेव
देव्हारेपुजंटीःपायोनही
येकटाव्यःवीराकायेम
छत्रपटीआवसेःसहीआ
वसेः॥१२॥ःवीरालालसु
वानालालसुःजलमेंपी
रआवयाउःवीरापुराहो
चेटोषोजीयेःस्वामीमां

५।।२०७५

।।श्रीसतगोर ब्रह्मा हो

वाचाः दीन दुनीयाना

साहेब येक जीः ।।१।। री

दश्रीद दामे छत्र बीचा

रोजीः ।।२।। छत्र बीचा

रोदो सुधा चालो जीः ३ः

सुधा चालो दोः रदान

बीछाव जीः ।।४।। रदान

बीछावो दोः स्वामी ध

रपावो जीः ।।५।। स्वामीः

धरपावो दोः जीवडा दु



षोलेकीपाबकुरानःवी
राकायेमछत्रपटीः आ
वसेः ॥२४॥ः वीराहा॥हा
कुसेनीनेगुनंगायेः ये
मबोल्याजीनानंवीरा
कायेमछत्रपटीआवसे
सहीआवसेः ॥२५॥ः

॥श्रीसतगोरब्रह्माहो
वाचाःपाछमंदीसाप्र



पा॥२०८॥८

या: सोदोजगपाइयाजी:१२:
छपापजीवीराकीनेनही
जान्याजी:॥१३॥:मोहोरा
पाइजीवडास्वामीनोकहे
वायाजी:१३॥:येकोटार
सेपीजीनेसरगउमाया
जी:॥१४॥ आवरभारीया
पनंराहाजानीजी:॥१५:
बोल्यापीरबापरराबहां
उमाराजी:॥१६॥:राखोस
रनांगवंटाकुरमोराजी:१७॥:



डावजी:॥६॥:जीवकेरा

षावंद दुनीयामेआवेजी:७:

दुनीयामेआवीनेरके

सरवेडायाजी:॥७॥रके

सरवेडायानेवाचाजो

दीधीजी:॥६॥:वाचा

कारनं भोडाकहेलाया।

जी:॥८॥: भोडाकारनं

वीरादीलमाहेडरीया

जी:॥९॥:जोदीलडरी



दीनदयाळःचेतानंहारा
वीराचेतजोःस्वामीआवं
नंहारःआजरेकानाबाळ
जागसेःस्वामीमारोआ
वसेजीः॥१॥ःघोळोनेपाव
लधरतीथरहरेःपापोप
छेरेभगानःअगमेवकुद
कचालसेःरजयाकुळेभा
नःआपदेवआपदेवताः
आपदीनहोदयाळःचेत
नहारातमेचेतजोःस्वा



वकसोगुन्हांयेलोवदां
छुमाराजीः॥१८॥ः

॥श्रीसतगोरहेमाहाद
ववाचाःहसलोधोछ
सानेमोरीयोःउपरज
छीतापसलानःघोछोनेपा
उलेनउरषकहवेःघो
छोवहीछेनीरवानःआ
पदेवआपदेववाःआप



५८८२७०

मीरमसेः आवनहाराः आ
जरेकाना बालजागसेः
स्वामीमारोआवसेजीः ॥३॥
चंद्रसुरीजनोफेरोहाल
सेः राषछे स्वामीनेदरबा
रः कालीगांदानंवनेछेद
सेः छेदसे नीकंलकीराव
आपदेवआपदेवताः आ
पेदीनहोदयालः चेतानहो
रातमेचेताजोः स्वामीआ



मीआवंनहारः आजरे

कानेबाळजागासेः स्वा

मीमारोआवसजीःगरा

मेरुनपवळेस्वामीरम

सेः पवनंगोवीलेसेहाराः

अस्हकुळत्रवपाउण

वसेः करसेरजरजमा

नः आपेदेवआपेदेवना

आपहीनहोदयाळः वेद

नहारानामेचेवजोःस्वा



कुवारेनीवनीवतोराउमा

या: गोरआलमुषेहा: हा

भलेआव्याजी: ।।२।।: गोर

गणसमजावीने: गीना

नसमंला व्या: हवेनवश

हाराजाभलेआव्याजी: ३:

आव्यावंसतोनेसमरण

मोरा: नरफुलडेवास:

वोसाव्याजी: ।।४।।: अमे

तामेसरवीये: स्वामीजीव

माराउमाया: हवेतोसर



वन हारः आज रेकानाव

ध जागसेः स्वामी मारोआ

वसे जीः ॥२७॥ः

॥ श्री सतगोर ब्रह्मा होवा

चाः जगमा फेरो रे मना

हवीः रुषीया; शाहा वोधा

वोगोरे आलमुषेः शाहा

भले पायाजीः ॥१॥ मनः



पान ३१८

आपनो अपने पछाना:हो
मुनीवरा:स्वामीनाघरवा:
मेसेवो:॥१॥:पाचीधावदा:
मनेवर जीने लेवो: दील:
कायेम सुचीदलावो:॥२॥:
साचा सुकरीददमेचालो
होवीरा:मारा करनी कमा:
वो:॥३॥:साचा सुकरीद-
दमेचालो होवीरा:दो होन:
जीवजानीपना:॥४॥:नीपं:
नादेदो अमरथया:स्वामी:



वेआसाधुमारीजी:॥९४॥:

तामेसेवोरेभाई:गोरेआं

टाछुजाईयेःमाईनकाांत

हाहाभलेपायाजीः॥९५॥:

येमबोल्यागोरईमामहा

हाःसुनोगतसारीःमाई

नकांतेहाहाभलेआया

जीः॥९६॥:

॥श्रीसतगोरहाहादेववाचा:



पा८८७३८८

नीवराः भवरपालषीपा

होडीयाः॥२॥ः भवरपाल

खीपा होडी टाः कहोके दे

गुनं होयेः कायादोनीक

चलीझल हकेः वरखनुरा

ना होयेः॥७॥ः धीरे धीर

मुनीवराः धीरे सब कुछ

होयेः माळीनं सींचे सीरघ

डाः रुपआवे फळ होयेःभः

येमंबोल्यानरनारायेन



नाटोजमाहेसमायाः॥५॥ः

लाभलोभनेःउकराधा

जीःटोजीवजुगांनजुग

वसीधाः॥६॥ःअवता

रनेपछानाःजीःछेदेव

षयानहीःटोटोअधाः॥७॥ः

गोरनरमुषेहामीनाम

नाआटेटोःमनंमारग

जीवरुध्याः॥८॥ःयेमक

हेछेसवगोस्त्रगांहोमु



पान २७१

अपार:॥३॥:जेने भानीक
वनजाया: सो पुरे बनं जा
रे:॥४॥:गुरु सुहेदवना धर
सो: सो षरे बैह्नं हार:॥५॥:
दोहीहारना लहसे: दोअय
लाउनंपार:॥६॥:चीदाषर
होइवीका सो: आइमीला
होपीयार:॥७॥:गुर सुहा
लनी बेज़ो: सदागोरानुर:
पीयार:॥८॥:येदोरहेनी
सुभाग:जेदीन गुर ब्रह्मा



वीनंती: षालीक सरवोषा

लीक जान: भववदोगुन

गारहये: प्रभुपुहीवकस

नहार: ॥१२॥

॥ श्रीसतगोर ब्रह्मा हो

वाचा: गुन तेरे गुसाई

या: बकसो दोस हमारे: १:

सब सार मा फुला: पफुल

फेदीन चार: ॥२॥: पीउंका

याहोकाची: पवन सुने हे



पाना२५६॥

मेलो:गुरु ब्रह्मा जी दीवा
न:॥१४॥:येतो आमीयेम
माहारस:पीर सुदर दीन
सुनाया:॥१६॥:
॥श्रीसतगोर शाहा देववा
चा:साचा गुही रे गोसाई
या:अवर दुजा नही कोई:१:
दील देखो रे भाई:गुरु बी
न मुगत ना होई:॥२॥:गो
रनर सरीहो:येमनं धाव
तावाले:॥३॥:पाची मा



जान्या: ॥११॥: पी (कु छ दो हे

ल राजे: हीं दोका दीयोवा

या: ॥१४॥: श्री ग स्वा बाजे

गे: (कुर का स्वामी जी आ

व्या: ॥१५॥: सर वी उ म पा (कु

नया: आष र दो स्व (मना

या: ॥१२॥: येवा आया हो

ब्र(ह्मा: अपना नामें (सुना

या: ॥१३॥: येवो आले मोप

नें ग (कु बैठा: गोपी गोवीं

कान: ॥१४॥: येवा दो त्री सा



५८८२६८८

कदरषात्वीखायारमुख्य

मंत्रीरा॥राबेली:॥६॥:पर

दामेबोघोरेआपे:याहाप

रबोघोअउर:॥७॥:हील

हालकमावो:सोहीहार

रेमहाके:॥७॥:गुरुसुचा

रीनाकीजे:गउसरवहा

मोडी:॥९२॥ छपीकीघर

जावोगे:षालीकासुचो

री:॥९३॥:दामेहोमुनीवरा:

होपोघरमनाघोरी:॥९४॥:



प्रभु दावारे: अद्यो करना

क भाव:॥२॥: दुनंयासोना

रवाजी: छुटाये जगधद्दी

गाफल फीरे अनं भेदी: सु

कनं जाणे सो अंधा:॥६॥:

आगा कनही अवतार:

स्वामीका हीचलीत्रक

रता:॥७॥: आज मानु

सरुपे: स्वामीका हेकार

न आव्या:॥८॥ पाली:



५८८२७५०८८

जोगीकोघुंदजुगगयेक
दोदीनभयेः जोगीकीननही
देषयाःकागदलीषनीलेर
हयाःसाइभागांदलेषाःजो
गीकोघुंदाजुगगयेःक
दोदीनभयेः॥१५॥ः जोगीक
हादाउधरीयाः हीराभा
नीकजडीयाः जैसा लेदा
वयेसा देदहेःसाइहयेदी
लदरीयादः जोगीकोघुं
दाजुगगयेःकेदोदीनंभयेः २



तमेजावारकेसरः बा

बोसतनीपालीः ॥१६॥ः

याहाकोइआवासेषोजा

षोजलेसैन्याहाकीः ॥१६॥

याहाकोइमायेना बाप

याहाकोइबिहनीनाभा

इः ॥१७॥ः येभंबोत्यासे

तगोरशाहा देवः ॥१८॥ः

॥ श्री सतगोरब्रह्मा होवाचाः



जोगीकीरहेमपजोकरे:
उसेदेउलाष:कानंगोवा
लनंभाषेलहै:साईहिये
रेगोसाईया:जोगीको
कुंडवाजुगया:केटोदी
नभये:॥६॥:कपडेधोवे
जोगीमेरानामीले:दी
लखोवेतोपावे:गुरुशाह
देवयेमकहे:आपसाधु
कहेलावे:जोगीकोकुडवां



जोगीमेराचतुरसुजानं
हुयेःआपभस्वदीवानःज
गमामझोलीमाडंरहुयाः
घरलीअसमांनजोगीको
धुडंलाजुगगयेःकेतेदीनं
भयेःगजाःजोगीसोजीन
जुगजडयाःअवरसोमु
द्राधारीःजोगीजुगमाहे
येकहुयेःबाकीसरवभीक
रीःजोगीकोधुडंलाजुगग
येःकेतेदीनंभयेःगजाः



५८८२९२८

त्रबणकवलासःफुकेउजा

वसेजीः॥६॥ःसोहीदीनमा

येनबापःकोइनहीआव

सेजीः॥७॥ःसोहीदीनंक

रनीकमावोःसोहीसाटे

आवसेजीः॥८॥ःचीनमा

हाचीनंनगःस्वामीजुहा

कसेजीः॥९॥ःचीनंमाहे

चीनंनालोकःसमुद्रकुवा

वसेजीः॥१०॥ःसुरजारानी

हाटेवंजोक।दइटानेमार



जुगगये:केतेदीनभये:॥६॥:
॥श्री सतगोर ब्रह्मा होवा
चा:॥:पुरुसपरसादे स्वा
मीआप:जंबुमाहे आवी
या जी:॥१॥:स्वामीहाट
पाडो टीरीधारा:टइटा॥
नेमार सेजी:॥२॥:हनवं
दावानंदसइनि:पाछमथी
आवसेजी:॥३॥:नदीया
वाहादानोनी:अरदद
हाकसेजी:॥४॥:गीरीहो



श्री सदागोरब्रह्मा होवा
चाः सतपंथ दोराः साचा
काजः गणाः सदागोरपा
इयेः कल जुग आजः घराः
आजकल जुगमाः सरव
ही सुकीः गञाः आमीपी
वे दोः अगंन बुजीः गञाः
बुझी बुझाइः दामेके म
करी जानीः ॥६॥ः सदागो
रकहे दोः दील माआनीः ६१।
दील माआनीः दोचयान्याः



सेजी:॥११॥: दसवेनी कं
लकीनाम: सोभागउदार
सेजी:॥१२॥: इद्रिं रायानो
फरमान: वाजिंत्री वजा
ड़ सेजी:॥१३॥: घोडे घोडे
सकेनो नादे: स्वामीपुरा
व सेजी:॥१४॥: भेरी आल
भ सीरी छत्र: भरन भरा व
सेजी: गंगान ढुला व सेजी:१५:
कमंला कुवर सीरी छत्र:
भरन भराव सेजी:॥१६॥:
बोल्या दो इद्रिं इमाम: सो
हीनं आव सेजी:॥१७॥



सतपथंभुलाटाः रोज
कपाईयेः॥१५॥ः अब कीय
रोवेः मेरे भाईः॥१६॥ः हो
जगकुटा बका आहारः१७॥
बडे बडे बीछु बकेबके
अगारः॥१८॥ः प्र ओवी
रनु भये सर येकः॥१९॥ः
आज कल जुग माः मानु
स भेकः॥२०॥ः इन भेकका
जाने कोयेः॥२१॥ः जोजा
नेसतधरमी होयेः॥२२॥ः



अयाः॥७॥ः चारकलप

मेः ब्रह्मकूं कायाः॥८॥ः

चवजुग ब्रह्मांकोः सर

वेख्यावेः॥९॥ः करमल

खायाः सतपंथ ही पावेः॥१०ः

सतपंथ भुलातोः दोज

कजावेः॥११॥ः जलता

बलताः तोबा ख्यावेः॥१२ः

तोबा ख्यावेः अब क्या

होवेः॥१३॥ः जलमंज

लमकोः बैठा रोवेः॥१४॥ः



र:॥३०॥: कमरा बाधी जु

क पुकार:॥३१॥: दानवमा

रेव सुमार:॥३२॥: अभायो

सनु: काना होई: रा हानवी
३३॥:

की: जानना कोई:॥३४॥:

कल जुगमा हे वारवा:

ध्यान:॥३५॥: सदागार

रा॥ हादेव बोल्या गीनान:॥३६

श्रीसदागोरब्रंम्हा होवाचा:

होहोरे भाई: मेघउं बरसी

रीछत्र धरावसे की:॥१॥ा



सप चरम केरा व दुआ

चार:॥२३॥: राषोकी री

याटो उपरोपार:॥२४॥:

अबाबकर उसको मान:२५

शाहा कबीरका साचा

दीनान:॥२६॥: जेटीक

हीये: पांटी भली:॥२७॥

दादा उनोके हजरत अ

ली:॥२८॥: चार खुटीके

चारयार:॥२९॥: उस

मेअली दुलदुल असवा



होहोरे: भाई: त्यारेगाफील

कायेकरसे:॥६॥: होहोरे

भाई: त्यारेगाफीलहोयव

ससे:॥७॥: की हो होरे: भाई

जंबुद्वीपस्वामीपाकपरं

चोवसे:॥९॥: की हो होरे:

भाई: पाकपवैसीने स्वा

मीनजरकरसे:॥८॥: होहो

रेभाई: कार्कीगानानीरवं

संकरसे:॥७॥: की हो होरे:


भाइरिाजलइने रषीया।



होरे भाई: जुल पुकार अ
रथ कुल कुल च उ से: की: २:
हो हो रे भाई: अउ ट घ डीरा
मी कर र रें चा से: की ॥३॥:
हो हो रे: भाई हजार पचास
नो येक दीन कर से: की: ४॥
हो हो रे भाई सी प चे ने जे
सु री ज आ व से: ॥५॥: हो
हो रे भाई: पाहाउ पर व द
ज डी व डी जा से: ॥६॥: की



जाहेरजापधमनायाहोस्वा
मीजीःगाथाःजोवदामेरकेस
रासरजाहोवेदोःभलीवसी
रुपपछानोहोस्वामीजीःगाथाः
नुरनीकोटकीस्वामीजीवेदवाः
सेवेदोगणवीचारीहोस्वा
मीजीःगाथाःरीणकीरीदाहव
जुगदाभकीयाःहीजोलीजा
नजरनीहाकीःहोस्वामीजीःपः
दुजकारनंभुजनीरंनआ
वेःभुख्याभोजननभाव


realpatidar.com
नेदेसेः॥१२॥ः होहो रेभाई
यारेहोरानां दवाजसेः॥१३॥
कीहोहोरेभाईः बोल्याई
मामेहाहामुसकीलना
होः॥१४॥ः
॥श्रीसवगोरब्रह्माहा
वाचाः तुहीगुरः तुहीब
रः तुहीतुअभ्यासीः सेवा
पोगपवीचारीःहोस्वा
मीजीः॥१॥ः दीनंहोईने
देवदुनयामांआव्याः
realpatidar.com



परदेसेदमामोहोस्वाःहोस्वा

मीःगजाःकारमंदेसमाहाक

रमहोसेःस्वामीराजाकर

असवारीहोस्वामीजीःधराः

बोल्याईमामहाहासुना

भाईमुनीवराःछेलोआ

ईछेघरहोस्वामीजीः१२ः

ाश्रीसतगोरशाहादेव

बाचाःमःभाईमीहुबो

लेननमीचालजोःआन

मीहुबोलेबहुसुषथा



होस्वामीजी:॥६॥ येकफी

करमुनीवरछुम्हारेपर

उपजी: रखेपामेवेईमा·

नथासोहोस्वांमी:॥७॥:

अयेसाहाजोरेवारह्यना

या: अनंतषीया: सहीकी

धाहोस्वामी:॥८॥: जंबु

दीपमाहेईमाभपुरनगरी:

स्वामीजीनलीधोअवता

रहोस्वामी:॥९॥: देईलिईनि

स्वामीवस्तारपहेरसे:आ



वाहीरा सोये:॥३॥: भाई
सोनारूपा माहे साच हे:आ
नेदीजे अगननी के स:जो
वाजरसा येन गालीये:टा
कथीना होवेरस:॥७॥भा
ई:सहस्त्र पचासन भोग
वीने:आनेआवे मन खा
हेहे:गोरईमीमंटानावा
लख्या:जेम दीवा वीउचा
मेकहे:॥८॥: तो जीवनोज



येः हसं थईनिचाल सोना

मोतीनोचारोचरायेः ॥१॥

भाईकाचरतनंपहंनता

रोः आनेकसतापाईयेभा

ताः काचकमायावीषभ्याः

आनेरतनंउजालीरातः ॥२॥

भाईसाचीकसोटीअप

नासाहेबनीः आनेकाचा

नाटुकटुकथायेः अहेर

नघनवचघरकरेः तोसा

माराभाइसिवासः नहीतो
तोरनंथकीपाछाफरसोः
तोरहसोहोजपनपासः॥८८॥
॥श्रीसतगोरहाहादेव
वाचाः अरवदेसमाहे
हरीअवतारीयाः श्रीनी
कलंकीनामहंनायाः१ः
जीहोपाछमंथकीअप
नोः स्वामीराजाआव
सेःतोसेताअरथपला
नाः गरनजीहोसेताघ

नमारोअलगोगयोःआ

नेकुबातेदरीयाव माहेः

तेच्यारजुगनोच्योरछेः

तेनीकोनजानेवाहेः॥६॥

समलफुलसुमोहीरहयोः

आनतेवाआयासनंसा

रः आवता आव्याहरषमा

हेःपाछजाताहोहलीया

६ःगछाःकनेईमामशाप

मेमुनीवरोःतारारल.



डाः दा श्रदेक आप दीवानः ७ः
आमीआमारस बोल्याःगो
रखहीः दोन रच रूपसेनी
रवानं जीहाः ॥८॥
॥श्रीसदगरवा हीदे ववा
चाः कुनबीकरसानं की
जीयेः सुपसुर हीयेससा
रः हानं दया लजीना दु
हीयेः काइहोय रेउगारः
कनबीकीरसानं कोजी
येः वीरार वाजीवावीयेः



डाःनेसेवा देजाः दासेवा
दाबलनी हान:॥३॥:जी
होउंचे गफमुलस्दानंन
षदरचांसे: दोबैटसे:ष
भादानः॥४॥:जीहो ब्रह्मा
केघेरदमे: देवा दसवदा:
दोसनीराखा दुनंयाखु
फानः॥५॥:जीहादीयाउ
मारा: हजरदलषीया:तो
फ्रदोकस्वामीदीयान:॥६॥
चोरसाफकाहावेनीवे



पानं ३०११

बे:१२२म:मननेपवनबे छुः

बलदीया:दोऊरासेहोराष:

संतोकनाजीयेनाकजो:ग१

हमोकमकरीवाल:पुननो:

पुरानोकरघरी:गीनानेही

जेआर:कनंबीकलमाकर

सनंकीजीम:सुषसुरही

येसंसार:दानंदयालजी

नाछुहीये:रामंनेहोयेर

उगार:कनंबीकरसानकी

जीये:वीरारेवाडीवावीये:३१:



हंसाजी करोरे: हंस पारो:
मोपार सेजो रे सार: अ
नंतार:जामीनुवोछु क
री: हंसहा कोयने रेचा
स:॥१॥:कनबी कीरसा
नकी जीये: सुष सुरहीय
ससार: दानंरया लजीने
छुटीये: पामन होये रेउ
गार: कनबीकी रसानकी
जीये: बीचारे वाडी वावी:



५।।८२३९८

डायेः कालना खुट्टवारेना

खीका हाडी जेः जळबग

जळजायेः कल माकरस

नकीजीयेः सुषेर हीयेस

सांरः दानं दयाल जीनेद्ध

दीयेः दामंन होये रेउ गारः

कनं वी करसन कीजीयेः

वीरा रेवाडी वावीयेः ॥६१॥

वीरा काल क्रोध जाला

खुट्टछेः मुल स मुल सु-

काउः काडीने सोइेना



सतरुपभेलीने:वावजो:
वेलावहीवहीजाये:पछे
करताताभेवोरथा:फोक
टकेराहोरवाये:कलमाक
रसंनकीजीये:सुष रहीये
संसार:रानंदया तजीन
छुटीये:तामनेहोयेरउगा
र:कुंनबीकरसंनकीजी
ये:वीरारेवाडी वावीये:
सतानीकरवाडीयेवीरा:
कलवोजो:रषेछोडव



न उछीकरीजाईये: सुषसुर
हीयेसंसार: दानदयालजी
नेछुटीये: धर्मनेहोयेरउ
गार: कनंबीकरसानकी
जीये: वीरारेवाडीवावी
ये: गछ्या: वीराआजिकल
वाडीरेसोहेली: वरवा
रामंनाराज: मनेगोरस
रुरेवरुसेसरो: वाडीवा
वोनेआज: सहेसवारव
नरेकलनीपजे: येकोतार
सोआगलथाये: कलम



षजोः षेटारचो खुरे थाये:
कलमाकरसनं कीजीये:सु
षसुरहीये संसारः दानंदया
लजीना छुटीये: पामंने हो
येउगारः कनबीकरसानं
कीजीये: वीरारेवाडीवावी
ये: गहगा: पापीपंषे करे टाह
रा: सावजषेटारबनंसाजी
रेजाये: भनंनोमालोक
रीः हेवजो: पापीपंषीउजी
करीजाये: कलमाकरस



मानतेपाचीवालोः तो
बीजुसुद्दाकेमपडसो
हेजीः।।३।। गलाजोप
डवानीवीगततजानसोः
तोस्वामीजीनीसेवा
केमसुकेः।।४।। सहज
सलानीमननासतोसीः
तोचदनपारसघसावेः
रतनजीकरनाःजेनर
लाभीःतोसावलीचह
डसतेहसाहेलाः।।५।।



करसनकीजीयेः सुष सुरा
हीयेससांरःहानंदयालजी
नाछुटीयेः तमनेहोयेउ॥
रःकनंबीकरसनंकीजीयेः
वीरारेवाडीवावीयेः॥८॥ः

॥श्रीसतगोरहा॥हादेववा
चाःगोरने पुछी पुछी कर
नीकमावोः तोकाजतमा
रासरसेहोजीः॥१॥ः भाता
पीताअमरापुरीपोहोच्या
तोतारीयेकोतारस पीडी
याहेजीः॥२॥ः पहेलेफर



दोना दरसन कीजेःसु
बाहुईरेमरद्योःसुबोहु
ईरेमरद्योःसुईनिरहीयेः
जागीजागीनेहरीन
नामलीजोःसुबाहु
ईरेमरद्योः गंगाःदाये
दीआसाकरीःहुचल
करआवीः दामारीअ
साकाभगंपाछेःसुबा
हुईरेमरद्योःहुईनिरहीः



टारादीलमावसेहोः

षुद्दाजीः तो द्दाचनपक

ड्यापछ्यानोः ॥८॥ पी

रसुद्दरद्दीनं बो त्यागी

न्यानः तो मुनीवराजो

वो वीच्यारी हे जीः ॥८॥

॥श्रीसतगोरब्रह्मा हो

वाच्याः ऊ६ऊ६ नरनीरं

कुवाः तो ने फुरा आवीनी

हाउवाः दीदारदीजेः



येजागीजागीनेःहरीना
नामंजोलीजेःसुबाकुई
रेमरहेःगजाःनुरनाक
चोकांआमीयेःभरीकरी
लाउःआगंनेआउटोः
कोइनापाउःसबाकुई
रेवहेःसबाकुईरेवहेः
सुइनिरहीयेःजागीजा
गीनोहरीनोनामंजोली
जेःसबाकुईरेवहेःगदुाः
फोकटफेराअमनेकाये
फीरावोःचउरमरहअ
मनेकाहेफरावोःसबा
कुईरेमरहेःसबाकुईरे



ये:जागी जागीने हरीनो
नामें जो लीजे:सुबो कुई
रेमरदो:॥२॥ आठपोहो
रकळजुगनी:ने सोपो:॥॥:
येकघडीरे मरदोमाजसु
नपोटो:सबाकुईरेमर
दो:सबाकुईरेमरदो:सु
ईनिरहीये:जागीजागी
नेहरीनोनामेंजोलीजे
सुबाकुईरेमरदो:॥३॥:
साटामेभवनंथीकुराच
लकरआवी:पुरेनीद्रां
कुवोनीद्रांमारावे:सुबो
कुईरेमरदो:सईनारही



करेयोः रेखहोपामन

फुक्टफेरोः सबाकुईरि

मरदोः सबाकुईरेमरदोः

सुईनिरहीयेः जागीजागी

नेहरीनोनामंजोलीजोः ८

लेनीघडीछेनुरनीवेणाः

पुकेमवलुंदोछेः दनीया

नामेवाः सबाकुईरेवं

दाः सबाकुईरेवदाः सु

ईनिरहीयेः जागीजागी

नेहरीनोनामजोः ली

जोः ॥९॥ जुगसघेहवा

पुचेलीनेसकोः आसा



मरदोःसुईनिरहीयेःजा
गीजागीनेहरीनोनाम
जोलीजेःसबाकुईरेमर
दोःगद्गःसउयेमलीने
अमनेसाकंसुसोपयाः
गोरक्षब्रांजीनेसाकसु
सोपयाःसबाकुईरेवं
दाःसबाकुईरेवंदाःसु
ईनिरहीयेःजागीजागी
नोहरीनोनामेंजोली
जोःसबाकुईरेवंदोःफः
सपकोलकारनअमने



५८८८३७८८

छेः॥भग॰ देव(दुवा र छेःम
हनीवेलाः(उ)अमने का
पा छे छेः(फु कह फेराः सबा
(कुई रेमर दोःसबा(कुई
मरदोः सुईन रहीयेः जा
गीजागा हरीना नामलो
जोः सबा(कुई रेम रदोः१२:
पोरचेवा अमन नरा स
वोकावोः सबा होयरा
फरीकरी आउः सबा
(कुई र वदोः सबा(कुई
वदोः सुईन रहीयेः जा
गीजागी क[illegible]ीना नामला जे:१३



दीदीरे पोनीः आसापुरेः
सबाकुईरे मरदोः सुबा
कुईरे मरदोः सुईनिरही
येः जागीजागीनोहरी
नोनामंजोलीजेः स
बाकुईरे मरदोः॥ श्लोः अ
मनमभेका भीस्वजक
रेःएकावसुदोछेः स्नी
यानामेलाः सबाकुई
रेबदोः सबाकुईरेब
दोः सुईनरहीयोः जाग
जागीनेहरीनोनाम
लीजोः सब कुईरेमर



गी हरीनो नाम लीजाः॥१५॥
सउं सरथी समानीः माफ
इरि हसाईः भुज रे अबुज
न झाल्यो छे पालवः सवा
फुइरे मरदोः सबा फुइरे
मरदोः सुइनि रहीयेः जा
गीजागी हरीनो नाम
लीजः॥१६॥ः अमीनाकं
चोकाद मेः ये लेरे वाको
टोरे लइने अमेः घास
माडालुः सबा फुइरे बं
दोः सुइनिरहीयेः जागी



हसथारेरमतीःकुरासर

गथीआउःआगनेआ

कुटोःनीरासचळाउःस

बाकुईरेमरदोःसबाकुई

रेमरदोःसुईनिरहीयेःजा

गीजागीःहरीनोनामः

लीजेः॥१७॥ येबोकोनं

टानेगोहीयोःमलीयोःउ

मरकुराछोडीनेःसरग

टीहलीयोःसबाकुईरे

मरदोःसबाकुईरेमरदो

सुईनिरहीयेःजागाजा



५८८२३८८

सादुनामेछाःसबाकुइ
रेवर्दाःजागीजीगीहरी
नोनामंत्लीजोःसबाकु
इरिमरदोः॥११९॥ अपनी
करनीछेमरं रायानीःजा
नोछोगोरख्र कांजीक
रासाथःसबाकुइरिम
रदोःसुइनि रहीयेःजा
गाजागीने हरी नोना
मत्लीजोःसबाकुइरि
मरदोः॥१२०॥ःदासाकुक
रछेःऐसारेमलाःदाज



जागीहरीनानामलीः
जेःसबाकुईरेमरदोः॥१७॥
साचारेमारगयेनीपे
रपाईयेःचारवषदातो
आपगमाईयेःसबा
कुईरेमरदोःसुईनिरहो
येःजागीजागीहरीनो
नामंलीजेःसबाकुई
रेमरदोः॥१८॥ःसबाब
फोरनेसाजनीवेलाः
आजषरीमहरादाछेः



पान २७१

रीआ सा पुरन कारन : आ
वी : देवजानी रषे : चीतजे
लावो : सबा कुई रे बद्दो : स
बा कुई रे बद्दो : सुई निरही
ये : सबा कुई रे मरद्दो : जा
नी जागा हरीनो नाम ले
जे सबा कुई रे मरद्दो : गरआ
बोल्या ईमाम शाह मे स
ताक बीजानो : सत गोर
वचन पाम्ये सांच धरमा
नो : सबा कुई रे मरद्दा
सुई नरही ये : जागी जा



रेत्र बुजनेनीत्रंना मे
ला: सबा कुइ रेवदा:जा
गीजागी हरीनेनामली
जे: सबा कुइ रेमरहो: सु
इनिरहीये: जागीजागीह
रीनानामंलीजे: सबा कु
इ रे मरहो: गरणा: येस कु
मलीयाछे सपना सुख्ला
गी: रषमेलपाओमन
भुलावी: सबा कुइ रेमर
हो: सुइनिरहीये: सबा
कुइ रे मरहो: गरणा: पामा



ब्रह्मनो माहा ब्रह्मजा
नो नहीः छे पुवी सच्या
रेः पुपो गोरकीधा रेअ
नेक पोने पारु सच्युरेः ॥२॥
पोपो वीस्नुनो माहा
वीस्नुजानो नहीः छेपु
वीसच्यो रेः पोपो परप
गन पुजीया पायेः पो
पोपारुनं सच्यु रेः ॥३॥
पोपो जोगना माहाजो
गजानो नहीः छेपुवी
सच्यो रेः पोपो मुकुम



गीहरीनोनामलीजेः
सबाकुईरेमरद्येःकुरा
केरोवचंनपामेसाचत्र
मानोःसबाकुईरेमरद्येः
सुईनिरहीयेःजागीजाः
गीहरीनोनामलीजेःश्व्वः
श्रीसपगोरक्षमां होवा
चाःटोटोदेवनोमाहा
देवजानोनहीःछेघुवी
सज्योरेःटोटोपुजीया
जलपाषनःटोनेतारु
नसज्युरेः [illegible] टोटो



२४२२॥८

रपाजानेन हीः छेपुवी
सच्योरेः पुपोजाग्यो
छेलाष्यो दीवसनराप
टोने पारुनासच्युरेः॥७॥
टोटो जगननो माहा
जगनं जानोनहीः छेपु
वीसच्योरेः टोपोदान
कीधारे आनकः पोन
पारुनासच्युरेः॥८॥
टोटोदेवना माहादेव
जानोनहीः छेपुवी
सच्योरेः पुटोअरजोदी



छांव्याआनेकः तोनेतारु
नासत्युरेः॥२॥ तोता
जातारानीः माहाजात्रा
जानेनहीः छेतुवीसत्यो
रेः तोता देवलपुजांरेआ
नेकः तोनेतारुनासत्यु
रेः॥३॥ तोतो तीरथना
माहातीरथजानेनही
छेतुवीसत्योरेः तुता
भमीयोदेसवदेसः त
नेतारुनसत्युरेः॥४॥
तोतोवरतनोमाहाव



पान २४१

रे नाजानेअजपाजाप:
टोनेटारुना सच्यु रे:॥१२॥
टोटोध्यानंनो माहाध्या
नजानुनही:छेतुवी
सज्योरे:तुटोधरीबेठा
वगध्यान:टोनटारुना
सच्युरे:॥१३॥:टोटो मा
यानामाहामरमंजान
नही:छेतुवीसज्यारे:
टोटो राषीकछमंनीला
ज:टोनेटारुनासच्युरे:१४
टोटोकाळनामाहा



वसनेरात्रः तेने तारुना
सच्चुरे ॥१॥ तो पो होम
नो माहा होम जानो नही
छे पुवी सच्यो रेः तो ता
होमीया पाक ने जपः ते
ने तारुना सच्चु रेः ॥२॥
तो तो तापनो माहा तापज
नो नहीः छे पु वी सच्यो रे
तो तो तापकी धारे आन
कः तेने तारुना सच्चुरे ॥३॥
तो तो जापनो माहा जाप
जानो नहीः ... वी सच्या



तोने तारु सर्व स्युरे:॥१॥
तेतो ब्रह्मनो माहाब्रह्म
जानीयो: छे पुरा षउरे:
तेतो जानी कीधा सत
गोरः तोने तारु सर्वति
रुरे:॥२॥: तेतो वी स्नुनो
माहावी स्नु जानीयो:
छे पुरा षउरे: तेतो पर
तीग पुजी येपाये: तोने
तारु सर्व स्युरे:॥३॥
तेतो जाग्नानी माहा
जात्रा जानी सही: छे पु



काळजानोनहीः छेउवी
सज्योरेः नासोपीयोजी
वनापीउ तोने तारुनास
ज्युरेः ॥१२॥ ये मेंबोलीय
इद्रि इमामः छे उ वीसज्यो
रेः तो तारवादो चवज्यासी
नोमारः तोन तारुनास
ज्युरेः ॥१३॥
तोतो देवना माहादेवजा
नीयोः छेउ रावउरेः ता
तोपन तंगवीप्वीछे सव



छे पुराष उरे: पुला ला
गो छे गपनापाये: तोन
तारु सर्वसिध्य रे:॥१६॥
तो ताजोग ना माहाज
गजानीयो: छे पुराष
उरे: तोताजानी मुडं व्य
मुडं: तोन तारु सर्वसिरु
रे:॥१७॥: तोता तीरथ नु
माहा तीरथ जानीयु: छे
पुराष उरे: गपा गंगाकी
च्याअसन ... तोन तारु





realpatidar.com